



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 9—दिसम्बर 15, 2006 (अग्रहायण 18, 1928)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 9—DECEMBER 15, 2006 (AGRAHAYANA 18, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुम्बई, दिनांक 26 सितम्बर 2006

एसबीडी क्र. 8/2006-07—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 25, उप धारा (1) के खंड (घ) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार-विमर्श के बाद भारतीय स्टेट बैंक प्रो. वसंत पी. गांधी के स्थान पर प्रो. (डॉ.) भरत के. ओझा, प्लॉट नं. 1661-अ, 'स्वाति' गोकुल सोसायटी, सरदार नगर, भावनगर-364001 को स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के निदेशक पद पर तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 3 अक्टूबर 2006 से 2 अक्टूबर 2009 (दोनों दिन सम्मिलित) तक के लिए नामित करता है।

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 27 नवम्बर 2006

नं० 13 - सी०ए० (परीक्षा)/सी.पी.टी./फ०/2006:- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार, दि कॉंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि सामान्य प्रवीणता परीक्षा की परीक्षा रविवार, 4 फरवरी 2007 को सुबह 9 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक दो सत्रों में निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.):

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 25 डी (3) व पाठ्य-विवरण जो कि दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनरल के अगस्त 2006 अंक में पेज संख्या 291-293 में छपा है के अनुसार)

सत्र-I (प्रातः कालीन सत्र)	प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक (भारतीय समयानुसार) खंड क - लेखांकन के मूल तत्व खंड ख - वाणिज्यिक विधियां
सत्र-II (दोपहर का सत्र)	दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक (भारतीय समयानुसार) खंड ग - सामान्य अर्थशास्त्र खंड घ - परिमाणात्मक अभिक्षमता

परीक्षा केन्द्र :-

1. आगरा	26. दिल्ली/नई दिल्ली	51. कोल्हापुर	76. रोहतक
2. अहमदाबाद	27. धनबाद	52. कोलकाता	77. राउरकेला
3. अहमदनगर	28. दुर्ग	53. कोटा	78. सहारनपुर
4. अजमेर	29. ठरनाकुलम	54. कोट्टायम	79. सेलम
5. अकोला	30. ईरोड	55. कोझिखोड़	80. सांगली
6. इलाहाबाद	31. फरीदाबाद	56. लखनऊ	81. सिलीगुड़ी
7. अलवर	32. गाजियाबाद	57. लुधियाना	82. सोनीपत
8. अम्बाला	33. गुन्डूर	58. मदुरई	83. सूरत
9. अमृतसर	34. गुडगांव	59. मथुरा	84. थाने
10. आनंद	35. गोहाटी	60. मेरठ	85. तिरुवन्तपुरम
11. आसनसोल	36. ग्वालियर	61. मुरादाबाद	86. थीसूर
12. औरंगाबाद	37. हिसार	62. मुम्बई	87. तिरुचीरापल्ली
13. बंगलौर	38. हुबली	63. मुजफ्फरनगर	88. त्रीपुर
14. बरेली	39. हैदराबाद	64. नागपुर	89. टूटीकोरन
15. भठिन्डा	40. इंदौर	65. नासिक	90. उदयपुर
16. बेलगाँव	41. जबलपुर	66. नोयडा	91. उडुपी
17. भीलवाड़ा	42. जयपुर	67. पनीपत	92. उज्जैन
18. भोपाल	43. जालन्धर	68. पटियाला	93. वदोदरा

19.	भुवनेश्वर	44.	जलगांव	69.	पटना	94.	वाराणसी
20.	बीकानेर	45.	जम्मू	70.	पिम्परी-चिंचवाड़	95.	वल्हौर
21.	चण्डीगढ़	46.	जामनगर	71.	पोंण्डीचेरी	96.	विजयवाड़ा
22.	चेन्नई	47.	जमशेदपुर	72.	पूना	97.	विशाखापटनम
23.	कोयम्बटूर	48.	जोधपुर	73.	रायपुर	98.	यमुना नगर
24.	कटक	49.	कानपुर	74.	राजकोटा		
25.	देहरादून	50.	करनाल	75.	रांची		

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षाकेन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा की परीक्षा के लिये आवेदन पत्र, जो कि सूचना विवरणिका में संलग्न है 5 दिसम्बर 2006 से उपलब्ध होंगे, जो कि दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, आईसीएआई भवन, नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 400/- रुपये (रु0 300/- परीक्षा शुल्क व रु0 100/- आवेदन पत्र व सूचना विवरणिका हेतु) प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है । सूचना विवरणिका जिसमें सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.) का आवेदन पत्र भी है में परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है, अतः आवेदन पत्र जमा करने के समय कोई अन्य शुल्क की आवश्यकता नहीं है । सूचना विवरणिका जिसमें आवेदन पत्र भी संलग्न है इन्स्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचो के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नगद भुगतान करने पर 5 दिसम्बर, 2006 से प्राप्त किये जा सकते हैं । पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र 26 दिसम्बर 2006 तक स्वीकार किये जायेंगे व 26 दिसम्बर 2006 के बाद आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा का पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वयं आकर भी इन्स्टीट्यूट के नई दिल्ली कार्यालय व विकेन्द्रित कार्यालयों मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 26 दिसम्बर 2006 तक जमा कराया जा सकता है । इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है ।

प्रश्नपत्र पत्रिका की भाषा:-

सामान्य प्रवीणता परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी । उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम की प्रश्न पत्र पत्रिका द्वारा भी देने की सुविधा दी जाती है । विस्तृत जानकारी सूचना विवरणिका में उपलब्ध है ।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी0पी0टी0) केवल उन्ही परीक्षार्थियों के लिये जो पहले से इस परीक्षा के लिये दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया में रजिस्टर्ड है व योग्यता संबंधी आवश्यकतायें को पूर्ण करते हैं ।

जी. सोमशेखर
संयुक्त सचिव (परीक्षा)

कानपुर-208001, दिनांक 3 नवम्बर 2006

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

3सी0सी0ए0 (5)(2)/2004-2005 : चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान की अधिसूचना नं0 3 सी0सी0ए0 (4)(1) 2000-2001 दिनांक 2 फरवरी 2001, 3 सी0सी0ए0 (4)(1) 1996-1997 दिनांक 2 दिसम्बर 1996, 3 सी0सी0ए0 (4)(1)/1998-1999 दिनांक 23 अप्रैल 1999, 3 सी0सी0ए0 (4)(1)/1999-2000 दिनांक 12 जनवरी 2000, 3 सी0सी0ए0 (4)(2)/2001-2002 दिनांक 2 नवम्बर 2001, के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गयी तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

क्र0 सं0	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र0 सं0	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
1.	006494	मि0 श्री निवास अगरवाल, एफसीए 234 सेक्टर 15 ए नोएडा-201301	01.09.2003	5.	035893	मि0 कोरडे अमर अरविन्द, एसीए 21 डी त्रिवेणी अपार्टमेन्ट्स 21 सी वी रमन रोड, अलवर पेट चेन्नई 600018	30.01.2004
2.	014303	मि0 दसोत बिरदी मल, एफसीए अपोजिट इण्डियन कॉफी हाउस एम आई रोड जयपुर- 302001	30.09.2003	6.	055077	मि0 चक्रवर्ती जयन्ता, एसीए चीफ (कारपोरेट एकाउन्टिंग) टाटा स्टील बाम्बे हाउस 24 मोदी स्ट्रीट फोर्ट मुम्बई 400001	01.07.2003
3.	015238	मि0 सुब्रामनियन चन्द्रशेखरन, एसीए 18 भारथी पार्क क्रास रोड 1 साईबाबा मिशन पोस्ट कोइम्बटूर 641011	01.10.2002	7.	056612	मि0 डाक रमेश चन्द्र, एसीए प्लॉट नं. 55 गनपति विहार पनेरियो की मादरी सेक्टर नं0 4 हिरन मागरी उदयपुर 313002	23.06.2003
4.	015387	मि0 टण्डन कन्हैया लाल, एसीए नेपाल गंज (नेपाल) वाया पी ओ रुपैडिहा डिस्ट्रिक्ट बहराइच रुपैडिहा 271881	12.11.2003				

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
8.	057972	मि० गोयल सन्दीप कुमार, एसीए द्वारा गोयल आटो पार्ट्स पी ओ मरार झारखण्ड हजारीबाग	07.01.2004	13.	070533	मि० अखिलेश कुमार जैन, एफसीए ए-411 त्रिवेणी नगर, जयपुर	11.06.2003
9.	058392	मि० महेश्वरी विशाल, एसीए इण्डियन आयल मण्डार नियर राधास्वामी सत्संग भवन आदर्श नगर जयपुर 302004	08.04.2003	14.	070534	मि० प्रेम कुमार जोटवानी, एसीए जी 401 अन्सल्स फ्लैट्स 3 स्ट्रेटची रोड इलाहाबाद	30.12.2003
10.	060008	मि० सिंह शंकर कुमार, एसीए स्वास्तिक सेन्टर 8 क्रुड लेन फर्स्ट फ्लोर कोलकाता 700069	09.04.2003	15.	071035	मि० तिवारी हरेन्द्र कुमार, एफसीए डिप्टी चीफ फाइनेन्स मैनेजर नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड पी ओ अमलोहरी प्रोजेक्ट सिधी 486887	24.04.2003
11.	070173	मि० नीरज कुमार, एफसीए 25/7, राम बाग रोड मुजफ्फर नगर-251001	10.04.2003	16.	071245	मि० अग्रवाल अनिल कुमार, एफसीए जे के सिन्थेटिक्स लि० कमला टॉवर कानपुर 208001	09.12.2003
12.	070526	मि० अगरवाल अनिल कुमार, एफसीए द्वारा आर एम गुप्ता नियर आशीर्वाद नर्सिंग होम अपोजिट कटोरा ताल नाका चन्द्रबादनी रोड लश्कर ग्वालियर	05.03.2004	17.	071424	मि० जैन सतीश चन्द्रा, एफसीए 15/11, सिविल लाइन्स कानपुर 208001	28.10.2003
				18.	071592	मि० पांडिया रमेश चन्द्रा, एफसीए 401 गार्डन व्यू, शास्त्री नगर अन्धेरी (वेस्ट) मुम्बई 400053	24.04.2003

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
19.	071780	मि० जैन विजय कुमार, एफसीए 506 कल्पना प्लाजा बिरहाना रोड कानुपर 208001	18.12.2003	24.	072723	मि० छावच्छरिया सुनील कुमार, ए सीए ओम इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लि० एनसिलरी इण्डस्ट्रियल एरिया पी ओ हटिया दुपुडाना रांची	27.02.2004
20.	071990	मि० ललित कपूर, एसीए एकाउण्ट्स एण्ड फाइनेन्स मैनेजर सिटी सेन्टर पी ओ बाक्स 28109 सफत-कुवैत 13142 कुवैत	02.01.2004	25.	072860	मि० पुरवार प्रवीण कुमार, एसीए डिप्टी जनरल मैनेजर बीएसएनएल जीपीओ कम्पाउण्ड मेरठ	05.01.2004
21.	072025	मि० वर्मा दिनेश कुमार, एसीए सत्य भवन खैलैन्ड मार्केट अजमेर	07.04.2003	26.	073000	मि० भण्डारी रमेश चन्द, एसीए ए-108 आर आई आई सी ओ कालोनी डि० सिरोही अबू रोड 307026	18.08.2003
22.	072294	मि० दत्ता प्रवीर कुमार, एफसीए 171 रुघ रीवर ड्राइव स्कैरबोरुघ, ओ एन एम आई बी 6 जी 7 कनाडा	07.05.2003	27.	073362	मि० शर्मा राजवर्धन, एसीए 2/336, नामनायर आगरा कैन्ट आगरा-282001	09.04.2003
23.	072631	मि० अगरवाल कौशल कुमार, एसीए 84 नारायण विहार नियर राम मोहन नगर सिकन्दरा बदला रोड आगरा 282007	17.04.2003	28.	073903	मि० सोडानी अरुण, एसीए 47/6, 1 डीए काम्पलेक्स नियर होर्नीमैन प्लाजा अगरवाल नगर सपना संगीता रोड इन्दौर	06.11.2003

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
29.	073915	मि० श्रीवास्तव स्वदेश चन्द्र, एफसीए 112/206, ए स्वरूप नगर कानपुर 208001	27.02.2004	35.	075920	मिस पुन्ताम्बेकर विनीता, एसीए 212 रायल गोल्ड बिल्डिंग वाई एन रोड, इन्दौर 452001	16.04.2003
30.	074240	मि० मेहता दीपक, एफसीए 204 अमर चैम्बर्स सेक्रेण्ड फ्लोर ओलम्पिक रोड जलोरी गेट जोधपुर 342001	05.11.2003	36.	075958	मि० देवेन्द्रा कुमार, एसीए लोवर सियांग प्राजेक्ट एनएचपीसी लिमिटेड पासीघाट अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग 791102	17.12.2003
31.	074700	मि० सिंह संजीव कुमार, एसीए प्लॉट नं. 133 कोआपरेटिव कालोनी बोकारो स्टील सिटी बोकारो 827001	05.09.2003	37.	076012	मि० शुक्ला अखिलेश, एफसीए 124/11 डी ब्लॉक गोविन्द नगर कानपुर	23.09.2003
32.	074829	मि० गुप्ता मुकट बिहारी, एफसीए बी2-हाई-टेक कार्बन कालोनी तमिलनाडु गुम्मीडिपून्डी 601201	22.05.2003	38.	076852	मि० खमैसरा कपिल, एसीए एच नं० 85 टेक्नोक्राफ्ट हाइसबुग सोसाइटी बेडला रोड उदयपुर 313001	03.12.2003
33.	075010	मि० गर्ग मुनीश कुमार, एफसीए 227 सेक्रेण्ड फ्लोर रतन दीप काम्पलेक्स बरेली	13.10.2003	39.	076858	मि० सोनी रमेश, एसीए वियर सेफ मलेसिया एसडीएन बीएचडी लोट 1, लिबोह हजशम्मुददीन सातु नार्थ क्लॉग स्ट्रेट्स इण्डस्ट्रियल एरिया 42000 पोर्ट क्लैंग वेस्ट मलेसिया	26.05.2003
34.	075425	मि० चौहान प्रभु लाल, एसीए ई-19 जे पी पुरम् रीवा 486450	13.06.2003				

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
40.	077226	मि० धानुका मनोज, एसीए द्वारा राजेश सोडानी 301 जीवन अपार्टमेन्ट 26/2 रेस कोर्स रोड इन्दौर 452001	12.05.2003	45.	078305	मि० अमर सुन्दर, एसीए द्वारा डा० बी०एस० सुन्दर ए 02 संगम विहार फ्लैट्स रीवर्स मीट रोड सोनारी जमशेदपुर 83011	24.10.2003
41.	077378	मि० विजय वर्गीया विवेक, एसीए 442-443, गोयल नगर कनाडिया रोड इन्दौर 452018	13.05.2003	46.	078424	मिस शची रैरीकर, एसीए इनफोकस सोल्यूशन्स प्रा० लि० 401 डायमण्ड ट्रेड सेन्टर 3-4 डायमण्ड कालोनी इन्दौर	29.01.2004
42.	077431	मि० पुंगलिया संजय, एसीए द्वारा चेतक टाइल्स (प्रा०) लिमिटेड ई-52 आर आई आई सी ओ इण्ड एरिया चित्तौरगढ़ 312001	27.01.2004	47.	078497	मि० गुप्ता आशीष, एसीए 1956 मालपानी भवन सेकेण्ड क्रास नाहरगढ़ रोड चांदपोल जयपुर	11.03.2004
43.	077723	मि० गुप्ता राजेश, एसीए बी-103 सफल पार्क सेक्टर 25 नेरुल (ई) नवी मुम्बई 400706	17.02.2004	48.	078587	मि० गडिया अजय कुमार, एसीए द्वारा श्री संजय कुमार गडिया 5 बी०, गांधी नगर जयपुर	19.05.2003
44.	078112	मि० पोखरना राकेश, एसीए 6/62, हन्टर स्ट्रीट हार्नसबाई सिडनी 2077 आस्ट्रेलिया	11.02.2004	49.	078798	मि० संखला रनवीर सिंह, एसीए प्लॉट नं. 29 भदवासिया तिलक नगर-II जोधपुर	05.05.2003
				50.	078847	मिस गोपेश प्रिया, एसीए ए-146/4 विन्ध्याचल अपार्टमेन्ट्स दिलशाद कालोनी दिल्ली 110095	19.05.2003

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
51.	079103	मि० चोपड़ा राजेश, एसीए द्वारा पी सिंहवी एण्ड एसोसिएट्स सोजांती गेट जोधपुर	11.09.2003	56.	084266	मि० मोहन सुरिन्दर, एसीए मार्केटिंग मैनेजर एल आई सी आफ इण्डिया डिवीजिनल आफिस 16/98 एम.जी. रोड, कानपुर 208001	26.09.2003
52.	079274	मि० गोयंका राहुल, एसीए गोयंका भवन हरिकेशपुरा मऊनाथ भंजन मऊ 275101	26.12.2003	57.	086727	मि० रावत विनोद सिंह, एफसीए बी-14/12 हिमगिरी सेक्टर 34 नाएडा	09.05.2003
53.	080766	मि० गुप्ता विजय कुमार, एसीए चीफ मैनेजर बैंक आफ बड़ौदा हेड आफिस 10वीं फ्लोर सूरज प्लाजा-1 सायाजी गंज बड़ौदा	28.05.2003	58.	088557	मि० मनोज देबनाथ, एसीए सी-53 सेक्टर 51 केन्द्रीय विहार नोएडा 201301	15.07.2003
54.	081430	मि० अग्रवाल सोहन लाल, एसीए 1209 चिकागो रोड ट्राय मिचीगन 48083 यू एस ए	13.10.2003	59.	088875	मि० तुकराल मनीष, एसीए 144 सन्त नगर ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली 110065	29.12.2003
55.	082435	मि० दत्ता विजय कुमार, एफसीए ए-2/174, सफदरगंज इनक्लेव नई दिल्ली 110029	02.06.2003	60.	089205	मि० खुराना मनदीप सिंह, एफसीए ई/53 करबला लोडी रोड नई दिल्ली 110003	01.03.2004
				61.	097835	मि० शर्मा अशोक कुमार, एसीए डी 309 निर्माण विहार दिल्ली 110092	27.11.2003

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक	क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम व पता	दिनांक
-------------	-------------------	-----------	--------	-------------	-------------------	-----------	--------

62. 104903 मि० रंका संजय एम्, 09.12.2003

एसीए

द्वारा वीडियोकॉन

इन्टरनेशनल लि०

14 के एम स्टोन पैठान रोड

चीतेगांव

महाराष्ट्र

औरंगाबाद

63. 204010 मि० वेंकटा कृष्ण एस, 11.03.2004

एसीए

न्यू # 42 ओल्ड # 18

दामोदरम स्ट्रीट

टी नगर

चेन्नई

सीए. अशोक हल्दिया

सचिव

कोलकाता-700071, दिनांक 6 नवम्बर 2006

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

3ईसिए/5/3/2004-2005 : के सन्दर्भ में 3ईसिए/4/3/2004-2005 दिनांक 31.01.2005 चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद द्वारा यह सुचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद अपने सदस्यता रेजीस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम 01/10/2004 से पुनः स्थापित कर दिया है :-

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	
1.	001999	मि. सेन गुप्ता असोम कुमार ६८, प्रिन्स गुलाम मोहम्मद शाह रोड कोलकाता - ७०० ०३३	एफ सि ए
2.	002126	मि. गोगुलि गंगाधर द एंड गोगुलि ३/१, मैगो लेन कोलकाता - ७०० ००१	एफ सि ए
3.	007797	मि. मेहता राजकुमार चंद ८८- ए, हरिष मुखार्जी रोड कोलकाता - ७०० ०२५	एफ सि ए
4.	010148	मि. लाला परेश चन्द्रा सि जि - २२४, सल्ट लेक सेक्टर - २ कोलकाता - ७०० ०९१	एफ सि ए
5.	012418	मि. खास्तगीर स्वपन पि - ११२, लेक टाउन बल्क - ए कोलकाता - ७०० ०८९	एफ सि ए
6.	013905	मि. वर्मन प्रसान्त कुमार राय १४०ए/४, एन. एस. सि बोस रोड कोलकाता - ७०० ०९२	एफ सि ए
7.	013932	मि. राय शिबा प्रसाद २१, अन्ननगड़ (ई पी ७ ए) फाट फ्लोर, दम दम कोलकाता - ७०० ०३०	एफ सि ए
8.	014162	मि. कर अतनु मेसर्स ए एम रय एण्ड कों १ बी, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट कोलकाता - ७०० ००१	एफ सि ए
9.	015719	मि. दत्ता जगबन्धु १०८/६ए, मनोहर पुर रोड कोलकाता - ७०० ०२६	ए सि ए
10.	016433	मि. गुहा नोरमल कुमार बि-१७/१४ अभ्युदय इ. सि. टि.पि. फेज ४ पोस्ट ईस्ट कोलकाता टाउनशीप कोलकाता-७००१०१	एफ सि ए
11.	016621	मि. नन्दि दीपक कुमार भिलेज : श्रीपुर पोस्ट : श्रीपुर बाजार हुगली - ७१२ ५१४	एफ सि ए
12.	017993	मि. भौमिक पार्था प्रसाद अरीन्दम फ्लाट १ए २४६/४ आर. बि.सि रोड कोलकाता - ७०० ०२८	ए सि ए
13.	021953	मि. भैकटेश्वर राव कें जेनरल मैनेजर फाइनन्स एच पी सी एल बीशाख रिफाइनरी मालकापुरम विशाखापत्तनम - ५३००११	ए सि ए
14.	042856	मि. जन जेकव केयर ऑफ टाटा टि लिमिटेड १, बीषप लेफ्रेय रोड कोलकाता - ७०० ०२०	ए सि ए
15.	048096	मि. अग्रवाल सुधीर मैनेजर फाइनन्स सो-१७, ए सी सी कलानो पि ओ - जामुल सिमेन्ट वर्क्स छत्तिशगड़ दुर्ग - ४९००२४	ए सि ए

- | | | | | | |
|------------|---|---------|------------|--|---------|
| 16. 050303 | मि. दत्ता देवकुमार
२/२४, विवेक नगर
पोष्ट : संतोषपुर
कोलकाता - ७०० ०७५ | ए सि ए | 25. 052275 | मि. त्यागी ललित मोहन
ललित मोहन त्यागी एन्ड कं
लडेंस ५११
७/१, लडें सिन्हा रोड
कोलकाता - ७०० ०७१. | एफ सि ए |
| 17. 050435 | मि. केजरिवाल दिलिप कुमार
मेसर्स डि के केजरिवाल एन्ड कं
२३ ए, नेताजि सुभाष रोड
प्रथम तल्ला, रुम नं ६
कोलकाता - ७०० ००१ | ए सि ए | 26. 052334 | मि. प्रभीन चन्द
सि सि - १११, चन्द्राक्षी कॉम्प्लेक्स
प्रथम तल्ला, पानपोश रोड
राउरकेल्ला - ७६९ ००४. | ए सि ए |
| 18. 050623 | मि. दासगुप्त अशोक कुमार
४, कसबा रोड (इन विटुइन हालतु बाजार
एन्ड तरुन सर्भिस स्टेशन)
कोलकाता - ७०० ०७८ | ए सि ए | 27. 052537 | मि. झनावार अरुन कुमार
१ ई, सत्यम
४६ डि, रफी अहमद किदवाई रोड
कोलकाता - ७०० ०१६. | ए सि ए |
| 19. 050797 | मि. चक्रवर्ती नीशिथ रंजन
चिफ मैनेजर आइ. आर. आर. डिपार्टमेंट
इन्डियन बैंक
६६, राजाजी शलाह
चेन्नाई - ६०० ००१. | एफ सि ए | 28. 052570 | मि. गंगोपाध्याय पार्था
दे एन्ड गांगुली
३/१, मैगो लेन, प्रथम तल्ला
कोलकाता - ७०० ००१. | एफ सि ए |
| 20. 050804 | मि. आलुनी अरुन कुमार
अशोका
१११, साउथार्न एविन्यु
कोलकाता - ७०० ०२९. | एफ सि ए | 29. 052625 | मि. सिंह इन्द्र मोहन
४३०४ स्प्रिंग बुक डी आर
एडिसन एन जे - ०८८२०, न्यु जर्सि
यु एस ए | एफ सि ए |
| 21. 051208 | मि. सेठ दिलिप कुमार
श्रीपुर बाजार
डि: हुगली
हुगली - ७१२ ५१४. | एफ सि ए | 30. 052729 | मि. खेतान अनिल कुमार
७० ए, जतिन दास रोड
कोलकाता - ७०० ०२९. | एफ सि ए |
| 22. 051283 | मि. दास गोतम
५२, पी जी एच शाह रोड
कोलकाता - ७०० ०३२ | ए सि ए | 31. 052730 | मि. केजरिवाल विमल कुमार
मार्फत मेसर्स आई डि के ट्रेडिंग कं
१४, फगेया पट्टी स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ००७ | एफ सि ए |
| 23. 051765 | मि. घोष दिपक कुमार
मैनेजर फाइनेन्स
अरबीटेक लिमिटेड
पोष्ट बक्स : ४७७३३ ००१००
नाइरोबी ०
केनिया | ए सि ए | 32. 052764 | मि. सोपानी शुभ करण
इंभर नगर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
पल्ट नं - ३-४, वीभव - २
उडवा मकडाला रोड
सुराट - ३९४२१० | एफ सि ए |
| 24. 051843 | मि. मिश्रा अभय
मार्फत राजेश चतुर्वेदी एन्ड एसोसियेट
३३७, पर्णश्री पल्ली
कोलकाता - ७०० ०६०. | एफ सि ए | 33. 052809 | मि. चतुर्वेदी राजेश
३३७, पर्णश्री
कोलकाता - ७०० ०६०. | एफ सि ए |
| | | | 34. 053337 | मि. काजारिया अजय
८८ एफ, एन एस सी बोस रोड
टलिगज
कोलकाता - ७०० ०४० | एफ सि ए |

- | | | | | | |
|------------|---|--------|------------|--|--------|
| 35. 053385 | मि. सेनगुप्त पाथं प्रतिम
एम - ५, क्लस्टर X
पुर्वांचल हाउसिंग एस्टेट
सल्ट लेक सिटी
कोलकाता - ७०० ०६४. | ए सि ए | 44. 054435 | मि. मंगल प्रदिप कुमार
रूम नं - सि ४५८
४ तल्ला
७१ बि, आर बि बासु रोड
कोलकाता - ७०० ००९ | ए सि ए |
| 36. 053423 | मि. चट्टोपाध्याय अतिन्द्र नाथ
पोस्ट - राधानगर रोड
डाउन साईड
बानपुर - ७१३ ३२५. | ए सि ए | 45. 054597 | मि. चक्रवर्ती चन्दन
मिसिसाउगा
कानाडा
ओन्टारियो - ० | ए सि ए |
| 37. 053427 | मि. झा शशीधर
३, प्रीन्सेप लेन
भगवती चेम्बर
सेकन्ड फ्लोर, रूम नं० २०२
कोलकाता - ७०० ०७२ | ए सि ए | 46. 054640 | मि. बाग्योदिया पुनीत
४४, बालिगंज सर्कुलर रोड
कोलकाता - ७०० ०१९ | ए सि ए |
| 38. 053576 | मि. जैन विनय राज
१०५, ओल्ड चायना बाजार स्ट्रीट
थर्ड फ्लोर
कोलकाता - ७०० ००१ | ए सि ए | 47. 054641 | मि. सरकार जय
फ्लैट नं ३ बि, ब्लाक ए
१२२, रुबिपार्क (स्टेट)
कोलकाता - ७०० ०७८. | ए सि ए |
| 39. 053595 | मि. अग्रवाल शम्भु कुमार
मंगलम एपार्टमेंट
फ्लैट नं - १ ए, प्रथम तल्ला
पि - ८८८, ब्लाक ए, लेक टाउन
कोलकाता - ७०० ०८९ | ए सि ए | 48. 054642 | मि. अग्रवाल प्रमोद कुमार
६९/ निमतल्ला घाट स्ट्रीट
कोलकाता ७००००६ | ए सि ए |
| 40. 053892 | मि. सेन विचरुप
सेन एन्ड छान
२४, शांछारी पाड़ा रोड
कोलकाता - ७०० ०२५. | ए सि ए | 49. 054657 | मि. घोष प्रदिप कुमार
केंयर ऑफ अमिय कुमार घोष
देवदार पैलेस, चित्तरंजन गार्डन
गडिया स्टेशन रोड
कोलकाता - ७०० ०८४ | ए सि ए |
| 41. 054025 | मि. साहा अशोक
एफ/एफ १, हतियाड़ा रोड,
जैंगड़ा
कोलकाता - ७०० ०५९. | ए सि ए | 50. 054758 | मि. चक्रवर्ती पृथुल
महीनी एपार्टमेंट
फ्लैट नं १ डि
१/के, शहीद एच के बोस सरनी
दम दम
कोलकाता - ७०० ०७४. | ए सि ए |
| 42. 054054 | मि. मजुमदार ध्रुव
फाईनान्स डिपार्टमेंट
महानदी कोलफिन्ड्स लिमिटेड
पोस्ट - जाग्रितो बिहार
सम्बलपुर - ७६८ ०२०. | ए सि ए | 51. 054768 | मि. झावर सन्दिप
४४, एस आर दास रोड
फ्लैट ५ए
कोलकाता - ७०० ०२६. | ए सि ए |
| 43. 054148 | मि. बरुआ प्रद्युत कुमार
मैनेजर (फाईनान्स एन्ड एकाउन्ट्स)
नुमालीगड रिफाईनरीज लिमिटेड
पोस्ट - एन आर एल कॉम्प्लेक्स
आसाम,
गोलाघाट - ७८४ ६९९ | ए सि ए | 52. 054805 | मि. मुखर्जी सुज्योती
१२३ ए मनोहर पुरुर रोड
कोलकाता ७०००२६ | ए सि ए |
| | | | 53. 054811 | मि. दास सन्दिप
२८/१७ बि, फन रोड
कोलकाता - ७०० ०१९. | ए सि ए |

54. 054818	मि. नन्दि अभिजित ४२, मयरा डांगा रोड कोलकाता - ७०० ०३५.	ए सि ए	55. 054891	मि. चटर्जी तन्मय १७३/१ क्यू, पिकनिक गार्डन रोड कोलकाता - ७०० ०३९.	ए सि ए	65. 056238	मि. केशरी जोतेन्द्रा कुमार १० ए, कृष्णा राम बाँस स्ट्रीट कोलकाता - ७०० ००४.	एफ सि ए
56. 055157	मिस. जैन डिम्पल पि ६८, सि आई टि रोड कोलकाता - ७०० ०१४.	ए सि ए	66. 056339	मि. लाल अनुपम ११६, आशुतोष मुखर्जी रोड कोलकाता - ७०० ०२५.	एफ सि ए	67. 056571	मि. विश्वनाथ गयानी ४०२, बेन्टिक रोम्बसे ३७ ए, बेन्टिक स्ट्रीट फोर्थ फ्लोर, रुम नं० ४०२ कोलकाता - ७०० ०६९	ए सि ए
57. 055526	मि. मिश्र उदयेन्दु द ओरिशा स्टेट बेभारेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ९ तल्ला, आ डि सि ओ टावर, भुवनेश्वर - ७५१ ०२२	ए सि ए	68. 056595	मि. बासु पराग फ्लाट नं० ए ९०३, (सेबी आवास) राहेजा टाउनशिप आर्पोजिट - साईबाबा टेम्पल, मलद (ईष्ट) मुम्बई - ४०० ०९७	ए सि ए	69. 056922	मि. अग्रवाल संजय १३३, केनिंग स्ट्रीट स्यूट नं० - १५, (तिसरा तल्ला) कोलकाता - ७०० ००१.	एफ सि ए
58. 055664	मि. घोष सुदिप्ता ७७, लेंनिन सरनी प्रथम तल्ला कोलकाता - ७०० ०१३.	एफ सि ए	70. 057041	मि. मजुमदार अशिस १८८/६१, प्रिन्स आनवार शाह रोड कोलकाता - ७०० ०४५.	एफ सि ए	71. 057060	मि. जुत्तानि राजीव आर २१, केनडेडाइन लेन तिसरा तल्ला बहुबाजार कोलकाता - ७०० ०१२.	ए सि ए
59. 055705	मि. देसिकान कुमार २८/१०/१ बि, नकुलेश्वर भट्टाचार्या लेन कोलकाता - ७०० ०२६.	ए सि ए	72. 057162	मि. डालमिया राकेश रोशन मार्फत मेसर्स श्री सिमेट लिमिटेड २१, स्टैन्ड रोड कोलकाता - ७०० ००१.	ए सि ए	73. 057436	मिस. केडिया सुनिता २, रोस मार्ग लेन हावड़ा - ७११ १०१.	ए सि ए
60. 055750	मि. दास अमरज्योति अमरावती पथ चीसटियान बस्ति गुयाहाटि - ७८१ ००५.	एफ सी ए	74. 057542	मि. सेन संजय ७३, नावोव सि आर टरेन्टो ओन मिब २८ १ ओन्टारियो कनाडा - ०	ए सि ए			
61. 055816	मि. सरकार सुमित ६/ए, एस आर दास रोड कोलकाता - ७०० ०२६.	ए सि ए						
62. 055882	मि. मादां मनोज कुमार ३२८, केनेल स्ट्रीट पोष्ट: श्रीभूमि द्वितीय तल्ला कोलकाता - ७०० ०४८.	ए सि ए						
63. 056022	मि. नियोगी सन्दीप बी - २४, प्रान्तिका पोष्ट : गड़िया कोलकाता ७०० ०८४	ए सि ए						
64. 056040	मि. बन्दोपाध्याय बिकाश कुमार ३६, राजा राम चन्द्र घाट रोड पोष्ट : पानिहाटि कोलकाता ७०० ११४.	एफ सि ए						

- | | | | | | |
|------------|---|---------|------------|---|---------|
| 75. 057629 | मि. चट्टोपाध्याय सुदीप कुमार
१५/४, हिन्दुस्तान रोड
कोलकाता - ७०० ०२९. | ए सि ए | 86. 058248 | मि. यटिन सन्दिप कुमार
३९ बी, कांकरकाछि दूसरा लेन
कोलकाता ७०० ०५४. | एफ सि ए |
| 76. 057755 | मिस. जैन जयश्री
पी ६८, सि आइ टि रोड
कोलकाता - ७०० ०१४. | ए सि ए | 87. 058411 | मिस. प्रभाता रश्मी
लडंस ५११
७/१, लडंस सिन्हा रोड
कोलकाता - ७०० ०७९. | एफ सि ए |
| 77. 057792 | मि. अग्रवाल दिनेश कुमार
४०, वेस्टन स्ट्रीट
तिसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ०१३. | एफ सि ए | 88. 058456 | मि. पटवारी सुनील कुमार
पि - ९७, ब्लॉक - बि
लेक टाउन
कोलकाता - ७०० ०८९. | ए सि ए |
| 78. 057873 | मि. तिवारी राकेश कुमार
फ्लाट नं १ ग्रीन्स टावर
३१/२, गोबिन्द बैनर्जी लेन
कोलकाता - ७०० ०३३. | ए सि ए | 89. 058477 | मिस. राय नवनीता
१६४/सि/२८/१, लेक गार्डन्स
प्रथम तल्ला
कोलकाता ७०० ०४५. | ए सि ए |
| 79. 057897 | मि. दत्त सुदितानाथ
बि ६ - ३९, सेक्टर १
सल्ट लेक
कोलकाता - ७०० ०६४. | ए सि ए | 90. 058481 | मिस. नायक लक्ष्मीवन्ता
एटि + पोष्ट बिम्बनाथपुर
भाया - गालोन्यारा
गंजम
उड़िशा - ७६१ ००८. | ए सि ए |
| 80. 057942 | मि. गुप्ता बिमल कान्त
५०७, सेक्टर २२ बी,
गुरुगांव - १२२०१५ | एफ सि ए | 91. 058635 | मि. शाह मुकेश कुमार
४२४/१, जि टि रोड
पीलखाना (नर्थ)
कपुर गली, द्वितीय तल्ला
हावड़ा - ७११ १०१. | ए सि ए |
| 81. 057951 | मिस. सेनगुप्ता देवी
६, डा. सत्यनन्द राय रोड
कोलकाता - ७०० ०२९. | ए सि ए | 92. 058664 | मि. अग्रवाल शिवनाथ
७२, बांगुर एविन्यु
ब्लॉक - ए
कोलकाता - ७०० ०५५. | ए सि ए |
| 82. 057969 | मिस. राय दासगुप्ता धृतिप्रीया
४९/९०, पी जी एम शाह रोड
कोलकाता ७०० ०३३ | ए सि ए | 93. 058665 | मि. दुर्गा पारस
टेकर कॉम्प्लेक्स प्रथम तल्ला
अरुनाचल प्रदेश
नाहार लेगुन - ७९१ ११० | एफ सि ए |
| 83. 058022 | मि. अग्रवाल राकेश कुमार
ब्लॉक एफार्टमेंट
एफ सी - १ ए, नारायण तला (वेष्ट)
बागुहाटि
कोलकाता - ७०० ०५९ | एफ सि ए | 94. 058688 | मि. अरोड़ा पंकज
२१, मुक्ताराम बाबु स्ट्रीट
तिसरा तल्ला
कोलकाता - ७०० ००७. | ए सि ए |
| 84. 058025 | मि. सिन्हा राय दिव्येन्दु
२७/२९, राजा राम मोहन राय रोड
कोलकाता - ७०० ००८. | एफ सि ए | 95. 058752 | मि. अरोड़ा पंकज
पि - ९२, ब्लॉक - बि
तिसरा तल्ला
बांगुर एविन्यु
कोलकाता - ७०० ०५५. | ए सि ए |
| 85. 058046 | मि. अग्रवाल सन्दिप
आकाश गंगा एफार्टमेंट
एसि - २८७, रवीन्द्रपल्ली
कृष्णपुर
कोलकाता - ७०० ०५९. | ए सि ए | 96. 058862 | मि. राय चौधुरी प्रसून
४/१, शान्तानाल स्ट्रीट
कोलकाता - ७०० ०३०. | ए सि ए |

97. 058882	मि. राय सौम्य सि एल - १५, सेक्टर २ सल्ट लेक सिटी कोलकाता - ७०० ०११.	ए सि ए	108. 060221	मि. भाल्लोतिया ललित कुमार ७१, कॅनिम स्ट्रीट ४ तल्ला, रुम नं सि ४५२ कोलकाता - ७०० ००१.	एफ सि ए
98. 059099	मि. मल्लिक राजश्री चरण ६, अरुनोदय नगर लिक रोड कटक - ७५३ ०१२.	एफ सि ए	109. 060381	मिस. बेद मेघना पी - १/२ सुन्दर नगर एस भी रोड, मलद (वेस्ट) भुम्बई - ४०० ०६४.	ए सि ए
99. 059431	मि. खास्तगीर उदयन २३/८, लेक इष्ट ४ रोड सन्तोषपुर कोलकाता - ७०० ०७५.	ए सि ए	110. 060553	मि. श्याम सुन्दर अग्रवाल मेसर्स श्याम कृष्ण अग्रवाल एन्ड कं स्टल नं० ५, होलसेल ब्लॉक सुपर मार्केट उत्तर दिनाजपुर रानीगंज - ७३३ १३४	ए सि ए
100. 059464	मिस. अगरवाल रश्मी पि - १४१, सि आइ टि रोड स्किम - ६ एम कोलकाता - ७०० ०५४.	ए सि ए	111. 060615	मि. कौशल शेखर एफ/एफ १२/२, विद्यासागर पल्ली जैगड़ा, वागुइआटि कोलकाता ७०० ०५९.	ए सि ए
101. 059484	मि. भट्टाचार्या शुभायन ८३ सि/१ ए, चेतला रोड कोलकाता - ७०० ०२७.	ए सि ए	112. 060636	मि. सारोगी ईश्वरी ७८/१, नीमतला घाट स्ट्रीट कोलकाता - ७०० ००६.	ए सि ए
102. 059512	मि. नियोगी सिद्धार्थ एफ २, जी ६, साउथ एन्ड ऐपार्टमेंटस चार्मडड भोलेज हरीयाना फरिदाबाद - १२१ ००९	ए सि ए	113. 060712	मि. लोधीया जीतेन्द्र एन एस बी रोड रकुल मोड़, चाउ कॉम्प्लेक्स रानीगंज - ७१३ ३५७.	ए सि ए
103. 059598	मि. तुलशीयान वीष्णु कुमार २/३५, राजेन्द्र प्रसाद कलॉनि प्रिन्स आनवार शाह रोड कोलकाता - ७०० ०३३.	ए सि ए	114. 060815	मिस. नभालाखा सीमा फ्लाट नं ३ एफ ई (लोटस टावर) चित्रलेखा लेन, उषा नगर दिसपुर गुयाहाटि - ७८१ ००६.	ए सि ए
104. 059635	मि. बजाज मनोज ४१८/३, जि टि रोड (एन) पीलखाना हावड़ा - ७११ १०१.	ए सि ए	115. 060831	मि. महान्ति देबाशिस ६२२, रसुलगाड़ सबर साहि भुवनेश्वर - ७५१ ०१०.	ए सि ए
105. 059764	मि. राय प्रदीप बालटिकुरी (सेठ पाड़ा) हावड़ा - ७११ ४०२.	ए सि ए	116. 060968	मि. केडिया रमि ७२५, ब्लॉक पी न्यू आलिपुर कोलकाता - ७०० ०५३	ए सि ए
106. 059781	मि. धोष कोस्तभ कुमार ४/१, ओरियेन्ट रो पाकं सर्कस कोलकाता - ७०० ०१६.	ए सि ए	117. 061058	मि. भाषार राजा मार्फत सुकदेव दामोदर २१८ए, जमुनालाल वजाज स्ट्रीट द्वितीय तल्ला कोलकाता - ७०० ००७	ए सि ए
107. 060109	मि. चक्रवर्ती सुमन ३०, फकिर पाड़ा रोड कोलकाता - ७०० ०३४.	ए सि ए			

118. 061109	मि. गुप्ता सुमित ब्लक नं० ५९ फाल्ट नं० १ गोपाल कुंज शेर-ए-पंजाब सोसाइटी अन्धेरी (इ), मम्बई - ०	ए सि ए	129. 061892	मि. जूनजूनवाला ज्याती ३४५, नाताजी सुभाष रोड हावड़ा - ७११ १०१	ए सि ए
119. 061141	मि. गुप्ता राहुल १२९/४, एस. एन. राय रोड निउ आलिपुर (साउथ) कोलकाता - ७०० ०३८.	ए सि ए	130. 061934	मि. शाहा राकेश ४२४/१, जि टि रोड कपुर गलि, पिल खाना, ५वा तल्ला हावड़ा ७११ १०१.	ए सि ए
120. 061143	मिस. कपुर मलि ६६ ब्लक - बि बांगुर एविन्यु कोलकाता - ७०० ०५५.	ए सि ए	131. 061945	मि. शर्मा हेमंत कुमार मार्फत ए के शर्मा १४१, रामकृष्णपुर लेन नियर मुखर्जी बागान शिवपुर हावड़ा ७११ १०२	ए सि ए
121. 061168	मि. सिन्हा नीलाञ्जन टि एन टि इन्डिया लिमिटेड ८२/१, रीचमन्ड रोड बैंगलोर ५६० ०२५	ए सि ए	132. 062002	मि. पटनायक दुर्गाप्रसाद क्वाटर नं० ६६२ सेक्टर २, नीलाद्रि बिहार भुवनेश्वर - ७५१ ०२१	ए सि ए
122. 061191	मि. सारोगि राजा ८५, बलराम दे स्ट्रीट कोलकाता - ७०० ००६.	ए सि ए	133. 062080	मि. चेटर्जी कौशिक केयर ऑफ स्वयन चटर्जी साउथ देशबन्धु पाड़ा डिस्ट - दार्जिलिंग शिलिगुड़ी - ७३४ ००४	ए सि ए
123. 061235	मि. खातुया गुरु नारायण नित्यानन्द खातुया अपरतवीन्धो तहशील रोड भद्रक ७५० १००	ए सि ए	134. 062128	मि. अग्रवाल अशोक मार्फत जैन अमर स्टोर मेन रोड राउरकेल्ला ७६९ ००१.	ए सि ए
124. 061237	मि. महेश्वरी आदित्य कुमार वर्धन मार्केट एम. जि. रोड, खालपाड़ा शिलिगुड़ी - ७३४ ४०५.	ए सि ए	135. 062169	मिस राय चौधुरी श्रवन्ती मार्फत प्राईस वटर हाउस प्लट नं० वाई - १४ क्लक ईपि सेक्टर ५ सल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स (विधान नगर) कोलकाता ७०० ०९१.	ए सि ए
125. 061330	मिस. महेता मिनाल १६/३, राउन्ड टांक लेन तिसरा तल्ला हावड़ा - ७११ १०१.	ए सि ए	136. 062180	मि. अग्रवाल आदित्य एसिस्टेंट मैनेजर आई सि आई सि आई बैंक लिमिटेड स्काई स्टार विल्डिंग सेक्टर रोड शिलिगुड़ी ७३४ ४०१.	ए सि ए
126. 061372	मि. शर्मा बिकास अरविन्द ऑटो एंजेन्सी ए टि रोड, आपोजिट रिजॉव पोल्लीश गुवाहाटि ७८१ ००१	ए सि ए	137. 062262	मि. लाल चन्द्र देवजीभाई इ - ४१६, सुन्दर धाम रामबाग लेन वरीभली (बेस्ट) मुम्बई - ४०० ०९२	ए सि ए
127. 061512	मिस देव रिमा ५२, डाकुरिया इष्ट रोड कोलकाता - ७०० ०७८.	ए सि ए			
128. 061546	मि. अग्रवाल सुनिल कुमार ३८, पंचानन घोष लेन प्रथम तल्ला, आमहास्ट स्ट्रीट कोलकाता - ७०० ००९.	ए सि ए			

138. 062299	मि. झुनझुनवाला विकास अरित्र ऐपार्टमेंट क्लक आई रबीन्द्रपल्ली केष्टोपुर मेन रोड कोलकाता ७०००५९.	ए सि ए	145. 074479	मि. अग्रवाल नन्दा किशोर एस - २८, सिविल टाउनशाप राउरकेल्ला - ७६९ ००४.	ए सि ए
139. 062336	मि. प्रधान रमेश चन्द्रा ७९. वापुजी नगर भुवनेश्वर ७५१ ००९	ए सि ए	146. 090952	मि. महेश्वरी सुधिर जे के पेपर मिलस क्यू १७ बी, जयकारा पुर डि. रायगाडा रायगाडा ७६५ ०१७.	एफ सि ए
140. 062544	मिस सिरकार मो. १३१/बि. बहु बजार स्ट्रीट कोलकाता ७०० ०१२.	ए सि ए	147. 093202	मि. परिदा संजय कुमार केयर ऑफ जी एन एस एन्ड एसोसियेट्स पी २, सेकेन्ड फ्लोर, वीकाश कमाशियल कॉम्प्लेक्स पालन्जी सरोजीनि नगर न्यू दिल्ली - ११० ०२३	एफ सि ए
141. 062589	मि. जयसन्तान सुनिल वीप्रो २३९, ओखला इन्डास्ट्रीयल एस्टेट फेस - ३ न्यू दिल्ली - ११० ०२०	ए सि ए	148. 094136	मि. पटनायक राजिव लोचन एटि/पिओ - सैनकुल उडिशा केवनझर ७५८ ०४३	ए सि ए
142. 062700	मि. सेनापती प्रफुल्ल कुमार मार्फत श्री एन जी नाथ फ्लाट नं १०१ माधव निलायम ऐपार्टमेंट लुईस रोड भुवनेश्वर ७५१ ०१४.	ए सि ए	149. 094490	मि. शाहा संजिव सि - २०७, ओमान टोपाज सारजापुर रोड बैंगलोर - ५६० ०३४.	ए सि ए
143. 062763	मि. जैन रिराम ३१/३२, के बी रेसिडेन्सी ६ वा क्रॉस, द्वितीय तल्ला एम के रंगश्यामी ले आउट लालजी नगर, लक्ष्मेन्द्र बैंगलोर - ५६० ०३०.	ए सि ए	150. 097741	मि. प्रसाद सत्य नारायण ३११/१९, प्रीन्स आनवर शाह रोड कोलकाता - ७०० ०४५ कोलकाता ७०० ०४५.	ए सि ए
144. 062980	मि. अग्रवाल राजेश प्रथम तल्ला, केयर कमाशियल कॉम्प्लेक्स नियर विश्वरतण होटेल / इन्डाइटेड बैंक ए टि रोड गुयाहाटि - ७८१ ००१.	ए सि ए	151. 098526	मि. गुप्ता अशोक कुमार मार्फत राजु गुप्ता रामकृष्ण बायन शिक्षा संघ दुसरा तल्ला, पानि टांकि मोड़ सेवक रोड शिलिंगुडि ७३४ ४०१.	ए सि ए

152. 100166 मि. बैनार्जी उत्तिय
टि जो २ सि/९ गार्डन एस्टेट
मेहेरोली, गुरगांव रोड
डि एल एफ फेस - ३
हरीयाणा,
गुरगांव १२२ ०१५

ए सि ए

153. 212170 मि. जेना राम पद
केयर ऑफ एस एन सर्वोचना
एच आई जो - २६५, कलिंग विहार
एन.एच ५
भुबनेश्वर - ७५१ ०१९

ए सि ए

सीए, अशोक हल्दिया
सचिव

दि कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

कोलकाता, दिनांक 4 अगस्त, 2005

11-सीडब्ल्यू आर (358-368)/2005 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रद्द किए जाते हैं-

1. श्री ओ.पी. सिंह, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, डी-305, आनंद विहार, दिल्ली-110092, (सदस्यता सं० 611), 22 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
2. श्री जीवन चन्द्र, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, II ए/42, वैशाली, गाजियाबाद-201010, (सदस्यता सं० 23023), 17 जनवरी, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
3. श्री दिलीप ए. वसानी, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, ए-401, पायल, आशा नगर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदीवली (ईस्ट), मुंबई-400101, (सदस्यता सं० 3540), 1 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
4. श्री वी. सुधाकर, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, प्लॉट 562, के.के. नगर, मडुरै-625020, (सदस्यता सं० 23698), 4 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
5. श्री शशांक सुवर्णपताकी, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 3801, बार्दे लेन, नवी पेट, अहमदनगर-414001, (सदस्यता सं० 20733), 5 मार्च, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
6. श्री सुदीप दास, बीकॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 10जी, डोवर टेरेस, कोलकाता-700019, (सदस्यता सं० 23241), 7 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
7. श्री कोरदा श्रीनिवास राव, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट नं० बी-109, वेस्टेक्स प्राइड अपार्टमेंट, जयभारतनगर, निजामपेट रोड, कुकटपल्ली, हैदराबाद-500072, (सदस्यता सं० 21581), 1 मार्च, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
8. श्री माले वी. वकील, बीई.एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, बी-003, आशरे टॉवर, नियर अमरनाथ महादेव, वेजलपुर, अहमदाबाद-380051, (सदस्यता सं० 23560), 18 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
9. श्री दिनेश अरोड़ा, बीकॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 13-ए, राम नगर एक्सटेंशन +4, नियर कृष्णा नगर, दिल्ली-110051, (सदस्यता सं० 18910), 21 मई, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
10. श्री उलास कुमार मेलिनमोगारु, बीकॉम, एसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, कार्यालय #3, पांचवी मंजिल, आशिर्वाद बिल्डिंग, गणपति हाई स्कूल रोड, मंगलोर-575001, (सदस्यता सं० 12726), 18 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।
11. श्री पी.सी. मल्होत्रा, बीएससी, एफआईसीडब्ल्यूए, एफ-2378, राजाजीपुरम, तालकटोरा, लखनऊ-226017, (सदस्यता सं० 4315), 1 अप्रैल, 2005 से 30 जून, 2005 तक ।

देबाशीष बागची
सचिव

16-सीडब्ल्यू आर (6729-6733)/2005: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनकी मृत्यु होने पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री आर. वेंकटसुब्बया, एआईसीडब्ल्यूए, 403, जे.पी. रोड, प्रथम चरण, गिरिनगर, बंगलौर-560085, (सदस्यता सं० 1755), 19 जनवरी, 2005 से ।
2. श्री शैक अब्दुल अजीज, बीए, एआईसीडब्ल्यूए, म.नं० 41-372, कोठापूटा, कुर्नूल-518004, (सदस्यता सं० 9416), 24 सितंबर, 2004 से ।
3. श्री पी. शिवप्रसाद, बीए, एफआईसीडब्ल्यूए, 6, पंचाग्नि स्ट्रीट, सेजाह एन्कलेव, नियर कृष्णावेणी नगर, मोगलीवक्कम, चेन्नई-600116, (सदस्यता सं० 5286), 14 अप्रैल, 2005 से ।
4. श्री हराधन खानरा, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, पूर्व-लेखाकार, दुर्गापुर केमिकल्स लि०, दुर्गापुर-713215, (सदस्यता सं० 12583), 18 दिसंबर, 2004 से ।
5. श्री टी.आर. पारथासारथी, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, चित्रप्रभाकर पहली मंजिल, सं० 1, साउथ कैनाल बैंक रोड, मंडावलीपक्कम, चेन्नई-600028, (सदस्यता सं० 1164), 15 मई, 2005 से ।

देबाशीष बागची
सचिव

16-सीडब्ल्यू आर (6734-6736)/2001: कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 16 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है लागत एवं संकर्म एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 20 की उप-धारा (1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की परिषद ने निम्नलिखित नामों को उनके स्वयं के अनुरोध पर सदस्य रजिस्टर में से हटा दिया है:-

1. श्री बी.एस. कृष्णास्वामी, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, 2230, IX मेन, 23वां क्रॉस, II स्टेज, बनाशांकारी, बंगलौर-560070, (सदस्यता सं० 2900), 28 जून, 2005 से ।
2. श्री के. रामाकृष्णन, एफसीएमए, एफआईसीडब्ल्यूए, 'तिलंग', 7, पोंगी मदालयम सेंटर, नंगलूर, चेन्नई-600061, (सदस्यता सं० 1334), 28 जून, 2005 से ।
3. श्री आर.आर. शर्मा, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, 1-9-6, टैम्पल अलवाल, बोलारम पो.आ. सिकंदराबाद-500010, (सदस्यता सं० 563), 1 जून, 2005 से ।

देबाशीष बागची
सचिव

कोलकाता, दिनांक 16 दिसंबर, 2004

11-सीडब्ल्यू आर (333-357)/2004 : कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट्स विनियम, 1959 के विनियम 11 के उप-विनियम (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित को प्रदान किए गए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके खुद के अनुरोध पर रह किए जाते हैं :-

1. श्री हखीत सिंह, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, ए-9, मुखराम गार्डन, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018, (सदस्यता सं० 20386), 10 अगस्त, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
2. श्री एस.एन. जेया, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, पी-2, ढाका अपार्टमेंट्स, शांति कालोनी, जीव रतन नगर, अदयार, चेन्नई-600020, (सदस्यता सं० 18614), 28 नवम्बर, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
3. श्री एस.के. दास, एमकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, 9बी, केदार नाथ दास लेन, कोलकाता-700030, (सदस्यता सं० 4378), 30 नवम्बर, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
4. श्री तपन कुमार सरकार, बीएससी, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, फ्लैट 7, तीसरी मंजिल, पुरुषोत्तम अपार्टमेंट्स, 1/4, डा० आर.एन. टैगोर रोड, कोलकाता-700056, (सदस्यता सं० 13555), 17 मई, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
5. श्री एम. देवेन्द्रन, बीए, एआईसीडब्ल्यूए, एच-27, सेन्द्रल एवेन्यू, कोरातुर, चेन्नई-600080, (सदस्यता सं० 3285), 21 जून, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
6. श्री कृष्ण कुमार घर, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 533-ए, नेताजी कालोनी, बड़ानगर, कोलकाता-700090, (सदस्यता सं० 4789), 25 जून, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
7. श्री तपन कुमार भट्टाचार्य, बीएससी(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, जी-4, निराला अपार्टमेंट, विद्यालंका पालपारा, चंदननगर-712136, (सदस्यता सं० 5166), 30 जून, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
8. श्री एम.वी. कामत, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, ए-4, आदर्श, जे.बी. नगर, अंधेरी (ई), मुंबई-400059, (सदस्यता सं० 1530), 1 अप्रैल, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
9. श्री बी. नारायणन, बीकॉम, एफआईसीडब्ल्यूए, ब्लॉक नं० VI, फ्लैट नं० 6, ज्योति को-आप. हाउसिंग सोसायटी, 96, कानकुलिया रोड, कोलकाता-700029, (सदस्यता सं० 1406), 14 जून, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
10. श्री एम.मनोहरन, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, पुरा नं० 23/नया नं० 5, द्वितीय स्ट्रीट, तानगम कालोनी, अन्ना नगर वेस्ट, चेन्नई-600040, (सदस्यता सं० 12131), 10 मई, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
11. श्री निलादरी दत्त, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, 112-ए, सलीमपुर रोड, कोलकाता-700031, (सदस्यता सं० 7074), 4 मई, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
12. मौ० बजलुल इस्लाम, बीकॉम(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 25, गार्डनर लेन, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता-700014, (सदस्यता सं० 19079), 5 अप्रैल, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।

13. श्री डी.पी. अग्रवाल, बीकॉम, एसीएस, एआईसीडब्ल्यूए, ई-159, मूर्तिपुरा स्कीम, जयपुर-302013, (सदस्यता सं० 3867), 1 फरवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
14. श्री संजय कुमार जैन, बीकॉम, एलएलबी, एआईसीडब्ल्यूए, बी-14, सैक्टर 49, नोएडा-201301, (सदस्यता सं. 17400), 1 मार्च, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
15. श्री एल.वी. रमेश, बीएससी(ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, 6/19, थिरु विका नगर प्रथम स्ट्रीट, कालेज रोड, तिरुपुर, 641602, (सदस्यता सं० 9021), 1 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
16. श्री सत्य सुन्दर महासुअर, बीए, एआईसीडब्ल्यूए, एफ1/एफ-23, आई.डी. मार्केट कांप्लेक्स, प्रथम मंजिल, आईआरसी गांव, नयापल्ली, भुबनेश्वर-751015, (सदस्यता सं० 22709), 21 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
17. श्री फैजल शाह, बीकॉम(ऑनर्स), एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, के/आफ दनिश बैटरी वर्क्स, डा० फतेउल्लाह रोड, रांची-834001, (सदस्यता सं० 23465), 3 अगस्त, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
18. श्री पी.एस. शेषन, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, बी2/8, vii फ्लैट्स, पुराना नं० 34, पिंजला सुब्रमणियम स्ट., टी. नगर, चेन्नई-600017, (सदस्यता सं० 1571), 16 जुलाई, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
19. श्री अतुल गुप्ता, बीकॉम (ऑनर्स), एआईसीडब्ल्यूए, आई-41, सैक्टर 9, नोएडा, (सदस्यता सं. 21607), 21 सितम्बर, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
20. श्री टी. तवामानी, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, 19, मायानदिया पिल्लई स्ट्रीट, ईस्ट सेंद्रई पेट, मदुरै-625009, (सदस्यता सं. 22345), 6 अक्टूबर, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
21. सुश्री मीरा कुमारी, एमकॉम, एआईसीडब्ल्यूए, आरगोरा, नियर आरबोरा मंदिर, रांची-834012, (सदस्यता सं० 23202), 2 अगस्त, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
22. श्री सुजीत कुमार सिन्हा, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, 21, स्कॉट लेन, कोलकाता-700009, (सदस्यता सं० 16017), 28 अक्टूबर, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
23. श्री वी.एस. विश्वनाथन, एमए, बीएल, एफआईसीडब्ल्यूए, 194, थर्ड क्रॉस, कैम्ब्रिज लेआउट, बंगलौर-560008, (सदस्यता सं० 8586), 1 अप्रैल, 2004 से 30 जून, 2004 तक ।
24. श्री एस.के. मिश्र, बीएससी, एआईसीडब्ल्यूए, जी-39ए, गंगा विहार, गोकुलपुरी, नई दिल्ली-110094, (सदस्यता सं० 21694), 18 अक्टूबर, 2004 से 30 जून, 2005 तक ।
25. श्री आर.के. भरानी, बीएससी(ऑनर्स), एलएलबी, एफसीएस, एफआईसीडब्ल्यूए, 16, वरदान अपार्टमेंट्स, 64, आईपीईएक्स, दिल्ली-110092, (सदस्यता सं० 7748), 30 सितम्बर 2004 से 30 जून, 2005 तक ।

(डॉ.) एच. आर. सुब्रमण्या
अध्यक्ष

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110058, 27 अक्टूबर, 2006

सं. २०-१५/२०००-एस.आर. (उड़ीसा) जबकि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 23 की उप-धारा (1) के परिपालन में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने एक रजिस्टर यथा भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का रख-रखाव किया है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हैं जो उड़ीसा राज्य रजिस्टर में नामावलिप्त हैं और अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई अर्हता रखते हैं।

अतः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप-धारा (2) के परिपालन में रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली एतद् निदेश देता है कि भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर का प्रकाशन आम लोगों के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में होगा।

टिप्पणी:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अधीन 9 अप्रैल २००२ से ३१ मई २००५ तक शोधित भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर (उड़ीसा) का संकलन करने में प्रत्येक सावधानी बरती गई है, और उसमें यदि कोई छूट/सुधार अपेक्षित हो तो वह रजिस्टर के अगले प्रकाशन में उसके संशोधन हेतु रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, संप्रदायिक क्षेत्र, जन्मपुरी, नई दिल्ली-110058 को सूचित किया जाए।

प्रेमराज शर्मा
रजिस्ट्रार
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

उडीसा

भाग I आयुर्वेद

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	अर्हता प्रदाय निकाय एवं उत्तीर्ण वर्ष	पंजीयन संख्या एवं पंजीयन तिथि	पता
93068	अबकाश यादव गौरंगा चरण दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4911 23.9.03	ग्राम/पो.आ. नियल, वाया औल, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93069	आदित्य नारायण प्रधान विधनेश्वर प्रधान	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4903 16.1.04	ग्राम/पो.आ. काखरुनी, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93070	अदरिश ब्रह्मादत्ता जनत्राण परितोषिता	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००१	4646 30.5.02	देबोदर कालोनी, आर.ओ./जिला नयागढ़ ।
93071	अजय कुमार बिन्द रामधर बिन्द	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5001 25.8.04	ग्राम सलेपली पो.आ./जिला बालानगीर ।
93072	अजय कुमार नायक कन्दुग्री चरण नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5003 30.8.04	दखीनकाली रोड, धेनकानल ।
93073	अजीत कुमार नायक आनन्दी चरण नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4874 26.6.03	ग्राम बड़ा गोविन्दपुर, पो.आ. मुगपाल, जिला जाजपुर ।
93074	अखिला नाथ परिदा जयकृष्णा परिदा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4993 16.8.04	ग्राम बामुदेयपुर, पो.आ. खालीसाही, वाया खण्डपाड़ा, जिला नयागढ़ ।

93075	अक्षय कुमार खिलर अभिषेक खिलर	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4949 26.3.04	ग्राम/पो.आ. इराम, जिला भद्रक ।
93076	अक्षय कुमार पांडा कृतार्थ पांडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुला सम्बलपुर २००३	4904 25.8.03	ग्राम/पो.आ. देवगोवि, वाया बडोल, जिला बाराह ।
93077	अमित डे अनिल कुमार डे	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5076 20.5.05	ग्राम एवं पो.आ. श्यामनदीपुर, जिला बालासोर ।
93078	अमिया कुमार मिश्रा अक्षय कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4883 14.7.03	ग्राम जगन्नाथपुर, पो.आ. राणापुर, वाया मझारा, जिला जाजपुर ।
93079	अन्तानी प्रसन्न राजल मंगुली चरण राजल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4752 16.1.03	ग्राम/पो.आ. जिराल वाया मर्यापुर, जिला धनकानिल ।
93080	अमृत्य कुमार नायक गौरा चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4950 26.3.04	ग्राम/पो.आ. अन्धला, वाया बोन्ध, जिला भद्रक ।
93081	आनन्दा कुमार मेहर रिक्तेनाल मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुला सम्बलपुर २००३	4926 9.1.04	ग्राम/पो.आ. बिनका (महिमापाड़ा) जिला सोनपुर ।
93082	अनिल कुमार साहू प्रमोद चन्द्र साहू	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4719 6.9.02	ग्राम/लिमगिदीवाडी, पो.आ. गेरवा, वाया कुल्लड, जिला गंजम ।
93083	अन्निल कुमार म्दान कुम्मा चन्द्र म्दान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुला सम्बलपुर २००३	4835 26.4.03	ग्राम जोगेश्वरपुर, पो.आ. दिबलो, जिला पूर्वी ।

93084	अनिता मिश्रा अशोक कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4878 2.7.03	४८/ए, गौतम नगर, ओल्ड टाउन, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा ।
93085	अंकराबोनिया लक्ष्मी ए. भास्कर राव	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००४	5041 22.12.04	ग्राम गुना स्ट्रीट, गोपालपुर-ओन-सी, पो.आ. गोपालपुर, जिला गंजम ।
93086	अनन्त नागयण गांडा श्याम सुन्दर गांडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4938 23.2.04	ग्राम/पो.आ. बिलैसारदा, जिला बालनगिर ।
93087	अनुपमा पात्रा बनछानिधि पात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4860 19.6.03	ग्राम/पो.आ. वैगनबडिया, वाया कुर्नेई, जिला मयूरभंज ।
93088	अपराजिता साहू निकुंज किशोर साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4972 3.8.04	ग्राम/पो.आ. नेमसुपाड़ा, जिला अंगुल ।
93089	अर्चना कुमारी नरेश प्रसाद सिन्हा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4931 16.1.04	आशिवाद, सास्वानगर, जैल प्रैस कालोनी, गया, बिहार ।
93090	अरुण कुमार महापात्रा कुलामणि महापात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5048 28.1.05	फ्रैन्ड्स क्लब लेन, पुरी ।
93091	अरुणा कुमार प्रानसिंह अपरती साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4683 21.6.02	ग्राम/पो.आ. सोरन, वाया कुहुरी, जिला खुर्दा ।
93092	अरुणाधरी नाथ शर्मा दीनबन्धु नाथ शर्मा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4746 10.1.03	ग्राम/पो.आ. तगरतगल, जिला केन्द्रपाड़ा ।

93093	अरूप कुमार बेहेरा राजेन्द्रनाथ बेहेरा	बी.ए.एम.एस. बराहामपुर वि.वि., बराहामपुर २००३	4826 9.4.03	ग्राम बेनपुर, पो.आ. राजघाट, जिला बालासोर ।
93094	आशीष बिसवाल किशोर चन्द्र बिसवाल	बी.ए.एम.एस. बराहामपुर वि.वि., बराहामपुर २००३	4820 2.4.03	ग्राम नरसिंहाप्रसाद, पो.आ. इटामती, जिला नयागढ़ ।
93095	अशोक कुमार मल्लिक सामन्त मल्लिक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4670 11.6.02	ग्राम दुर्गा प्रसाद, पो.आ. रामचन्दी बाया नारणगढ़, जिला खर्दा ।
93096	अशोक कुमार परीरा दुर्गा शंकर परीरा	बी.ए.एम.एस. बराहामपुर वि.वि., बराहामपुर २००३	4925 31.12.03	ग्राम महिसमुन्दा, पो.आ. सलिकोठा, जिला बालासोर ।
93097	अशोक कुमार साहू हरिहर साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4651 31.5.02	ग्राम सोईन पो.आ., नादुआन, बाया धामीपुरा, जिला क्योंझार ।
93098	अटल लक्ष्मी देवी अटल मोहन	बी.ए.एम.एस. बराहामपुर वि.वि., बराहामपुर २००३	4811 28.3.03	ग्राम/पो.आ. कुकुडुखण्डी स्माल स्ट्रीट, जिला गंजम ।
93099	अवनजेलिन मिश्रा गोकुलानन्दा मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4737 10.1.03	ग्राम गोपालपुर, पो.आ. निसवित्ताकोइली, जिला कटक ।
93100	बी.के. प्रसाद कुमार गिरिधारी राउत	बी.ए.एम.एस. बराहामपुर वि.वि., बराहामपुर २००२	4711 29.8.02	ग्राम उधवचन्द्रपुर, पो.आ. आश्रम बलिकुदा, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93101	बैकुन्थ पाथन अलोबा पाथन	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4662 7.4.02	ग्राम कन्याधुडा, पो.आ. बिलैमडा, बाया गोपालपुर, जिला सुन्दरगढ़ ।

93102	वसुदेव सैन सुखदेव सैन	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००२	4704 28.8.02	ग्राम बालनशा, पो.आ. पुरुषा बसन्ता वाया मलिबार, जिला जगतसिंहपुर ।
93103	बन्दिता बिसवाल गोवर्धन बिसवाल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	5022 4.1.04	ग्राम/पो.आ. सियला, वाया बालुगोव, जिला पुरी ।
93104	बनीबन्दना मोहपात्रा प्रफुल्ल चन्द्र मोहपात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4966 2.4.04	ग्राम/पो.आ. नुआसासन, पिपली, जिला पुरी ।
93105	बंशीधर बेहेरा प्रणबन्धु बेहेरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4865 21.7.03	ग्राम बाडामवा, पो.आ. तर्गिरी, वाया बागडिया, जिला अंगुल ।
93106	बंशीधर नायक गिरिधारी नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला सम्बलपुर २००४	4978 9.8.04	ग्राम/पो.आ. कन्डापला, जिला बरगढ़ ।
93107	बरुण कुमार सतपथी गिरिजा शंकर सतपथी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4953 26.3.04	ग्राम/पो.आ. कालाबाडिया, वाया कुदियाना, जिला मयूरभंज ।
93108	बसन्त कुमार सेठी अमरती श्रेठी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4761 17.1.03	ग्राम/पो.आ. रणपुर, जिला नयागढ़ ।
93109	बेनुधर सैन प्रफुल्ल कुमार सैन	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला सम्बलपुर २००३	4876 30.6.03	ग्राम बृन्दावनपुर, पो.आ. मन्दर, जिला धनकानिल ।
93110	भवानी संकर मोहपात्रा सरत चन्द्र मोहपात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4901 11.8.03	ग्राम सिद्धमहवीर, पो.आ. बालुखण्डा, जिला पुरी ।

93111	भगवान शुभन राष्ट्रप्रसाद शुभन	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4700 28.8.02	ग्राम/पो.आ. चुमुब, वाया प्रतापपुर, जिला बालासोर ।
93112	भगवान साहू निरंजन साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4864 19.6.03	ग्राम/पो.आ. सियरिया, वाया कनपुर, जिला कटक ।
93113	भगवती प्रसाद पाधी रघुनाथ पाधी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4657 7.6.02	ग्राम/पो.आ. रमणगुडा, जिला रायगड़ ।
93114	भाग्यलक्ष्मी पाणिग्रही सचिदानन्द पाणिग्रही	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4921 1.12.03	ग्राम कोरन्ट, पो.आ. रनडियाहाट, जिला भद्रक ।
93115	भारत कृष्ण छुटिया कतकृष्णा छुटिया	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5045 28.1.05	ग्राम अज्जोघा, पो.आ. भोनरियाबाद, जिला बालासोर ।
93116	भारती मेहर टकाधर मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4922 15.12.03	ग्राम/पो.आ. बेलपाडा, जिला बालासोर ।
93117	भारतीलता जेना बैद्य जेना	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4959 26.3.04	ग्राम केरुणगुडी, पो.आ. सोसो, वाया बी.टी. पुर, जिला ब्यांझार ।
93118	भवानी हिमांशु विन्ध्येश्वर प्रसाद हिमांशु	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4974 5.8.04	श्रीराम लेन, मिस्त्रमहावीर पटना, पुरी ।
93119	भोदना नागपुरे पांडुरंग नागपुरे	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4828 24.4.03	ग्राम/पो.आ. खरियर रोड, जिला नौपाडा ।

93120	विभुदत्त मिश्रा गंगाधर मिश्रा	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००३	4738 10.1.03	ग्राम ब्रजबिहारीपुर, पो. आ. धालपुर, जिला धनकानल ।
93121	विभुदत्त प्रमोद कुमार मिश्रा प्रसन्न कुमार मिश्रा	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००३	4742 10.1.03	ग्राम दालब, पो. आ. कुलिटकुपुर, जिला बरगढ़ ।
93122	विभूति भूषण जत्ती अरविता जत्ती	बी. ए. एम. एस. सम्बलपुर वि. वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4844 30.4.03	ग्राम/पो. आ. बोलागढ़, जिला खुर्दा ।
93123	विचित्र कुमार दास राजकिशोर दास	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००४	4951 26.3.04	ग्राम नियामतपुर, पो. आ. राजगढ़, जिला कैदपुराड़ा ।
93124	विचित्र कुमार परिदा विद्योति सिंह परिदा	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००३	4796 29.1.03	ग्राम बेन्ता, पो. आ. चम्पगढ़, बाया चम्पपुर, जिला नयागढ़ ।
93125	विद्या पटनायक गोलखा पटनायक	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००३	4915 1.10.03	ग्राम कोटाविद्याधरपुर, पो. आ. बनपुर, जिला खुर्दा ।
93126	विद्युतानन्द आचारी के. गुरुलिंगम आचारी	बी. ए. एम. एस. सम्बलपुर वि. वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5021 12.10.04	ग्राम/पो. आ. नारायणपुर, जिला गंजम ।
93127	विद्युत कुमार मिश्रा पदमा दास मिश्रा	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००३	4749 16.1.03	ग्राम मडसाही, पो. आ. सखवाडी, जिला पुरी ।
93128	विद्युतप्रदा बराल जयेश्वर बराल	बी. ए. एम. एस. सम्बलपुर वि. वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4846 6.5.03	ग्राम अतसारांग, पो. आ. मुला अलसा, बाया सखीगोपाल, जिला पुरी ।

93129	विश्वेश्वर मिश्रा बनमाली मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4784 20.1.03	ग्राम मलिकादेईपुर सासन, पो.आ. नायकांनिधि, जिला भद्रक ।
93130	बिजय कुमार भोई करुणाकर भोई	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4998 20.8.04	ग्राम/पो.आ. बलियन्दा (पटना), जिला खुर्दा ।
93131	बिजय कुमार गुप्ता ओम प्रकाश गुप्ता	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4948 26.3.04	ग्राम बरलापोखरी, पो.आ. चारप्पा, जिला भद्रक ।
93132	बिजय कुमार साहू विस्वम्बर साहू	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००२	4702 28.8.02	ग्राम दाधीबनानपुर, पो.आ. बरिक्कल, वाया रामबाग, जिला जाजपुर ।
93133	विकेश कुमार बोहोरा प्रफुल्ला कुमार बोहोरा	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००३	4795 28.1.03	ग्राम किरन विल्ला, निकट टेलिफोन एक्सचेंज, पो.आ. जातनी, जिला खुर्दा ।
93134	बिनीदिनी पात्रा सुरेश चन्द्र पात्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4971 3.8.04	ग्राम/पो.आ. ब्राह्मनीगुडा, जिला कालाहांडी ।
93135	बिपिन बिहारी दास रामा चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4773 18.1.03	लाट नं. १०१८, श्री रामनगर, यूनिट २७, भुवनेश्वर-२, जिला खुर्दा ।
93136	विराज प्रसाद सामन्तराय गुणनिधि सामन्तराय	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4914 24.09.03	ग्राम/पो.आ. चान्दका, वाया बारंग, जिला खुर्दा ।
93137	विश्वजीत मिश्रा वैद्यनाथ मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	5032 7.12.04	द्वारा डा. सूरज कुमार, त्रिपाठी, गजपति नगर, चौथा लेन, बराहमपुर, गंजम ।

93138	विश्वजीत मोहपात्रा भगवान मोहपात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	500 8.9.04	ग्राम/पो.आ. कल्याणपाड़ा, बाया चान्दपुर, जिला नयागढ़ ।
93139	विश्वकेतन पांडा बसन्ता कुमार पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5008 8.9.04	ग्राम/पो.आ. आयतन, बाया राजकनिका, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93140	विश्वरंजन साहू रत्नकानिधि साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4886 17.7.03	ग्राम पुरुषोत्तम नगर, पो.आ. सिद्धमहावीर, पुरी ।
93141	विश्वरंजन जेना नकुल जेना	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5073 11.5.05	ग्राम रघुआ, पो.आ. कल्याणपुर, जिला पुरी ।
93142	बुद्धाबन मेहर लोकनाथ मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुलां सम्बलपुर २००४	4997 20.8.04	बड़ाबाजार, सोनपुर ।
93143	बुद्धाबन बेहेरा शिकारी बेहेरा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4822 4.4.03	ग्राम नागापुर, पो.आ. लार्थापाड़ा, जिला नयागढ़ ।
93144	चन्द्रांसु शृणु सुतर हरानन्दा सुतर	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००४	5030 6.12.04	ग्राम कालिकापुर, पो.आ. राजकनिका, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93145	चन्द्रकान्त राजत उमकान्त राजत	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुलां सम्बलपुर २००४	4989 16.8.04	ग्राम नरसिंहपुर, पो.आ. रामवन्द बाया पो.एस./बन्ट, जिला भद्रक ।
93146	चन्द्रन कुमार महालिक पुनश्चाम महालिक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4743 10.1.03	ग्राम वैद्यकाटेनी, पो.आ. लौलई, बाया गादिन्या पटना, जिला धेनकानन ।

93147	चिनमय बोहोरा गदाधर बोहोरा	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००२	4726 17.10.02	ग्राम/पो.आ. गोपालबनपुर, वाया अहियास, जिला, मद्रक ।
93148	चिनमया मोक्षपत्रा प्रवत चन्द्र मोक्षपत्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5062 7.2.05	उत्तर साही ग्राम/पो.आ. नुआसासन, वाया पिपिली, जिला पुरी ।
93149	चिनमयी पाल बासुदेव पाल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4856 19.6.03	ग्राम/पो.आ. मनतिरा, वाया डानागडी. जिला जाजपुर ।
93150	चिरंजीव सुपाकर उपेन्द्र सुपाकर	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4965 2.4.04	मुणक्सी फ्लैट बुधर्जा हाई स्कूल, पो.आ. बुधराजा, वाया ऐन्धापाली, जिला सबलपुर ।
93151	चिरना हीरा राजत कृष्णा चन्द्र राजत	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	4943 25.3.04	गोपालपुर सी. निकट गोपालपुर कालेज, ग्राम/पो.आ. गोपालपुर, जिला गंजम ।
93152	वितरंजन प्रधान बाबाजी प्रधान	बी.ए.एम.एस. का.सि.द.स.वि.वि., दरभंगा १९९५	4807 22.2.03	ग्राम बछरा, पो.आ. पट्टामुन्दई, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93153	चौधरी तीर्थ प्रसाद बराल अभिषेक्यु बराल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4676 19.6.02	ग्राम डिमरी, पो.आ. नोडा, वाया कसारदा, जिला कटक ।
93154	दर्शना पटेल शान्तिशाल पटेल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4873 26.6.03	ग्राम/पो.आ. खरियार, जिला नुआपारा ।
93155	देवासिस मिश्रा दिवकर मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4675 19.6.02	ग्राम नुआ साही प्लॉट नं. ४६७/२४४०, पो.आ. नयापल्ली, भुवनेश्वर ।

93156	देवव्रत खुटिया भागीरथी खुटिया	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5059 31.1.05	ग्राम कनियारी, पो.आ. धेनका, जिला क्योंझार ।
93157	देवव्रत पात्रा निशिकान्त पात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4919 30.10.03	ग्राम गौदगोडिया, पो.आ. सनहाट, जिला बालासोर ।
93158	देवासिस राय चौधरी सुखेन्दु कुमार रायचौधरी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4867 19.6.03	ग्राम कैदारस्वर (बिराट बाजार), पो.आ. चारबतिया, जिला कटक ।
93159	देवासिस घरेल कृतिबास घरेल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4881 10.7.03	ग्राम संखपटा, पो.आ. बरीपाडा, वार्ड नं.७, जिला मयूरभंज ।
93160	देवासिस पट्टुआरी सुरेश चन्द्र पट्टुआरी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4792 27.1.03	ग्राम/पो.आ. डेलंगा, कोटाबादसाही, जिला पुरी ।
93161	देवासिस मोहापात्रा सरत चन्द्र मोहापात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4789 24.1.03	ग्राम बडादनडासाही, पो.आ. भुवनेश्वर, जिला खुर्दा ।
93162	देवी प्रसन्न नायक हृदानन्द नायक	बी.ए.एम.एस. बराहामपुर वि.वि., बराहामपुर २००३	4710 29.8.02	ग्राम मल्लिकपुर, पो.आ. वैद्यराजपुर, जिला जाजपुर ।
93163	दीपक कुमार नायक नौरा चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. बराहामपुर वि.वि., बराहामपुर २००३	4708 28.8.02	ग्राम रायपुर, पो.आ. सोरो, जिला बालासोर जिला खुर्दा ।
93164	दिलीप कुमार पांडा उदयनाथ पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4908 3.9.03	ग्राम ओलन्दी, पो.आ. रहनागोराडा, जिला पुरी ।

93165	दिलीप कुमार साहू बैद्य साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4870 25.7.03	ग्राम/पो.आ. सिलन्दी, वाया बासमतिया, जिला भद्रक ।
93166	दिलीप कुमार सेनापति नरहरी सेनापति	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4652 7.6.02	ग्राम नुआरामपास, पो.आ. बडारामपास, वाया बसमतिया, जिला खोर्दाला ।
93167	दिलीप कुमार स्वेन बालाकृष्णा स्वेन	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4839 28.4.03	ग्राम शासनगा, पो.आ. छेनापाडी, जिला खोर्दाला ।
93168	दीपक स्वेन श्रीमसेन स्वेन	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5053 28.1.05	ग्राम/पो.आ. नैन्दीपुर, वाया गारदापुर, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93169	दीप्ति वरियथ एम.वी. भास्करन	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5020 11.10.04	शोपिंग मार्केट कम्प्लेक्स, सैक्टर-१८, वेरुक्केला, जिला सुदरगढ़ ।
93170	दुर्गा माधव परिदा काशीनाथ परिदा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5060 31.1.05	ग्राम बैरामनगर चाक न्यू कालोनी, पो.आ. मोतीगंज, जिला बालासोर ।
93171	दूयोगन बेहरा केलू चरण बेहरा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4728 27.11.02	ग्राम नहला, पो.आ. श्री रामचन्द्रपुर, वाया सडीगोपाल, जिला पुरी ।
93172	एल्लोरा साहू, दूयोगन साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4731 26.12.02	ग्राम सनौरा, पो.आ. कलापदर, जिला पुरी ।
93173	गणानन्द विगदर्शी अलोक बाबोजी चरण मोहनजी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4775 18.1.03	लाट नं. ३४७/२४८, ग्राम/पो.आ. बनकुअल, पी.एस.साहिदनगर, बीबीएसआर ।

93174	गीतांजलि साहू बिरेन्द्र कुमार साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4685 25.6.02	ग्राम/पो.आ. बरिहायाली, वाया जमाला, जिला बराह ।
93175	घनश्याम राधेश्याम	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4771 18.1.03	ग्राम निरंजनपुर, पो.आ. हरिराजपुर, जिला खुर्दा ।
93176	गोविन्दा चन्द्र प्रधान कार्तिक चन्द्र प्रधान	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००१	4734 10.1.03	ग्राम देवखण्ड, पो.आ. दुर्गादेवी, वाया मित्रपुर, जिला बालासोर ।
93177	गोपी रंजन मोहन्ता सुरेन्द्र मोहन्ता	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4787 20.1.03	ग्राम/पो.आ. गडुराश, वाया लक्ष्मीपोली, जिला मयूरभंज जिला खुर्दा ।
93178	गोपिनाथ नायक सुरेन्द्र नाथ नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००१	4642 1.5.02	ग्राम करनंजा, पो.आ. करनंजा, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93179	गौरी शंकर मिश्रा सुबाश चन्द्र मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4954 26.3.04	ग्राम खुनाथपुर, पो.आ. के. कराडकना, जिला रंजम ।
93180	हरपरिया धाल जगदीश धाल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4794 28.1.03	ग्राम जुआनिया, पो.आ. गोबिन्दपुर, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93181	हरप्रसन्ना त्रिपाठी बनबासी त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4801 3.2.03	ग्राम भिकारीपाड़ा, पो.आ. सारनकुल, जिला नयागढ़ ।
93182	हरिश चन्द्र गिरी महेश्वर गिरी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4748 16.1.03	ग्राम/पो.आ. नुआगन, वाया राखुअन, जिला मयूरभंज ।

93183	हिमांशु सेखर त्रिपाठी मायाधर त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००२	4709 28.8.02	ग्राम बेलडा, पो.आ. मोउडा, जिला भद्रक ।
93184	इतिश्री प्रधान नारायण प्रधान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4888 23.7.03	ग्राम सर्वोदय नगर, पो.आ. एवं जिला पुरी ।
93185	इतिश्री बिसोई भिकारी चरण बिसोई	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००२	4723 24.9.02	ग्राम/पो.आ. बैगुनिया, वाया छण्डापारा, जिला नयागढ़ ।
93186	जगन्नाथ उपाध्याय अविराम उपाध्याय	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5046 28.1.05	ग्राम बागनारा साशन पो.आ. गेलटुआ, वाया एम. नगर, जिला भद्रक ।
93187	जजती केशरी दास मनोरजन दास	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4983 11.8.04	ग्राम/पो.आ. भीमपुर, वाया रसालपुर, जिला बालासोर ।
93188	जनमेजय दाश राजकिशोर दाश	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4957 26.3.04	ग्राम ओटी, पो.आ. बागुनी, वाया असुरेश्वर, जिला कटक ।
93189	जयदेव पांडा प्रवाकर पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4967 22.4.04	ग्राम/पो.आ. कान्तीपुर, जिला मयूरभंज ।
93190	जयन्ता कुमार बेहरा चतुर्भुज बेहरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २०००	4804 4.2.03	ग्राम भुलकुन्डी, पो.आ. पुरिन्दा, जिला मयूरभंज ।
93191	जयन्ता कुमार दास नित्यानन्दा दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4882 10.7.03	ग्राम चुडा, पो.आ. डबरधुआपटना, वाया बोलगाढ़, जिला खुर्दा ।

93192	जयप्रकाश राणा विश्वामित्र राणा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4976 9.8.04	ग्राम सिट्पडा, पो.आ. अटागोव, जिला बालनगीर ।
93193	जयराम मंगराज उग्रसेन मंगराज	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4994 19.8.04	ग्राम/पो.आ. कनकेरी, वाया सोसिया, जिला कालाहांडी ।
93194	जीतेन्द्र पांडा किशोर च. पांडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००९	4716 2.9.02	ग्राम/पो.आ. मेडिको, मैन रोड, भंजानगर, जिला गंजम ।
93195	जिना पटनायक प्रसन कुमार पटनायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4916 15.10.03	ग्राम जगमारा, पो.आ. खण्डागिरी, जिला खुर्दा ।
93196	जितेन्द्र कुमार भांजा जगतबन्धु भांजा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4772 18.1.03	ग्राम देकुरी, पो.आ. बरडा, वाया बलिचन्द्रपुर, जिला जाजपुर ।
93197	जितेन्द्र कुमार मोहन्ती गुनानिधि मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4861 19.6.03	ग्राम कुलाबोरसाना, पो.आ. कुलाश्री, जिला कटक ।
93198	ज्योति रंजन स्वैन सूर्य कुमार स्वैन	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4936 21.2.04	नामदिनी कालोनी, विकट टेलिफोन एक्सचेंज, फार्म रोड, चैरुआपाडा, पो.आ./जिला सम्बलपुर ।
93199	ज्योतिमाया सराफ सुरेन्द्र कुमार सराफ	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4841 30.4.03	ग्राम बारपालीपाडा, पो.आ./जिला बालनगीर ।
93200	चोतारमय्य राउत दिण्णु नरण राउत	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4690 26.6.02	ग्राम आलोकनगर, पो.आ. निआली, जिला कटक ।

93201	ज्योतसना मयी महाराज जाननाथ महाराज	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4783 18.1.03	ग्राम गोपीनाथपुर, पो.आ. घन्टेस्वर, जिला भद्रक ।
93202	कालन्दी चरण बेहेरा कृतिबाश बेहेरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4969 11.6.04	द्वारा सी.एम. बेहरा डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी आफ इंडिया, ब्रांच १, सुर्जनगर, बीबीएसआर ।
93203	काली प्रसाद पांडा परमानन्दा पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4947 26.3.04	ग्राम/पो.आ. लिमापादर, जिला रायगढ़ ।
93204	करुणा कुमारी सारंगी भागिरथी सारंगी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4663 7.6.02	ग्राम/पो.आ. कुम्हारपाडा, जिला नयागढ़ ।
93205	करुणा मोहन्ता कुशाधर मोहन्ता	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4905 27.8.03	ग्राम भालुका, पो.आ. झुमपुरा, जिला खोर्द्वार ।
93206	कल्याण कुमार माझी भीमा हरी माझी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २०००	4697 27.7.02	ग्राम बडापाही, पो.आ. बिबिचपुर, जिला बलासोर ।
93207	कमलाकान्ता राजत कुलामणि राजत	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4739 10.1.03	ग्राम भांगमल, पो.आ. शंकरपुर, वाया मोविन्दपुर, जिला धेनकानल ।
93208	काननबाला मोहन्ती प्रबोकर मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4859 19.6.03	ग्राम/पो.आ. गडापोखरी, वाया बारम्बा, जिला कटक ।
93209	कश्यप अम्बारिशा नारायण प्रधान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4887 23.7.03	ग्राम सर्वोदय नगर, पो.आ. एवं जिला पुरी ।

93210	किशोर कुमार प्रधान नवीन चन्द्र प्रधान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4988 16.8.04	ग्राम/पो.आ. महुहुहन, वाया सेरो, जिला बालासोर ।
93211	किशोर कुमार साहू भरत चन्द्र साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4732 9.1.03	ग्राम गोपालजी रोड, पो.आ./जिला बालनगीर ।
93212	कृष्ण चन्द्र रथ लक्ष्मीधर रथ	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4806 4.2.03	ग्राम ओचिन्दा, पो.आ. मछगौव, जिला जगतसिंहपुर ।
93213	क्षीरोद चन्द दास नित्यन नन्दा दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5058 31.1.05	ग्राम जादपुर (रानीपटना बैंक कालोनी) पो.आ./जिला बालासोर ।
93214	क्षीरोद कुमार साहू चैतन्या साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4952 26.3.04	ग्राम कुकुता, पो.आ. बलिमी, जिला धेनकानल ।
93215	लक्ष्मीकान्ता चान्द भरमाबाब चान्द	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4979 9.8.04	ग्राम/पो.आ. डाबरथुआ (पटना), जिला खुर्दा ।
93216	ललिमा पाती देवेन्द्र नाथ पाती	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4814 28.3.03	ग्राम बलभद्रपुर, पो.आ. महाना, वाया रामेश्वर, जिला कटक ।
93217	लिपी नायक फकीर चरण नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4644 14.5.02	ग्राम भानपुर, पो.आ. बरीपाडा-२, जिला मयूरभंज ।
93218	लिपिका मोहापात्रा लक्ष्मीकान्ता मोहापात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4962 27.3.04	ग्राम/पो.आ. सैलेझापावा, जिला कटक ।

93219	लिता दाश हरिश्चक्र दाश	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4823 7.4.03	ग्राम बकुलमठा साही, पो.आ. एवं जिला पुरी ।
93220	लोकनाथ कुमार राधेश्याम कुमार	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4929 12.01.04	ग्राम/पो.आ. हातिबारी, वाया जुनेपुरा, जिला सम्बलपुर ।
93221	मिता रानी देई निलोचन प्रधान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4713 29.8.02	ग्राम/पो.आ. इतामति, जिला नयगढ़ ।
93222	माधवीलता प्रधान गोकुला चन्द्र प्रधान	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4736 10.1.03	ग्राम गोदाबरी, पो.आ. ब्राह्मनिया, जिला पुरी ।
93223	मधुमिता मलिक मगुनी मलिक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5064 9.2.05	प्लॉट नं. 93६८, कपिलप्रसाद, पो.आ. भुवनेश्वर, जिला खुर्दा ।
93224	मधुमिता प्रधान अनन्त किशोर प्रधान	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4871 26.6.03	ग्राम/पो.आ. गोपीनाथपुर, वाया केन्दुपटना, जिला कटक ।
93225	मधुमिता राजत मुलीधर राजत	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००४	4939 27.2.04	ग्राम खेरास, पो.आ./जिला जगतसिंहपुर ।
93226	महासवता सामन्तराय प्रभुल्ला कुमार सामन्तराय	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4800 3.2.03	ग्राम गोडाभंगा, पो.आ. कालंगा, जिला खुर्दा ।
93227	मैत्री रंजन मोहन्ती रविन्द्रनाथ मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4666 1.6.02	ग्राम साहुपाडा, पो.आ. निगरान, जिला केन्द्रपाडा ।

93228	मलय मोहन्ती माधवानन्दा मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००१	4640 6.4.02	ग्राम साट नं. २४८, गडगोपीनाथ प्रसाद, चान्दीमाता कालोनी, रसूलगढ़, भुवनेश्वर ।
93229	ममतारानी अग्रवाल ममललाल अग्रवाल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4848 12.5.03	जलान लेन, ग्राम/पो.आ., खेवाजपुर, जिला सम्बलपुर ।
93230	ममता दलाई रत्नाकर दलाई	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4724 4.10.02	ग्राम/पो.आ. सिंगला, जिला बालासोर ।
93231	मनारजन कार निरंजन कार	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4639 6.4.02	ग्राम/पो.आ. चदिया, वाया बरपाड़ा, जिला भद्रक ।
93232	मनजीत सामल परसुराम सामल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4813 28.3.03	ग्राम मोहनपुर, पो.आ. कोटेपुर, जिला भद्रक ।
93233	मानस गिरी मुलीधर गिरी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4815 31.3.03	ग्राम बलीपाड़ा, पो.आ. पट्टामुन्दई, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93234	मानस कुमार इंदया रंजन साहू पंचानन साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5002 26.8.04	ग्राम ठाकुरमल, पो.आ. बडासाहिर, वाया गौरपाती, जिला सम्बलपुर ।
93235	मानस कुमार दीक्षित निरंजन दीक्षित	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4817 7.4.03	ग्राम निवारन, पो.आ. सुहागपुर, वाया नयाहाट, जिला कटक ।
93236	मानस रंजन देवता मदन मोहन देवता	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4833 25.4.03	ग्राम मनतिर, पो.आ. बाराबती, वाया धर्मशाला, जिला जाजपुर ।

93237	मनसा रंजन साहू रत्ननिधि साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4964 31.3.04	ग्राम/पो.आ. पुस्तोतम नगर, सिधमोहावीर, पुरी ।
93238	मानसी मोहनती फकीर चरण मोहनती	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4715 2.9.02	ग्राम/पो.आ. कर्तोसिंह, जिला पुरी ।
93239	मानसी पांडा बसन्ता कुमार पांडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5013 27.9.04	ग्राम मुलागन, पो.आ. जालंगा, वाया बर्कपुर, जिला भद्रक ।
93240	मनतोष पात्रा परमेश्वर पात्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर १९९१	4877 30.6.03	ग्राम/पो.आ. अरेबेडा, वाया चारबहत, जिला कालाहाडी ।
93241	मन्दाकिनी बिहारी अमरेन्द्र बिहारी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4777 18.1.03	ग्राम/पो.आ. इन्दुपुर, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93242	मन्दाकिनी चन्द्राकर राधेश्याम चन्द्राकर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4829 24.4.03	ग्राम/पो.आ. भालेश्वर, वाया खरियार रोड, जिला नुआपाड़ा ।
93243	मंजू सैन युधिष्ठीर सैन	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4920 7.11.03	ग्राम कान्तामलिया, पो.आ. धनुअल, जिला जानपुर ।
93244	मंजूश्री साहू श्रीधर वन्द साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5051 28.1.05	ग्राम/पो.आ. रतिना वाया बी.टी. पुर, जिला बालासोर ।
93245	मनमथ कुमार देहेग वनमाली देहेग	बी.ए.एम.एस. दण्डामपुर वि.वि., बालामपुर २००४	5037 7.12.04	ग्राम तालाडिही, पो.आ. कुहुरी, जिला खुर्दा

93246	मनोज दास ऐन्था सेठी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4786 20.1.03	ग्राम कारामाला, पो.आ. शान्तिधाम, वाया कानस, जिला पुरी ।
93247	मनोज कुमार साहू परमानन्दा साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4866 19.6.03	ग्राम ओखामा, पो.आ. संक्रापटना, वाया भापर, जिला धेनकान्त ।
93248	मनोज कुमार साहू जोगेश्वर साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर १९९६	5023 8.11.04	ग्राम कंसारीपारा, पो.आ./जिला बालनगरी ।
93249	मनोज कुमार सामन्तराय कामदेव सामन्तराय	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4780 18.1.03	बल्लाराम नगर, गुनापुर, जिला रायगड
93250	मनोरमा बेहरा नारायण बेहरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4692 3.7.02	ग्राम कारामाला, पो.आ. शान्तिधाम, जिला पुरी ।
93251	मनोरंजन भोई गोपीनाथ भोई	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4958 26.3.04	ग्राम खुलिश, पो.आ. बहराना, जिला पुरी ।
93252	मनोरंजन होटा हरधान होटा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4945 26.3.04	ग्राम डुगुरीपाली, पो.आ. रेमुडा, जिला बराह ।
93253	मनोरंजन मल्लिक भरभरबार मल्लिक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4667 10.6.02	ग्राम धुमतासासन, पो.आ. इन्दुपुर, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93254	मनोरंजन मोहपात्रा सुदर्शन मोहपात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4684 21.6.02	ग्राम धानपुर, पो.आ. सिपली, जिला पुरी ।

93255	मनोरंजन नायक कैलाश चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4880 10.7.03	ग्राम रायपिताम्बर, पो.आ. मंगलपुर, जिला बालासोर ।
93256	मनोरंजन प्रधान परमानन्दा प्रधान	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4648 30.5.02	ग्राम/पो.आ. खिलेई, जिला देवगढ़ ।
93257	मार्गशीर्ष बिसवाल निर्मल चन्द्र बिसवाल	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4645 29.5.02	ग्राम एवं पो.आ. ताराडीपल, वाया दण्डीसाही, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93258	मोह. सरफराज खान अब्दुल नईम खान	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	4932 19.1.04	ग्राम/पो.आ. कपला बाजार, पो.एस. लालबाग, जिला कटक ।
93259	मिस्त्री बिसोई करुणाकर बिसोई	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००३	4818 2.4.03	ग्राम कुलड, पो.आ. नालको नगर, जिला अंगुल ।
93260	मीनाक्षी गलहोत्रा सुखदेव कुमार गलहोत्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4638 6.4.02	ग्राम/पो.आ. बलीपटना, जिला खुरद ।
93261	मिनाती साहू पूर्ण चन्द्र साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4872 26.6.03	ग्राम/पो.आ. लाल बाजार, वार्ड नं.५, जिला मयूरभंज ।
93262	मीराबाई दास अश्विनी प्रसाद	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5066 25.2.05	ग्राम सतपौलिया, पो.आ. हटवादा, वाया रायगंगपुर, जिला मयूरभंज ।
93263	मिताली मधु सिन्हा मीरकिन्दा साहू	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	5034 7.12.04	ग्राम/पो.आ. ब्रह्माबाद, जिला जंगपुर ।

93264	मित्रभानु जेना अजीत कु. जेना	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4764 17.1.03	ग्राम/पो.आ. पांडुआ, बाया सैनकुल, जिला खोर्द्वारा ।
93265	मोनलिसा मिश्रा दुर्गा माधव मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4941 26.3.04	ग्राम हरिवन्दनपुर सासन, पो.आ. नरसिंहपुर, जिला कटक ।
93266	मोनलिसा मोहपात्रा भास्कर मोहपात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4896 19.7.03	ग्राम/पो.आ. तिपुरी, बाया कानस, जिला पुरी ।
93267	मौसुमी पति केदारनाथ पति	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4968 22.4.04	ग्राम अपर तियाडी साही, पो.आ./जिला, पुरी ।
93268	मुक्ती रंजन पाणिग्रही प्रकाश पाणिग्रही	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4654 7.6.02	ग्राम तिनीषाडा, जुगल शासन, पो.आ. खण्डापासा, जिला बालासोर ।
93269	मुक्तीकान्त साहू इन्दुमणि साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4879 10.7.03	ग्राम सैन्दा, पो.आ. गोपालपुर, बाया चन्द्रबलि, जिला भद्रक ।
93270	नाथदु जगनाथ नाथदु भारता	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	5031 6.12.04	ग्राम सूर्यनारायणपुर, पो.आ. भाबन्धा बाया भट्टकुमारडा, जिला गंजम ।
93271	नलिनीकान्त पाणिग्रही सरत च. पाणिग्रही	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००२	4729 27.11.02	ग्राम/पो.आ. भुसाल, बाया भुवन, जिला धेनकानल ।
93272	नमिता कर मंजुव श्रुमां कर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4699 20.8.02	ग्राम बाउडपुर, पो.आ. माधवनाग, जिला भद्रक ।

93273	नन्दिनी बेहरा कुमार बेहरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4744 10.1.03	ग्राम/पो.आ. गडाकोल, वाया ब्रह्मगिरी, जिला पुरी ।
93274	नारायण चन्द्र मिश्रा कार्तिक चन्द्र मिश्रा	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००३	4809 28.3.03	ग्राम/पो.आ. बिरा नीलकण्ठपुर, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93275	नारायण पाथी हरिहर पाथी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4658 7.6.02	ग्राम कालीछक, पो.आ. बलिमैला, जिला मलकानगिरी ।
93276	निधि छजेर भूपेन्द्र सिंह छजेर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4843 30.4.03	ग्राम/पो.आ. ब्रजराजनगर, जिला झरसुड़ा ।
93277	निहार रंजन साहू बंशीधर साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5072 21.4.05	ग्राम/पो.आ. बैनचुआ, जिला खुरद ।
93278	निहारिका मोहन्ती नीलामणि मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5014 27.9.04	ग्राम अलातिरी, पो.आ. पानीकोईली, वाया एवं जिला जाजपुर ।
93279	निलोत्पल राउत अनिरुद्ध राउत	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4677 19.6.02	ग्राम कलिसीपाड़ा, पो.आ. राजकनिका, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93280	निराकर सेठी नरसिंह चरण सेठी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4769 18.1.03	ग्राम कैथ, पो.आ. डेरा, वाया राजानगर, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93281	निरुपमा जेना प्रमोद जेना	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	5035 7.12.04	ग्राम डीहसाही, पो.आ. बलिबिल, वाया बारी, जिला जाजपुर ।

93282	निताई चरण सतप्रथी बन बिहारी सतप्रथी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4722 24.9.02	ग्राम राधारमणपुर (घोलापुर) पो.आ. मुमुपाल, वाया कबीरपुर, जिला जाजपुर ।
93283	नित्यानन्दा भोई युधिष्ठीर भोई	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4671 11.6.02	ग्राम महुलपल्ली, पो.आ. तेमरी, वाया पैकमल, जिला बरगढ़ ।
93284	नरसिंका लेंका बिम्बावर लेंका	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4650 31.5.02	ग्राम/पो.आ. तातासंगा, वाया मार्सर्ह, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93285	नूतन सामल सामोन्द्र सामल	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4991 16.8.04	द्वारा बी.के. राजत एन-४, एफ-२७, आई आर.सी. ग्राम, नयापल्ली, भुवनेश्वर
93286	पी.एम. जोनी नित्यानन्दा मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5069 21.3.05	ग्राम/पो.आ. सेहादा, जिला भद्रक ।
93287	पदरबिन्द पात्रा अनन्ता चरण पात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4681 19.6.02	लाट नं.४६५ (1) नुआ साही, नयापल्ली, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा ।
93288	पदरबिन्द दाश नारायण चन्द्र दाश	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4852 29.5.03	ग्राम/पो.आ. सर्वोदयनगर, जिला पुरी ।
93289	पदमा लोचन जेना गोपाल जेना	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5065 14.2.05	ग्राम मन्दरासाही, पो.आ. सुखसन्दा वाया, देहुडा, जिला बालासोर ।
93290	पद्मजा मिश्रा नीलकण्ठ मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	5042 23.12.04	मिश्रा साही, मकेश्वर साही, पुरी ।

93291	पांडव चन्द्र बिस्वाल रघुनाथ बिस्वाल	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बाराहमपुर २००३	5026 27.11.04	ग्राम ओसिगी, पो.आ. घोडापालन, जिला गंजम ।
93292	परेश कुमार सतपथी बन्माली सतपथी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4678 19.6.02	सी/एल-७५, वीएसएस नगर, पो.आ. भुवनेश्वर, -४, वानी विहार ।
93293	परसुराम चौधरी कुंभीराल चौधरी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., कुंभीराल सत्तलपुर २००३	5071 21.4.04	ग्राम/पो.आ. बारा, वाया भुक्ता, जिला बरगढ़ ।
93294	पतितपावन दाश महेश्वर दाश	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4727 21.10.02	ग्राम जेकन्देपुर, पो.आ. सनखला, जिला खुर्दा ।
93295	प्रबोसिनी साहू पिताम्बर साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	5025 25.11.04	ग्राम/पो.आ. तुलसीपाल, वाया बरपाल, जिला अमगुल ।
93296	प्रभा नायर के. कृष्ण नायर	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4917 27.10.03	ग्राम सामन्ता साही, पो.आ. बोक्सीबाजार, जिला कटक ।
93297	प्रभाकर दास बृन्दाबन दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4763 17.1.03	ग्राम/पो.आ. माधपुर, जिला नयागढ़ ।
93298	प्रभात कुमार नायक खाली नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4747 16.1.03	ग्राम/पो.आ. भवानीपटना, जिला कलाहंडी ।
93299	प्रदीप कुमार जेना पूर्ण चन्द्र जेना	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4924 31.12.03	ग्राम/पो.आ. श्रीकृष्णापुर, जिला बालासोर ।

93300	प्रदीप कुमार प्रधान रवि चरण प्रधान	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5067 1.3.05	ग्राम अरखपाल, पो.आ. कुमभेईगोला, वाया रिमल, जिला, देवगढ़ ।
93301	प्रदीप कुमार रणजीत पंकज रणजीत	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००२	4721 7.9.02	ग्राम तारापी, पो.आ. सोरन, वाया कुहुरी, जिला खुर्दा ।
93302	प्रदीप्ता मिश्रा प्रसन्ना कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4698 1.8.02	ग्राम/पो.आ. ब्रह्मपुर, वाया चारबतिया, जिला कटक ।
93303	प्रदीप कुमार पाणी लोकनाथ पाणी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4653 7.6.02	ग्राम/पो.आ. बिष्णुपुर, वाया नीमपारा, जिला पुरी ।
93304	प्रफुल्ल चन्द्र महन्त कैलाश चन्द्र महन्त	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4754 16.1.03	ग्राम दियागली, पो.आ. मुशकोरी, वाया पटना, जिला क्योंझर ।
93305	प्रकाश कुमार पात्रा निरंजन पात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4755 16.1.03	ग्राम तुलसीचौरा, पो.आ. बरीपाड़ा, जिला मयूरभंज ।
93306	प्रकाश रंजन त्रिपाठी लक्ष्मीवर त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4995 19.8.04	ग्राम/पो.आ. बैलाबन्धा, वाया गंगाधरपुर, जिला खुर्दा ।
93307	प्रमोद कुमार मेहर सुरेन्द्र कु. मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4977 9.8.04	ग्राम गोशाला, पो.आ. कलामती, जिला सम्बलपुर ।
93308	प्रमोद कुमार गौडा गांधीराम गौडा	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००२	4703 28.8.02	ग्राम मोविन्दपुर, पो.आ. नेतंगा वाया गोदरा, जिला गंजम ।

93309	प्रसाद कुमार गौडा अभिराम गौडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., कुर्ना सम्बलपुर २००२	4660 7.6.02	ग्राम/पो.आ. पेलपंग, वाया पदमापुर, जिला रायगड ।
93310	प्रसन्ना कुमार मुत्ती प्रस्ताद मुत्ती	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., कुर्ना सम्बलपुर २००४	4987 16.8.04	ग्राम/पो.आ. डाबरधुआ पटना, वाया बोलागढ, जिला छुर्दा ।
93311	प्रसान्त कुमार जैली मुदर्शन जैली	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., कुर्ना सम्बलपुर २००२	4655 7.6.02	ग्राम/पो.आ. सतपाडा, वाया ब्रह्मागिरी, जिला पुरी ।
93312	प्रसान्त कुमार नायक विदयाधर नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4912 -23.9.03	ग्राम/पो.आ. पानीकोईली, जिला जाजपुर ।
93313	प्रसान्त कुमार पाथी मायाधर पाथी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००५	5043 14.1.05	ग्राम लुनाहर, पो.आ. खलना, वाया, सैनकुल, जिला खोर्साह ।
93314	प्रसान्त कुमार साहू सुदर्शन साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4955 26.3.04	ग्राम जेमोदेईपुर पटना, पो.आ. मनथातपुर, जिला नयागढ ।
93315	प्रतिभा सतपथी गंगाधर सतपथी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4750 16.1.03	द्वारा विद्युत कु. मिश्रा, ग्राम मथसाही पो.आ. सत्यवादी, जिला पुरी ।
93316	पर्वत रंजन मोहन्ता राम चन्द्र मोहन्ता	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	5070 20.4.05	ग्राम सम्बुला, पो.आ. केन्दुडिहा, वाया बरसाही, जिला मयूरभंज ।
93317	प्रोतम प्रीतिमान नायक गोलक बिहारी नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., कुर्ना सम्बलपुर २००२	4693 6.7.02	ग्राम/पो.आ. बन्धापाडा, जिला बालांगीर ।

93318	प्रीति कुमारी सिंह दरोगा प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5017 28.9.04	ग्राम सलेपली, पो.आ. एवं जिला बालंगीर ।
93319	प्रियदर्शिनी पांडा नरसिंह पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4753 16.1.03	ग्राम/पो.आ. कपालदेवीसाही, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा ।
93320	प्रियदर्शिनी दास गण कुमार दास	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	5036 7.12.04	द्वारा डा. एस.के.दास, ग्राम कोमपल्ली, रामनगर, पहली लेन, बराहमपुर, गंजम ।
93321	प्रियदर्शिनी सारंगी दसरथी सारंगी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4875 26.6.03	ग्राम रायखण्डी, पो.आ. कबाकुन्द, जिला पुरी ।
93322	प्रणव हल्दर प्रभास चन्द्र हल्दर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4981 10.8.04	ग्राम नेहरूनगर, पो.आ. बराहमपुर, गोसांनी नुआगोव, जिला गंजम ।
93323	पूनाम दास प्रदीप्त कु. दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4893 28.7.03	लाटन-२८५-ए, सहिदनगर, भुवनेश्वर ।
93324	पुरन्दर साहू मुत्तीशर साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4840 29.4.03	ग्राम रामपुर, पो.आ. दुडुका, जिला बालंगीर ।
93325	पूर्ण वन्द्र पात्रो रामानाथ पात्रो	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4680 19.6.02	ग्राम/पो.आ. काशीनगर, जिला गाजापती ।
93326	पूर्ण चन्द्र ठाकुर पुरुषोत्तम ठाकुर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4850 14.5.03	ग्राम/पो.आ. देवगोव, वाया बरडोल, जिला बराह ।

93327	पुष्पा रानी चन्द्राकर रावे श्याम चन्द्राकर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4827 24.4.03	ग्राम/पो.आ. भालेश्वर, वाया खरियर रोड, जिला नुआपाडा ।
93328	पुष्पाजलि प्रधान सन्ध्याम प्रधान	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4778 18.1.03	ग्राम/पो.आ. बोरिया (ए), वाया कबिसूर्या नगर, जिला गंजम ।
93329	पुष्पारानी पुनरिया मधुसूदन पुनरिया	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4760 17.1.03	ग्राम अजयनगर, पो.आ. आनन्द बाजार, जिला भद्रक ।
93330	पुष्पिता मुन्द पदमनन्द मुन्द	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4892 25.7.03	ग्राम/पो.आ./जिला मल्हनगिरी ।
93331	आर. मिनी कुमारी वी. चेलयप्पन	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4855 19.6.03	ग्राम आनन्दनगर, पो.आ./जिला बालनगीर ।
93332	आर. सीमा कुमारी वी. चेलयप्पन	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4854 19.6.03	ग्राम आनन्दनगर, पो.आ./जिला बालनगीर ।
93333	रबिनारायण बेहेरा गयाधर बेहेरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4790 24.1.03	ग्राम/पो.आ. कुस्त्या, वाया तुरिगरिया, जिला बालासोर ।
93334	रबिनारायण खडंगा हरिहर खडंगा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4799 30.1.03	गौडबाद साही, पो.आ./जिला पुरी ।
93335	रविन्द्र कुमार पात्रा रामचन्द्र पात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4802 4.2.03	ग्राम बडामहसाडी, पो.आ. दलुआ-१, वाया बलियापात, जिला बालासोर ।

93336	राधाकान्त साहू रविन्द्रनाथ साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4776 18.1.03	ग्राम/पो.आ. पदमावती, वाया भापुर, जिला नयागढ़ ।
93337	राजा सन्तोष कुमार मोहपात्रा रामाचन्द्र मोहपात्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4661 7.6.02	ग्राम श्रीयापुर, पो.आ. सतसंखा, वाया पट्टनैकिया, जिला पुरी ।
93338	रजनी कान्त बागल मधुसूदन बागल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4933 10.2.04	ग्राम बरापाडा, पो.आ./वाया प्रतापपुर, जिला मयूरभंज ।
93339	राजश्री रणजिता बेहेरा जयचन्द्र बेहेरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4781 18.1.03	ग्राम/पो.आ. बडाखलाडी, जिला मयूरभंज ।
93340	रजत कुमार नायक प्रवाकर नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4999 20.8.04	ग्राम पुनसिया, पो.आ. बनकटी, वाया बनगिरिपोसी, जिला मयूरभंज ।
93341	रजत कुमार सेठी गणेश प्रसाद सेठी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4665 7.6.02	ग्राम/पो.आ. कल्याणपुर, वाया विनझरपुर, जिला जाजपुर ।
93342	राजीव कु. माझी महेन्द्र प्रसाद माझी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4984 11.8.04	ग्राम/पो.आ. अरुहाबाद, वाया गोपालपुर, जिला बालासोर ।
93343	राजेश कुमार पाणिग्रही सञ्जय पाणिग्रही	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4717 2.9.02	ग्राम/पो.आ. नाछीपुर, जिला बालासोर ।
93344	राजेश मंत्री सुशान्ता कुमार मंत्री	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4869 19.6.03	ग्राम मकरबागसाही, पो.आ. बक्सी बाजार, जिला कटक ।

93345	रामा कल्लव पांडा कृतिवत्स पांडा	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००२	4712 29.8.02	ग्राम कनिरीडा, पो.आ. स्तथागापेन्थो, वायस सुरंगो, जिला गंजम ।
93346	रामा मोहन सिन्हा हरमोहन सिन्हा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4884 16.7.03	ग्राम बलिसाही, पो.आ. गोप, जिला पुरी ।
93347	रामकान्त सैन्ट नारायण च. सैन्ट	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4768 18.1.03	ग्राम/पो.आ. खदीमाहरा, जिला श्रद्धक ।
93348	रामणी रंजन पात्रा सुरेन्द्र पात्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5075 19.5.05	ग्राम/पो.आ. क्योझाराह, जिला क्योझार ।
93349	रामानुज पटनायक लक्ष्मीनारायण पटनायक	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	5029 6.12.04	ग्राम/पो.आ. राधकृष्णा स्ट्रीट, बराहमपुर, गंजम ।
93350	रमेश कुमार पोष छेत्तिया पोष	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4735 10.1.03	ग्राम गोदाबरी, पो.आ. ब्राह्मनिया, जिला पुरी ।
93351	रानीलता पांडा लक्ष्मण कुमार पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4641 1.5.02	ग्राम/पो.आ. अपर्णा नगर, कैवल्या विहार, जिला कटक ।
93352	रंजन कुमार पांडा प्रफुल्ल कुमार पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4643 1.5.02	ग्राम दास्हा, पो.आ. कटीसाही, वाया कामंडा, जिला बालासोर ।
93353	रणजीत सिंह देव दिनेन्द्र प्रताप सिंह	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4649 31.5.02	ग्राम कलबपारा, पो.आ./जिला बालासोर ।

93354	रणजीप कुमार दास लक्ष्मीधर दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4863 19.6.03	ग्राम/पो.आ. फकीरपुर, जिला क्योंहार ।
93355	रणजीत इक्का बी. विमलेश इक्का	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5050 28.1.05	क्वाटर नं. ३आर/३/४, कल्पना फ्लैट, भुवनेश्वर ।
93356	रस मंजरी मन्हिरा बिनवीनारायण मन्हिरा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4672 13.6.02	ग्राम/पो.आ. जोशीसारवा, वाया, लोईसिंह, जिला बालासोर ।
93357	रश्मि बेहेरा जयराम बेहेरा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5005 1.9.04	ग्राम अटमला, पो.आ./जिला जगतसिंहपुर ।
93358	रश्मि रेखा साहू लम्बोदर साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4751 16.1.03	ग्राम देउओटोटा, पो.आ./जिला पुरी ।
93359	रश्मि रेखा दाश प्रहलाद दाश	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4902 13.8.03	ग्राम/पो.आ. तालामुल शासन, जिला अंगुल ।
93360	रश्मिता मायाधर सेठी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5004 30.8.04	ग्राम/पो.आ. टोटपाडा, वाया क्रिशन नगर, जिला कटक ।
93361	रश्मि रंजन मोहपात्रा सिसिर कुमार मोहपात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4674 19.6.02	ग्राम डहसैबिरी, पो.आ. बराडिया, वाया अनखिया, जिला जगतसिंहपुर ।
93362	रश्मि राय गुरु देवी प्रसाद रायगुरु	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००२	4718 2.9.02	ग्राम कालीगली, पो.आ. चन्दनी चौक, जिला कटक ।

93363	रामन कुमार मिश्रा रविन्द्र कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4788 21.1.03	ग्राम/पो.आ.गुन्दीचपारा, वाया गडासिला, जिला धनकुमल ।
93364	रितेन्द्र मोहन्ती जगन्नाथ मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4668 10.6.02	ग्राम महिपाल, पो.आ. एवं जिला केंद्रपाड़ा ।
93365	रितेश बलियार सिंह राधा मोहन बलियार सिंह	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००२	4720 7.9.02	ग्राम/पो.आ. भाजगढ़, वाया तंगी, जिला खुर्दा ।
93366	रितेश कुमार साहू इंदानन्दा साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4664 7.6.02	ग्राम सिमेंट नगर, पो.आ. बरडोल, जिला बरगढ़ ।
93367	रोहित कुमार बेहेरा अभिषेक बेहेरा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २०००	4803 4.2.03	ग्राम/पो.आ. हाटबडी, वाया कुहुरी, जिला खुर्दा ।
93368	स्तुपर्णा मोहन्ती नार्गेन्द्रनाथ मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4758 16.1.03	भास्करगंज, ओ.टी. रोड, बालासोर ।
93369	सचिदानन्दा हंसदा रामेश्वर हंसदा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4899 8.8.03	ग्राम कलिकापुर, पो.आ. बरीपाडा, जिला मयूरभंज ।
93370	सागर रंजन श्रीचन्दन रामेश्वर श्रीचन्दन	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4767 18.1.03	ग्राम/पो.आ. ओरा, जिला पुरी ।
93371	सगरिका दास सामेश्वर दास	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००२	4714 2.9.02	ग्राम हेमसुरपारा, पो.आ./जिला अंगुल ।

93372	सागरिका मिश्रा हरेकृष्ण मिश्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5012 27.9.04	ग्राम/पो.आ. पदमपुर, जिला बराङ्ग ।
93373	सैगथा पांडा सुरेश चन्द्र पांडा	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4824 7.4.03	ग्राम/पो.आ. फासी, जिला गंजम ।
93374	सैलेश कु. देवानगन उन्निताल देवानगन	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4986 13.8.04	ग्राम सिरटोल, पो.आ./जिला नुआपाड़ा ।
93375	सजाता नायक मुरलीधर नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4906 27.8.03	ग्राम बागबुड़ा, पो.आ. राजकरिका, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93376	सज्योति प्रकाश मेहर दुर्गा प्रसाद मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4996 20.8.04	ग्राम/पो.आ. बिनका नुआपाड़ा, जिला सुबर्नपुर ।
93377	सलिल मोहन मोहन्ती ललित मोहन मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4973 5.8.04	प्लॉट नं. ४०, टंकापानी रोड, राजारानी रेमल हातियासुनी लेन, ओल्ड टाउन, भुवनेश्वर ।
93378	सलिल पांडा दुर्गोधन पांडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4673 14.6.02	ग्राम अलीपुर, पो.आ. रामचन्द्रपुर, बाया बारी, जिला जाजपुर ।
93379	सम्बित कुमार दास रवि नारायण दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5049 28.1.05	बोधी भवन, चान्दमारीपडिया, पो.आ. सहदेवबुण्डा, बालासोर ।
93380	सनत कुमार दाश चिन्तामणि दाश	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5061 31.1.05	ग्राम चम्पागढ़ी, पो.आ. रानीबांध, जिला मयूरभंज ।

93381	सन्दीप कु. मोहन्ती विष्णुपद मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5055 28.1.05	ग्राम पधरपुर, पो.आ. जालेश्वर, जिला बालासोर ।
93382	सन्दीप कुमार सामल रामावन्ध सामल	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4928 9.1.04	ग्राम/पो.आ. ब्रह्मपुरा, वाया आमदा, जिला मयूरभंज ।
93383	सन्ध्या रानी बर्धई गोपीन बर्धई	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4992 16.8.04	ग्राम कुलतापारा, पो.आ. ब्रजराज नगर, जिला झारसुगुडा ।
93384	संगीता साहू विश्वनाथ साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4686 25.6.02	ग्राम/पो.आ. पजकमल, जिला बरगढ़ ।
93385	संधिप्रा दाश सत्यव्रत दाश	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००४	5033 7.12.04	ग्राम/पो.आ. ब्रह्मनिगम, वाया अरैह, जिला जाजपुर ।
93386	संजय कुमार साहू गौरा साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5054 28.1.05	ग्राम बिधरपुर, पो.आ. अभिमानपुर, वाया नुआपटना, जिला कटक ।
93387	संजया कुमार दास रविन्द्र नाथ दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4730 9.12.02	ग्राम ओडंगा झतिया सासन पो.आ. बाराबत्ती, जिला जाजपुर ।
93388	संजय कुमार दुबे पारसनाथ दुबे	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4847 8.5.03	ग्राम/पो.आ. शान्तीगडा, जिला बालनगीर ।
93389	सन्दीप कुमार विश्वल कैलाश विश्वल	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4838 28.4.03	ग्राम/पो.आ. बुदुला, वाया आंगलपुर, जिला बालनगीर ।

93390	संजय कुमार दास अर्जुन चन्द्र दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4898 31.7.03	ग्राम धीपासाही, डबल्यू नं. 99, पो.आ. बरीपाड़ा, जिला मयूरभंज ।
93391	संजीव कुमार दाश दिनबन्धु दाश	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4985 11.8.04	ग्राम विशलपती, पो.आ. नलुपली, बाया बरडोल, जिला बरगढ़ ।
93392	संजीव साहू बिष्णु वरुण साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4889 23.7.03	ग्राम उमाशंकर बाजार, पो.आ. तुरंग, जिला अंगुल ।
93393	सनमया कुमार आचार्य बाबाजी वरुण आचार्य	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4868 19.6.03	ग्राम अलीशाबाजार, मंगला साही, पो.आ. चान्दनी चौक, कटक ।
93394	शान्तिता सुबुधी नीलकण्ठ सुबुधी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5024 10.11.04	भगवती हैथ केयर मा मंगला मन्दिर मार्किट कम्प्लेक्स, स्टाल नं. 92, स्टेशन रोड, तितिलागढ़, जिला बालंगीर ।
93395	सारी रंजन सामल संकरसन सामल	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4910 23.9.03	ग्राम/पो.आ. पालिमी, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93396	सरिता दाश सरोजकान्ता दाश	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4798 30.1.03	ग्राम आनन्दानगर कथगोडा, पो.आ./जिला देनकानल ।
93397	सरिता मिश्रा हरकृष्ण मिश्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5011 27.9.04	ग्राम/पो.आ. गदमपुर, जिला बरगढ़ ।
93398	सरिता मोहन्ता मुकुन्द चन्द्र मोहन्ता	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4891 24.7.03	ग्राम सर्वोदय नगर, बालुखण्डा, पो.आ. एवं जिला पुरी ।

93399	सरित्री परिदा द्विज्वारा परिदा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4934 10.2.04	प्लॉट नं. 92६८/४, साखी नगर, यूनिट IV. भुवनेश्वर ।
93400	सरोज कुमार करण सुरेश चन्द्र करण	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर १६६६	4694 19.7.02	ग्राम कुसुती, पो.आ. मधुपुर, वाया कमदा, जिला बलासोर ।
93401	सरोज कुमार साहू लक्ष्मीर साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4956 26.3.04	ग्राम कुसुता, पो.आ. बलिमी, जिला केकमल ।
93402	सार्थक संकट विश्वाल कलाकृष्ण विश्वाल	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००२	4707 28.8.02	ग्राम लालसिंगी, पो.आ. नहेजीपुर, वाया भंजनगर, जिला गंजम ।
93403	सर्वाकान्त सामन्तराय जगीनाथ सामन्तराय	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., दुर्गा सम्बलपुर २००४	5018 28.9.04	ग्राम क्लीपटना, पो.आ. बदास, जिला पुरी ।
93404	ससांक सेखर मिश्रा अमृत्य कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4890 24.7.03	ग्राम/पो.आ. कबिसूर्य नगर, जिला गंजम ।
93405	साश्वत कुमार बेहेरा उदयनाथ बेहेरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4759 17.1.03	मुअहाटा, पो.आ. बनरपाल, जिला अंगुल ।
93406	सस्मिता खिलर कलाप्रद खिलर	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4819 2.4.03	ग्राम दखिनबाद, पो.आ. धामनगर, जिला भद्रक ।
93407	सस्मिता पाणिग्रही उमेश्वर कु. पाणिग्रही	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २०००	4637 6.4.02	ग्राम/पो.आ. जयदुर्गा नगर, बरहामपुर, जिला गंजम ।

93408	संस्थिता पटनायक पदम चरण पटनायक	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4825 7.4.03	ग्राम चोटरायण, पो.आ. गंगाधरपुर, जिला खुर्दा ।
93409	संस्थिता सामन्तराय भरसरबार सामन्तराय	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4782 18.1.03	ग्राम जोडापादर, पो.आ. शान्तीधाम, वाया कानस, जिला पुरी ।
93410	संस्थिता त्रिपाठी नबीन कुमार त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4990 16.8.04	ग्राम/पो.आ. प्रतापसागरपारा, जिला बालङ्गौर ।
93411	सत्यजीत प्रधान मनोरंजन प्रधान	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4909 4.9.03	ग्राम अथरा बंकी, पो.आ. अथरा बंकी एस.ई. रेलवे कालोनी, जिला जगतसिंहपुर ।
93412	सत्यनारायण साहू धनन्जय साहू	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००४	5028 6.12.04	ओल्ड बरहामपुर स्ट्रीट, पो.आ. बिग बाजार, बरहामपुर, जिला गंजम ।
93413	सत्यरंजन पांडा विद्याधर पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5007 3.9.04	ग्राम बतिपालसाशन, पो.आ. धौनरियाबाद, जिला बालासोर ।
93414	सौम्य सन्तोष परिदा बृन्दावन परिदा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4980 10.8.04	एल.आई.जी. ७७, खण्डागिरी, दुपडुमा हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जिला खुर्दा ।
93415	सौम्यकान्ता पांडा स्वप्नेश्वर पांडा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4907 29.8.03	ग्राम/पो.आ. सैलो गोविन्दपुर, जिला कटक ।
93416	सौम्यरंजन आचार्य जादुनाथ आचार्य	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4960 26.3.04	शान्ती विहार, बारमुन्डा, प्लॉट नं. १५/२४६५, फेन-11, म.नं. २२, एच.आई.जी. कालोनी, भुवनेश्वर ।

93417	सौरभ नायक छायाकान्ता नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4961 26.3.04	ग्राम/पो.आ. मोहिनीपुर पुरी सदर, जिला पुरी ।
93418	सावित्री साहू विद्याधर साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4740 10.1.03	ग्राम पालसदा, पो.आ. दवा, वाया झारखन्ध, जिला बरगढ़ ।
93419	शान्तीमाया पाणिग्रही ब्रजनाराया पाणिग्रही	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5006 3.9.04	ग्राम/पो.आ. डहामुन्दा, जिला बालासोर ।
93420	शर्मिष्ठा सरकार रविन्द्रनाथ सरकार	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4669 11.6.02	ग्राम बलिपतपुर कलौनी, पो.आ. भुसन्दपुर, जिला बुर्दा ।
93421	शशिवर साहू दिबाकर साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4923 15.12.03	ग्राम गन्धीपल्ली, पो.आ. पापनागा, वाया भेदेन, जिला बरगढ़ ।
93422	शिवब्रत दास विवेकानन्द दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4918 30.10.03	ग्राम/पो.आ. सहदेवबुन्दा, जिला बालासोर ।
93423	शुक्लान्ती साहू जयकृष्ण साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4779 18.1.03	मोहराणा साही विवेकानन्द मार्ग, भुवनेश्वर ।
93424	सिब प्रसाद मुकुन्द प्रसाद नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4913 24.9.03	ग्राम/पो.आ. मोरदापाडा, जिला पुरी ।
93425	सिद्धिप्रिया मलिक मनमोहन मलिक	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००४	5039 13.12.04	ग्राम/पो.आ. गाड देउलिया, जिला मयूरभंज ।

93426	सिमद्री भूषण नायक लक्ष्मीकान्त नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4946 26.3.04	ग्राम/पो.आ. सुसुआ, जिला भद्रक ।
93427	सिमा पटनायक प्रसान्त कु. पटनायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5056 28.1.05	ग्राम/पो.आ. खपुरिया, बलिसाही निकट ओ.जी.पी. हाई स्कूल, जिला कटक ।
93428	सिमा साहू गोविन्द चन्द्र साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5019 1.10.04	ग्राम नरसिंहपुर नहनापटना, पो.आ. नहनापटना, वाया धर्मशाला, जिला जाजपुर ।
93429	सिमता बाहिनीपति प्रसन्ना बाहिनीपति	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4756 16.1.03	ग्राम/पो.आ. सिधमहावीरपटना, जिला पुरी ।
93430	सिमता मोहन्ती सत्य कु. मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. बराहामपुर वि.वि., बराहामपुर २००४	5040 17.12.04	एल.बी./३१४, बडागडा व्रत कालोनी, पो.आ. बडागडा, जिला खुर्दा ।
93431	सिमता मृन्मयी दाश गतिवृष्ण दाश	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4858 19.6.03	ग्राम/पो.आ. खडगप्रसाद, जिला धनकासल ।
93432	सोबारानी वर्मा रविन्द्रनाथ नरेन्द्र सिंह वर्मा	बी.ए.एम.एस. बराहामपुर वि.वि., बराहामपुर २००३	4849 14.5.03	ग्राम अच्युतराजपुर सासन कालेज रोड, पो.आ. बनपुर, जिला खुर्दा ।
93433	सोमबती सेठी धनेश्वर सेठी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	4963 27.3.04	प्लॉट नं. ८१०/२७५०, ग्राम/पो.आ. नयापल्ली, जिला खुर्दा ।
93434	सोनलिक जेना गंगाधर जेना	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००५	5057 28.1.05	वाटर वर्क्स रोड, पुरी ।

93435	सोनासिन मोहराणा सिमावल मोहराणा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4970 3.8.04	ग्राम/पो.आ. गोडबरीशा नगर, बरहामपुर, गंजम ।
93436	सौभागिनी सेठी भरमबर सेठी	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००२	4705 28.8.02	ग्राम/पो.आ. इराच, जिला कटक ।
93437	सौम्या मोहराणा हेमल उदय चरण मोहराणा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4885 17.7.03	ग्राम/पो.आ. नुआपाडा, जिला नुआपाडा ।
93438	सौम्या रंजन साहू सुभाष चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. जल्पा वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5052 28.1.05	ग्राम/पो.आ. कोरुआ, वाया असुराली, जिला भद्रक ।
93439	सुभाष चन्द्र नायक मोहोदय श्री नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4975 5.8.04	ग्राम नुआपाली, पो.आ. कनसिया, जिला बरगढ़ ।
93440	सुभाष चन्द्र नायक सुभाष चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4812 10.2.03	ग्राम भोईसाही, पो.आ. जिला बालासोर ।
93441	सुभाष चन्द्र नायक सुभाष चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4842 5.2.03	ग्राम/पो.आ. ओलांग, वाया रनडियाहाट, जिला भद्रक ।
93442	सुभाष चन्द्र नायक सुभाष चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4935 5.8.04	ग्राम/पो.आ. कुबेडेगा, वाया भेदेन, जिला बालासोर ।
93443	सुभाष चन्द्र नायक सुभाष चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4805 8.4.03	ग्राम गोरिवन्द, पो.आ. गुरुगाली, कुर्ला, जिला भद्रक ।
93444	सुभाष चन्द्र नायक सुभाष चन्द्र नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	4800 8.4.03	ग्राम/पो.आ. कुबेडेगा, वाया भेदेन, जिला बालासोर ।

93444	सुब्रत कुमार मोहकुंड रामेश्वर मोहकुंड	भा. ए. ए. ए. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००३	4900 8.8.03	ग्राम/पो.आ./पी.एस. करनलिया, वार्ड नं. ६, जिला मयूरभंज ।
93445	सुब्रत कुमार त्रिपाठी राधाश्याम त्रिपाठी	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००५	5047 28.1.05	ग्राम/पो.आ. अंगराडिया, निकट ब्लाक कालोनी, जिला बालासोर ।
93446	सुब्रत स्वरूप पांडा प्रसान्त कुमार पांडा	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००२	4687 25.6.02	ग्राम/पो.आ. कोडला, जिला गंजम ।
93447	सुब्रता कुमार महापात्रा सम्पत कुमार महापात्रा	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००३	4745 10.1.03	ग्राम पदमपुर, पो.आ. महुरा, वाया गबाकुन्दा, जिला पुरी ।
93448	सुब्रता पात्रा मणिनाथ पात्रा	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००२	4689 26.6.02	क्वार्टर नं. ए/एल-१११, श्रीमतांजी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, फेस-१, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा ।
93449	सुचिस्मिता सतपथी गोविन्दा चन्द्र सतपथी	बी. ए. एम. एस. उत्कल वि. वि., भुवनेश्वर २००३	4857 19.6.03	प्लॉट नं. ३३१२/४६२७, लिंगराज मार्किट के पीछे, गंगा जमना रोड, ओल्ड टाउन, बीबीएसआर-२
93450	सुदाम कुमार अग्रवाल ध्रुव चरण अग्रवाल	बी. ए. एम. एस. सम्बलपुर वि. वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4656 7.6.02	ग्राम/पो.आ. लोईसिंघा, जिला बालंगीर ।
93451	सुधाकर खिलर दिलीप कुमार खिलर	बी. ए. एम. एस. सम्बलपुर वि. वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4647 30.5.02	ग्राम/पो.आ. सरुआली, वाया तेलकोल, जिला ब्योझार ।
93452	सुधलदेव मोहापात्रा तुबाश चन्द्र मोहापात्रा	बी. ए. एम. एस. बराहमपुर वि. वि., बराहमपुर २००३	4816 31.3.03	ग्राम मध्यखण्डी, पो.आ. श्रीबलदेवजी, जिला केन्द्रपाड़ा ।

93453	सुधांशु सेखर प्रधान सुरेश चन्द्र प्रधान	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4766 17.1.03	ग्राम सिनकुलापट, पो.आ. सयौइनालु वाया बाडिया, जिला अंगुल ।
93454	सुधांशुबाला पटनायक सतत चन्द्र पटनायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4927 9.1.04	ग्राम नदलीखण्डी साही, पो.आ./जिला फूलबनी ।
93455	सुधीर कुमार पाणि त्रिनाथ पाणि	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4741 10.1.03	ग्राम ब्रह्मणपुरसुनाकोटे, पो.आ. पाइकुसुनाकोटे, जिला वैनकाणल ।
93456	सुजाता पांडा प्रफुल्ल कुमार पांडा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4853 11.6.03	ग्राम/पो.आ. एम. रामपुर, जिला कालाहांडी ।
93457	सुजाता प्रधान ईश्वर चन्द्र प्रधान	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००४	4940 23.3.04	ग्राम/पो.आ. जयदुर्गानगर, बरहामपुर, टाउन, जिला मंजम ।
93458	सुजाता राजत सुदर्शन राजत	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००३	4808 28.3.03	ग्राम नारंगपुर, पो.आ. केशुरपाल, जिला द्यूझार ।
93459	सुजीत कुमार मोहन्ती सतत चन्द्र मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4762 17.1.03	ग्राम ओडाखण्डा, पो.आ. बनलसन, जिला छुर्ही ।
93460	सुकान्त कुमार नाईक रितू नाईक	बी.ए.एम.एस. बरहामपुर वि.वि., बरहामपुर २००२	4706 28.8.02	ग्राम/तेराबाती, पो.आ. भीमपुर, वाया बेरबोह, जिला पुरी ।
93461	सुमित्रा दाश प्रफुल्ल कुमार दाश	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4832 25.4.03	ग्राम गोपालजी टेम्पल कैम्पस, पो.आ./ जिला बालनगीर ।

93462	सुमित्रा मोहनपात्रा श्याम सुन्दर मोहनपात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4770 18.1.03	क्वाटर नं. २आए-३/४, ओ.यू.ए.टी. कालोनी, यूनिट-८, बीबीएसआर ।
93463	सुनील कुमार नायक मोहन प्रसाद नायक	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4845 2.4.03	ग्राम कुसुमदेहा, पो.आ. विजापल, जिला बराह ।
93464	सुनीता कुमारी गोरैया प्रकाश गोरैया	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4797 29.1.03	ग्राम/पो.आ. बेलपाहर, जिला झारसुडा ।
93465	सुनीता प्रधान गौराहरि प्रधान	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००३	4942 25.3.04	पत्नी सपन कुमार बिन्धानी, ग्राम कनकपाडा, पो.आ. बहुबन्धा, जिला मयूरभंज ।
93466	सुरबा मिश्रा प्रफुल्ल कुमार मिश्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4774 18.1.03	प्लॉट नं. ३०, जयदुर्गा नगर, झारपदा, बीबीएसआर-६
93467	सुपर्वा साहू नरहरि जेना	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	4941 24.3.04	ग्राम नुआपाडा नीलिया अपार्टमेंट, पो.आ. पी.एस. मधुपटना, जिला कटक ।
93468	सुरभी मिश्रा सचिदानन्दा मिश्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4830 25.4.03	ग्राम गांधीनगरपाटा, पो.आ./जिला बालनगीर ।
93469	सुरमा मिश्रा सचिदानन्दा मिश्रा	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4831 25.4.03	ग्राम गांधीनगरपाटा, पो.आ./जिला बालनगीर ।
93470	सुरेन्द्र बेहरा वन्मु चरण बेहरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4765 17.1.03	ग्राम बलिपटना, पो.आ. मरिचपुर, बाया मछावि, जिला जगतसिंहपुर ।

93471	सुरेन्द्र सुन्दराय विश्वनाथ सुन्दराय	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००३	4821 4.4.03	ग्राम गोपीनाथपुर, पो.आ. ब्रह्ममोहनपुर, वाया नारणगढ़, जिला बुर्दो ।
93472	सुरेश कुमार नायक गंगाधर नायक	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4679 19.6.02	ग्राम गोपा, पो.आ./जिला केंद्रपाडा ।
93473	सुरजित पाणिग्राही रामकृष्ण पाणिग्राही	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	5027 6.12.04	ग्राम अशोक नगर, दबी लाइन, पो.आ. बराहमपुर, जिला गंजम ।
93474	सुरजित रंजन बेहरा वैकुण्ठनाथ बेहरा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4733 10.1.03	ग्राम/पो.आ. नदीन, जिला कोंझार ।
93475	सूर्य नारायण त्रिपाठी श्याम सुन्दर त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5074 19.5.05	रथ लेन, मार्कण्डेयेश्वर साही, पो.आ. पुरी ।
93476	सूर्यकांता मुगरी करुणासिन्धु मुगरी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००३	4836 28.4.03	ग्राम चन्दीमुन्डा, पो.आ. बिडीघाट, जिला बालनगीर ।
93477	सूर्यनारायण पाणिग्राही लक्ष्मीनारायण पाणिग्राही	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००३	4810 28.3.03	ग्राम रिया, पो.आ. सिमिलिया, जिला बालासोर ।
93478	सुशान्त कुमार राजत धानेश्वर राजत	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4894 28.7.03	ग्राम कान्तीशाल, पो.आ. करंग वाया नियली, जिला कटक ।
93479	सुशान्त कुमार सेनापति विजय कुमार सेनापति	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4851 28.5.03	ग्राम पोरकाना, पो.आ. मनिजंगा, जिला पुरी ।

93480	सुशान्ता कुमार गिरी चक्रधर गिरी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4862 19.6.03	ग्राम मधुपुरा, पो.आ. बेली, वाया सिंगला, जिला बालासोर ।
93481	सुरीश कुमार मोहपात्रा मधु सुदन नायक	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००३	4937 21.2.04	ग्राम/पो.आ. रामचन्द्रपुर, जिला जालपुर ।
93482	सुशिमता सेठी नरसिंह चरण सेठी	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००४	5038 13.12.04	गोपाबन्धु छक बोर्ड कालोनी, ग्राम/पो.आ. बुर्ला, जिला सम्बलपुर ।
93483	सुश्री स्मिता त्रिपाठी खेवबासी त्रिपाठी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4757 16.1.03	ग्राम/पो.आ. पट्टामुन्दई, जिला केन्द्रपाड़ा ।
93484	सुस्मिता सेनापति नवीन कुमार सेनापति	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	5000 25.8.04	ग्राम/पो.आ. हल्दीपाड़ा, वाया बस्ता, जिला बालासोर ।
93485	सुवरा साहू बिभूति भूषण साहू	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4903 25.3.03	ग्राम/पो.आ. भाकरसाही, जिला पुरी, खुर्दा ।
93486	स्वगतिता सतपथी बिबेकागन्दा सतपथी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २०००	4636 6.4.02	ग्राम नतिसलपाड़ा, पो.आ./जिला, अंगुल ।
93487	स्वर्ण प्रताप साहू दुर्गाबा साहू	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., बुर्ला सम्बलपुर २००२	4691 28.6.02	ग्राम/पो.आ. कटपाली, वाया बरडोल, जिला बराह ।
93488	स्वर्ण प्रवा बेहरा बैकुण्ठनाथ बेहरा	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००४	5044 17.1.05	ग्राम/पो.आ. बनबो, वाया फकीरपुर, जिला खोशार ।

93489	स्वामी दास रामप्रथम दास	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4895 29.7.03	ग्राम गजपतिनगर/१२० पो.आ. एवं जिला पुरी ।
93490	स्वोपनारानी मोहपात्रा रहासबिहारी मोहपात्रा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4785 20.1.03	ग्राम/पो.आ. केन्दुखुटा, वाया सैनकुल, जिला खोझार ।
93491	तपन कुमार सामल अर्पती सामल	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००३	4834 25.4.03	ग्राम सिपकुड़ा, पो.आ. तुआगाँव, बड़ाकुन, वाया ब्रह्मगिरी ।
93492	तपसविनी सेठी सनातन सेठी	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4688 26.6.02	ग्राम/पो.आ. सुआकटी, जिला खोझार ।
93493	तरिणी प्रताप मोहन्ती सरत चन्द्र मोहन्ती	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००४	5010 8.9.05	ग्राम जनक, पो.आ. घासीपुर, जिला खोझार ।
93494	त्रिबिक्रम मेहर ब्रजमोहन मेहर	बी.ए.एम.एस. सम्बलपुर वि.वि., कुर्ली सम्बलपुर २००३	4837 28.4.03	ग्राम/पो.आ. पी. रामपुर, जिला कलनगीर ।
93495	त्रिलोचन दास जगन्नाथ दास	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००३	4725 10.10.02	ग्राम रायसुपन, पो.आ. नालदीपाडा, जिला बालासोर ।
93496	तुमला सरिता टी. वैकट राणा	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4793 27.1.03	ग्राम गार्दीनगर, पो.आ. बराहमपुर, जिला गंजम ।
93497	तुषार कान्त सिंह बिद्याधर सिंह	बी.ए.एम.एस. बराहमपुर वि.वि., बराहमपुर २००२	4701 28.8.02	ग्राम अलियासाही, पो.आ. आनन्दपुर, जिला खोझार ।

93498	उमाकाता खाटई	बी.ए.एम.एस.	4695	ग्राम ओडाखण्डा, पो.आ. बदलासासन,
	उपेन्द्र खाटई	उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर	19.7.02	जिला खुर्दा ।
93499	उमेश चन्द्र साहू	२००२		
	नीलमणि साहू	बी.ए.एम.एस.	5016	ग्राम/पो.आ. सिनबावन, वाया अगलपुर,
93500	उमेश कुमार साहू	सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला सम्बलपुर	27.9.04	जिला बालनगिर ।
	कृष्ण कुमार साहू	२००४		
93501	उपेन्द्र कुमार गणतायत	बी.ए.एम.एस.	5063	ग्राम जामसेठ, पो.आ. पैकमल, जिला
	युधिष्ठिर गणतायत	सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला सम्बलपुर	7.2.05	बराह ।
93502	उषा रानी जत्ती	२०००	5015	ग्राम/पो.आ. पानीकोईली, जिला जाजपुर ।
	अराधिता जत्ती	सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला सम्बलपुर	27.9.04	
93503	उषा रानी मिश्रा	२००४	4897	ग्राम तरुतियापाडा, पो.आ. बोलागढ़, जिला
	महेश्वर मिश्रा	बी.ए.एम.एस.	30.7.03	खुर्दा ।
93504	उत्कल कुमार बेहरा	उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर	4696	ग्राम नन्दीरा कालोनी, बडजोरदा-जी.पी.,
	अश्विनी चरण बेहरा	२००२	23.7.02	क्वार्टर नं.बी/२३, पो.आ. साउथ बालन्दा,
93505	उत्कल मेहर	बी.ए.एम.एस.	4982	जिला अंगुल ।
	सुमन मेहर	सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला सम्बलपुर	11.8.04	ग्राम/पो.आ. अम्बो वाया फकीरपुर, जिला
93506	वन्दना चौधरी	२००४		क्योंझार ।
	भुवनेश्वर चौधरी	बी.ए.एम.एस.	4659	ग्राम/पो.आ. लेखिमंग, जिला सुंदरगढ़ ।
93507	वन्दना चौधरी	सम्बलपुर वि.वि. बुर्ला सम्बलपुर	7.6.02	
	भुवनेश्वर चौधरी	२००२		
93508	वन्दना चौधरी	बी.ए.एम.एस.	5068	ग्राम नीलकंथा नगर, एम.आई.जी.-१८,
	भुवनेश्वर चौधरी	बराहमपुर वि.वि. बराहमपुर	16.3.05	स्टेज-II, पो.आ. बराहमपुर, जिला गंजम ।
93509	वन्दना चौधरी	२००५		

93507	विश्वम्भरन बी. के. केलुकुट्टी वैदीयार बी. के.	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००२	4682 19.6.02	वडाकलपादिनीलाधु पो.आ. करुमाला, कोझिकोड, केरल ।
93508	विवेक रंजन सिंह कामेश्वर प्रसाद सिंह	बी.ए.एम.एस. उत्कल वि.वि., भुवनेश्वर २००३	4791 25.1.03	ग्राम गोपालमल, पो.आ. बुदराज, जिला सम्बलपुर ।

रजिस्ट्रार
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली

STATE BANK OF INDIA

Mumbai, the 26th September 2006

SBD. No. 08/2006-07.—It is hereby notified for general information that in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 25 of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State Bank of India has, in consultation with Reserve Bank of India, nominated Shri Prof. (Dr.) Bharat K. Oza, Plot No. 1661-A, 'Swati', Gokul Society, Sardarnagar, Bhavnagar-364001, as a Director on the Board of Directors of State Bank of Saurashtra for a period of three years with effect from 3rd October 2006 to 2nd October 2009 (both days inclusive) in place of Prof. Vasant P. Gandhi.

O. P. BHATT
Chairman

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 27th November 2006

No. 13-CA (EXAM)/CPT/F/2007: - In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Common Proficiency Test will be held on **Sunday, the 4th February 2007** in two sessions as below, at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

COMMON PROFICIENCY TEST:

[As per provisions of Regulation 25 D (3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 and the syllabus as published in the pages 291-293 of the journal the Chartered Accountant August 2006 issue and pages 12-13 of Chartered Accountants Students' Newsletter August 2006 issue.]

First Session (i.e. Morning Session)	9.00 AM to 11.00 AM (IST) Section - A Fundamentals of Accounting Section - B Mercantile Laws
Second Session (i.e. Afternoon Session)	12.30 PM to 2.30 PM (IST) Section - C General Economics Section - D Quantitative Aptitude

EXAMINATION CENTRES:

1.	AGRA	26	DELHI/ NEW DELHI	51	KOLHAPUR	76	ROHTAK
2.	AHMEDABAD	27	DHANBAD	52	KOLKATA	77	ROURKELA
3.	AHMEDNAGAR	28	DURG	53	KOTA	78	SAHARANPUR
4.	AJMER	29	ERNAKULAM	54	KOTTAYAM	79	SALEM
5.	AKOLA	30	ERODE	55	KOZHICODE	80	SANGLI
6.	ALLAHABAD	31	FARIDABAD	56	LUCKNOW	81	SILIGURI
7.	ALWAR	32	GHAZIABAD	57	LUDHIANA	82	SONEPAT
8.	AMBALA	33	GUNTUR	58	MADURAI	83	SURAT

9. AMRITSAR	34. GURGAON	59. MATHURA	84. THANE
10. ANAND	35. GUWAHATI	60. MEERUT	85. THIRUVANANTHAPURAM
11. ASANSOL	36. GWALIOR	61. MORADABAD	86. THRISSUR
12. AURANGABAD	37. HISAR	62. MUMBAI	87. TIRUCHIRAPALLI
13. BANGALORE	38. HUBLI	63. MUZAFFARNAGAR	88. TIRUPUR
14. BAREILLY	39. HYDERABAD	64. NAGPUR	89. TUTICORIN
15. BATHINDA	40. INDORE	65. NASHIK	90. UDAIPUR
16. BELGAUM	41. JABALPUR	66. NOIDA	91. UDUPI
17. BHILWARA	42. JAIPUR	67. PANIPAT	92. UJJAIN
18. BHOPAL	43. JALANDHAR	68. PATIALA	93. VADODARA
19. BHUBANESWAR	44. JALGAON	69. PATNA	94. VARANASI
20. BIKANER	45. JAMMU	70. PIMPRI-CHINCHWAD	95. VELLORE
21. CHANDIGARH	46. JAMNAGAR	71. PONDICHERY	96. VIJAYAWADA
22. CHENNAI	47. JAMSHEDPUR	72. PUNE	97. VISAKHAPATNAM
23. COIMBATORE	48. JODHPUR	73. RAIPUR	98. YAMUNANAGAR
24. CUTTACK	49. KANPUR	74. RAJKOT	
25. DEHRADUN	50. KARNAL	75. RANCHI	

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to Common Proficiency Test is required to be made on the relevant prescribed form as contained in the Information Brochure, which may be obtained from the Joint Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002 on payment of Rs. 400/- (Rs. 300/- towards examination fees and Rs. 100/- towards cost of application form and Information brochure) per application form. Since the cost of Information brochure containing Common Proficiency Test application form includes the examination fee no separate fee is required to be remitted at the time of submitting the filled in application form. The Information brochure containing Common Proficiency Test application form will also be available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained therefrom on cash payment on or from 5th December 2006.

Common Proficiency Test application forms duly filled in may be sent so as to reach the Joint Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 26th December 2006. Applications received after 26th December 2006 shall not be entertained under any circumstances. Applications duly filled in will be received by hand delivery at the offices of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto 26th December 2006. Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility. It may be noted that there is no provision for acceptance of application forms after 26th December 2006 with late fee.

QUESTION PAPER BOOKLET LANGUAGE:

Common Proficiency Test will be an objective type multiple choice based examination. Candidates will be allowed to opt for Hindi medium Question Paper Booklet for answering the questions. Detailed information will be found given in the Information brochure.

Common Proficiency Test (CPT) is open only to those students who are already registered with the Institute of Chartered Accountants of India for the said course and fulfill the requisite eligibility conditions.

G. SOMASEKHAR
Joint Secretary (Exams.)

Kanpur-208001, the 3rd November 2006

(Chartered Accountants)

3CCA(5)(2)/2004 - 2005 : With reference to this Institute's Notification Nos., 3CCA(4)(1)/2000-2001 dated 02 Feb. 2001, 3CCA(4)(1)/96-97 dated 02 Dec. 1996, 3CCA(4)(1)/98-99 dated 23 April 1999, 3CCA(4)(1)/99-2000 dated 12 Jan. 2000, 3CCA(4)(2)/2001-2002 dated 02 Nov. 2001, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members :-

Sl. No.	MRN	Name & Address	Date	Sl. No.	MRN	Name & Address	Date
1.	006494	Mr. SHRI NIWAS AGARWAL FCA 234 SECTOR 15 A NOIDA 201301	01.09.2003	6.	055077	Mr. CHAKRABORTY JAYANTA ACA CHIEF (CORPORATE ACCOUNTING) TATA STEEL BOMBAY HOUSE 24 HOMI MODY STREET FORT MUMBAI 400001	01.07.2003
2.	014303	Mr. DASOT BIRDI MAL FCA OPP. INDIAN COFFEE HOUSE OFFICE M I ROAD JAIPUR 302001	30.09.2003	7.	056612	Mr. DAK RAMESH CHANDRA ACA PLOT NO. 55 GANPATI VIHAR, PANERIYO KI MADRI SECTOR NO. 4 HIRAN MAGRI UDAIPUR 313002	23.06.2003
3.	015238	Mr. SUBRAMANIAN CHANDRASEKARAN ACA 18 BHARATHI PARK CROSS ROAD I SAIBABA MISSION POST COIMBATORE 641011	01.10.2002	8.	057972	Mr. GOEL SANDIP KUMAR ACA C/O GOEL AUTO PARTS P O MARAR JHARKHAND HAZARIBAGH	07.01.2004
4.	015387	Mr. TANDON KANAHA LAL ACA NEPAL GANJ (NEPAL) VIA PO RUPAIDIHA DIST BAHARAICH RUPAIDIHA 271881	12.11.2003	9.	058392	Mr. MAHESHWARI VISHAL ACA INDIAN OIL BHANDAR NEAR RADHASWAMI SATSANG BHAWAN ADARSH NAGAR JAIPUR 302004	08.04.2003
5.	035893	Mr. KORDE AMAR ARVIND ACA 21 D TRIVENI APARTMENTS #21 C V RAMAN ROAD ALWAR PET CHENNAI - 600018	30.01.2004	10.	060008	Mr. SINGH SHANKAR KUMAR ACA SWASTIC CENTRE 8 CROOKED LANE 1ST FLOOR KOLKATA 700069	09.04.2003

Sl. No.	MRN	Name & Address	Date	Sl. No.	MRN	Name & Address	Date
11.	070173	Mr. NEERAJ KUMAR FCA 25/7 RAM BAGH ROAD MUZAFFARNAGAR 251001	10.04.2003	18.	071592	Mr. PANDIYA RAMESH CHANDRA FCA 401, GARDEN VIEW, SHASTRI NAGAR, ANDHERI (WEST) MUMBAI - 400053	24.04.2003
12.	070526	Mr. AGARWAL ANIL KUMAR FCA C/O R M GUPTA NEAR ASHIRWAD NURSING HOME OPP. KATORA TAL NAKA CHANDRABADNI ROAD LASHKAR GWALIOR	05.03.2004	19.	071780	Mr. JAIN VIJAY KUMAR FCA 506 KALPANA PLAZA BIRHANA ROAD KANPUR 208001	18.12.2003
13.	070533	Mr. AKHILESH KUMAR JAIN FCA A-411 TRIVENI NAGAR JAIPUR	11.06.2003	20.	071990	Mr. BALIT KAPUR ACA ACCOUNTS & FINANCE MANAGER CITY CENTRE, P O BOX 28109 SAFAT-KUWAIT 13142 KUWAIT	02.01.2004
14.	070534	Mr. PREM KUMAR JOTWANI ACA G 401 ANSALS FLATS 3 STRATCHEY ROAD ALLAHABAD	30.12.2003	21.	072025	Mr. VERMA DINESH KUMAR ACA SATYA BHAWAN KHAILAND MARKET AJMER	07.04.2003
15.	071035	Mr. TEWARI HARENDRA KUMAR FCA DY CHIEF FINANCE MANAGER NORTHERN COALFIELDS LTD P O AMLOHRI PROJECT SIDHI 486887	24.04.2003	22.	072294	Mr. DATTA PRABIR KUMAR FCA 171 ROUGE RIVER DRIVE SCARBOROUGH, ON M1B 6G7 CANADA 0	07.05.2003
16.	071285	Mr. AGRAWAL ANIL KUMAR FCA J K SYNTHETICS LTD. KAMLA TOWER KANPUR 208001	09.12.2003	23.	072631	Mr. AGARWAL KAUSHAL KUMAR ACA 84 NARAIN VIHAR NEAR RAM MOHAN NAGAR SIKANDRA BADLA ROAD AGRA 282007	17.04.2003
17.	071424	Mr. JAIN SATISH CHANDRA FCA 15/11, CIVIL LINES KANPUR 208001	28.10.2003	24.	072723	Mr. CHHAWCHHARIA SUNIL KUMAR ACA OM ELECTRICALS PVT. LTD. ANCILLARY INDUSTRIAL AREA P O HATIA TUPUDANA RANCHI	27.02.2004

Sl. No.	MRN	Name & Address	Date	Sl. No.	MRN	Name & Address	Date
25.	072860	Mr. PURWAR PRAVIN KUMAR ACA DY GENERAL MANAGER BSNL GPO COMPOUND MEERUT	05.01.2004	32.	074829	Mr. GUPTA MUKAT BIHARI FCA B2-HI-TECH CARBON COLONY TAMIL NADU GUMMIDIPOONDI 601201	22.05.2003
26.	073000	Mr. BHANDARI RAMESH CHAND ACA A-108, RIICO COLONY DISTT SIROHI ABU ROAD 307026	18.08.2003	33.	075010	Mr. GARG MUNISH KUMAR FCA 227 IIND FLOOR RATANDEEP COMPLEX BAREILLY	13.10.2003
27.	073362	Mr. SHARMA RAJVARDHAN ACA 2/336 NAMNAIR AGRA CANTT AGRA 282001	09.04.2003	34.	075425	Mr. CHAUHAN PRABHU LAL ACA E-19 J P PURAM REWA 486450	13.06.2003
28.	073903	Mr. SODANI ARUN ACA 47/6, I DA COMPLEX NEAR HORNIMAN PLAZA AGARWAL NAGAR SAPNA SANGITA ROAD INDORE	06.11.2003	35.	075920	Ms. PUNTAMBEKAR VINITA ACA 212 ROYAL GOLD BLDG. Y N ROAD INDORE 452001	16.04.2003
29.	073915	Mr. SRIVASTAVA SWADESH CHANDRA FCA 112/206 A, SWAROOP NAGAR KANPUR - 208001	27.02.2004	36.	075958	Mr. DEVENDRA KUMAR ACA LOWER SIANG PROJECT NHPC LTD. PASIGHAT ARUNACHAL PRADESH EAST SIANG 791102	17.12.2003
30.	074240	Mr. MEHTA DEEPAK FCA 204 AMAR CHAMBERS 2ND FLOOR OLYMPIC ROAD JALORI GATE JODHPUR 342001	05.11.2003	37.	076012	Mr. SHUKLA AKHILESH FCA 124/11 D BLOCK GOVIND NAGAR KANPUR	23.09.2003
31.	074700	Mr. SINGH SANJEEV KUMAR ACA PLOT NO. 133 CO-OPERATIVE COLONY BOKARO STEEL CITY BOKARO 827001	05.09.2003	38.	076852	Mr. KHAMESRA KAPIL ACA H. NO. 85 TECHNOCRAFT HIYSUBG SOCIETY BEDLA ROAD UDAIPUR 313001	03.12.2003

Sl. No.	MRN	Name & Address	Date	Sl. No.	MRN	Name & Address	Date
39.	076858	Mr. SONI RAMESH ACA WEAR SAFE MALAYSIA SDN BHD. LOT 1, LEOH HZSHAMUDDIN SATU NORTH KLANG STRAITS INDUSTRIAL AREA 42000 PORT KLANG 0 WEST MALAYSIA	26.05.2003	45.	078305	Mr. AMAR SUNDER ACA C/O DR. B S SUNDER A 02 SANGAM VIHAR FLATS RIVERS MEET ROAD SONARI JAMSHEDPUR 83011	24.10.2003
40.	077226	Mr. DHANUKA MANOJ ACA C/O RAJESH SODANI 301 JEEVAN APARTMENT 26/2 RACE COURSE ROAD INDORE 452001	12.05.2003	46.	078424	Ms. SHACHI RAIRIKAR ACA INFOCUS SOLUTIONS PVT. LTD. 401 DIAMOND TRADE CENTRE 3-4 DIAMOND COLONY INDORE	29.01.2004
41.	077378	Mr. VIJAYWARGIYA VIVEK ACA 442-443, GOYAL NAGAR KANADIA ROAD INDORE 452 018	13.05.2003	47.	078497	Mr. GUPTA ASHISH ACA 1956 MALPANI BHAWAN 2ND CROSS NAHARGARH ROAD CHANDPOLE JAIPUR	11.03.2004
42.	077431	Mr. PUNGLIA SANJAY ACA C/O CHETAK TILES (P) LTD. E-52 RIICO IND AREA CHITTORGARH 312001	27.01.2004	48.	078587	Mr. GADIA AJAY KUMAR ACA C/O SHRI SANJAY KUMAR GADIA 5 B7, GANDHI NAGAR JAIPUR	19.05.2003
43.	077723	Mr. GUPTA RAJESH ACA B-103 SAFAL PARK SECTOR 25 NERUL (E) NAVI MUMBAI 400706	17.02.2004	49.	078798	MR. SANKHLA RANVEER SINGH ACA PLOT NO. 29 BHADWASIA TILAKNAGAR - II JODHPUR 0	05.05.2003
44.	078112	Mr. POKHARNA RAKESH ACA 6/62, HUNTER STREET HORNSBY SYDNEY 2077 AUSTRALIA	11.02.2004	50.	078847	Ms. GOPESH PRIYA ACA A-146/4 VINDHYACHAL APTS DILSHAD COLONY DELHI 110093	19.05.2003
				51.	079103	Mr. CHOPRA RAJESH ACA C/O P SINGHVI & ASSOCIATES SOJATI GATE JODHPUR	11.09.2003

Sl. No.	MRN	Name & Address	Date	Sl. No.	MRN	Name & Address	Date
52.	079274	Mr. GOENKA RAHUL ACA GOENKA BHAWAN HARIKESH PURA MAUNATH BHANJAN MAU 275101	26.12.2003	58.	088557	Mr. MANOJ DEBNATH ACA C-53 SECTOR 51 KENDRIYA VIHAR NOIDA 201301	15.07.2003
53.	080766	Mr. GUPTA VIJAY KUMAR ACA CHIEF MANAGER BANK OF BARODA, HEAD OFFICE 10TH FLOOR SURAJ PLAZA-I SAYAJI GANJ BARODA	28.05.2003	59.	088875	Mr. THUKRAL MANISH ACA 144 SANT NAGAR EAST OF KAILASH NEW DELHI 110065	29.12.2003
54.	081430	Mr. AGGARWAL SOHAN LAL ACA 1209 CHICAGO ROAD TROY MICHIGAN 48083 USA	13.10.2003	60.	089205	Mr. KHURANA MANDEEP SINGH FCA E/53 KARBALA LODI ROAD NEW DELHI - 110003	01.03.2004
55.	082435	Mr. DATTA VIJAY KUMAR FCA A-2/174, SAFDARGANJ ENCLAVE NEW DELHI 110029	02.06.2003	61.	097835	Mr. SHARMA ASHOK KUMAR ACA D-309 NIRMAL VIHAR DELHI - 110092	27.11.2003
56.	084266	Mr. MOHAN SURINDER ACA MARKETING MANAGER LIC OF INDIA DIVISIONAL OFFICE 16/98 M G ROAD, KANPUR - 208001	26.09.2003	62.	104903	Mr. RANKA SANJAY S ACA C/O VIDEOCON INTERNATIONAL LTD. 14TH K M STONE PAITHAN ROAD CHITEGAON MAHARASHTRA AURANGABAD	09.12.2003
57.	086727	Mr. RAWAT VINOD SINGH FCA B-14/12 HIMGIRI SECTOR 34 NOIDA 0	09.05.2003	63.	204010	Mr. VENKATA KRISHNAN S ACA NEW # 41 OLD # 18 DAMODARM STREET T NAGAR CHENNAI	11.03.2004

CA. ASHOK HALDIA
Secretary

Kolkata-700071, the 6th November 2006

(Chartered Accountants)

3ECA/5/ 3/2004-2005: With reference to this Institute's Notification Nos. 3ECA/4/3/2004-2005 dated 31 Jan 2005 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from 01/10/2004, the names of the following Members :-

S.No.	MRN	Member Name & Address
1.	001999	Mr. Sen Gupta Asim Kumar FCA 68 Prince Gofam Mohammad Shah Road Kolkata - 700033
2.	002126	Mr. Ganguli Gangadhar FCA De & Ganguli, 3/1 Mangoe Lane Kolkata - 700001
3.	007797	Mr. Mehta Rajkumar Chand FCA 88-A Harish Mukherjee Road Kolkata - 700025
4.	010148	Mr. Lala Paresh Chandra FCA CG-224 Salt Lake Sector - 2 Kolkata - 700091
5.	012418	Mr. Khashtgir Swapan FCA P - 112 Lake Town Block A Kolkata - 700089
6.	013905	Mr. Barman Prasanta Kumar Roy FCA 140A/4 N.S.C. Bose Road Kolkata - 700092
7.	013932	Mr. Roy Siba Prasad FCA 21, Anjanga (EP-7A) 1st, Floor DumDum Kolkata - 700030
8.	014162	Mr. Kar Atanu FCA M/s A. M. Roy & Co 1B, Old Post Office Street Kolkata - 700001
9.	015719	Mr. Datta Jagabandhu ACA 108/6A Manoharpukur Road Kolkata - 700026
10.	016433	Mr. Guha Nimal Kumar FCA B - 17/14 Abhyudoy E C T P Phase IV P O : East Kolkata Town Ship Kolkata - 700107
11.	016621	Mr. Nandi Dipak Kumar FCA VILL : Sripur PO Sripur Bazar Hooghly - 712514

12.	017993	Mr. Bhaumik Partha Prasad ACA Arindam Flat 1A 246/4 R B C Road Kolkata - 700028
13.	021953	Mr. Venkateswara Rao K ACA Gen. Manager Finance HPCL Visakh Refinery Malkapuram Visakhapatnam - 530011
14.	042856	Mr. John Jacob ACA C/o Tata Tea Limited 1, Bishop Lefroy Road Kolkata - 700020
15.	048096	Mr. Agarwal Sudhir ACA Manager Finance C-17, ACC Colony P.O. Jamul Cement Works Chattisgarh Durg - 490024
16.	050303	Mr. Datta Deb Kumar ACA 2/24, Bibek Nagar P O : Santoshpur Kolkata - 700075
17.	050435	Mr. Kejriwal Dilip Kumar ACA M/S D. K. Kejriwal & Co 23A, Netaji Subhas Road 1st Floor, Room No - 6 Kolkata - 700001
18.	050623	Mr. Dasgupta Ashok Kumar ACA 4, Kasba Road (In Between Haltu Bazar & Tarun Service Station) Kolkata - 700078
19.	050797	Mr. Chakraborty Nisith Ranjan FCA Chief Manager IRR Department Indian Bank 66 Rajaji Salai Chennai - 600001
20.	050804	Mr. Aluni Arun Kumar FCA "Ashoka" 111 Southern Avenue Kolkata 700029
21.	051208	Mr. Seth Dilip Kumar FCA Sripur Bazar Dist Hooghly Hooghly - 712514
22.	051283	Mr. Das Gautam ACA 52, PGH Shah Road Kolkata - 700032
23.	051765	Mr. Ghosh Dipak Kumar ACA Manager Finance Orvitech Ltd PO Box - 47733 - 00100 Nairobi - 0 Kenya

- | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|---|
| 24. | 051843 | Mr. Mishra Abhay FCA
C/o M/s Rajesh Chaturvedi &
Associates 337 Pamashree Pally
Kolkata - 700060 | 37. | 053427 | Mr. Jha Shashidhar FCA
3, Princep Lane
Bhagwati Chamber
2nd Floor, Room No - 202
Kolkata - 700072 |
| 25. | 052275 | Mr. Tyagi Lalit Mohan FCA
Lalit Mohan Tyagi & Co Lords - 511
7/1, Lord Sinha Road
Kolkata - 700071 | 38. | 053576 | Mr. Jain Bijay Raj FCA
.105, Old Chaina Bazar Street
3rd Floor,
Kolkata - 700001 |
| 26. | 052334 | Mr. Praveen Chand ACA
CC - 111, Chandni Complex
First Floor Panposh Road
Rourkela - 769004 | 39. | 053595 | Mr. Agarwal Shambhu Kumar FCA
Mangalam Apartment
Flat No - 1A 1st Floor
P - 888 Block A Lake Town
Kolkata - 700089 |
| 27. | 052537 | Mr. Jhanwar Arun Kumar ACA
1E, Satyam
46D - Rafi Ahmed Kidwai Road
Kolkata - 700016 | 40. | 053892 | Mr. Sen Biswaroop FCA
Sen And Khan
24, Sankari Para Road
Kolkata - 700025 |
| 28. | 052570 | Mr. Gangopadhyay Partha FCA
De & Ganguli
3/1, Mango Lane First Floor
Kolkata - 700001 | 41. | 054025 | Mr. Saha Ashok FCA
F/F1 Hatira Road Jangra
Kolkata - 700059 |
| 29. | 052625 | Mr. Singh Inder Mohan FCA
4304, Spring Book DR
Edison Nj 08820
New Jersey
USA | 42. | 054054 | Mr. Majumder Dhruba FCA
Finance Department
Mahanadi Coalfields Ltd
P. O. Jagriti Vihar
Sambalpur - 768020 |
| 30. | 052729 | Mr. Khaitan Anil Kumar FCA
70A, Jatin Das Road
Kolkata - 700029 | 43. | 054148 | Mr. Barua Pradyut Kumar FCA
Manager (Finance & Accounts)
Numaligarh Refinery Ltd
P. O. Nri Complex Assam
Golaghat - 785699 |
| 31. | 052730 | Mr. Kejriwal Bimal Kumar FCA
C/o M/s Idk Trading Co
14, Pagaya Patti Street
Kolkata - 700007 | 44. | 054435 | Mr. Mangai Pradeep Kumar FCA
Room No - C - 458 4th Floor
71, B. R. B. Basu Road
Kolkata - 700001 |
| 32. | 052764 | Mr. Sipani Subh Karan FCA
Ishwarnagar Co - Oprative Society Ltd
Plot No - 3-4 Vibhav - 2
Udhua Makdala Road
Surat - 394 210 | 45. | 054597 | Mr. Chakrabarty Chandan ACA
Mississauga
Canada
Ontario - 0 |
| 33. | 052809 | Mr. Chaturvedi Rajesh FCA
337, Pamashree
Kolkata - 700060 | 46. | 054640 | Mr. Bagrodia Puneet ACA
44, Ballygunge Circular Road
Kolkata - 700019 |
| 34. | 053337 | Mr. Kalaria Ajay FCA
88F, N.S.C. Bose Road
Tollygunge
Kolkata - 700040 | 47. | 054641 | Mr. Sarker Joy ACA
Flat No - 3B Block A
122, Ruby Park (East)
Kolkata - 700078 |
| 35. | 053385 | Mr. Sengupta Partha Pratim ACA
M-5 Cluster x Purbachal
Housing Estate
Salt Lake City
Kolkata - 700064 | 48. | 054642 | Mr. Agarwal Pramod Kumar FCA
69/1, Nimtola Ghat Street
Kolkata - 700006 |
| 36. | 053423 | Mr. Chattopadhyay Atindra Nath ACA
PO Radhanagar Road
Down Side
Bumpur - 713325 | | | |

- | | | | | | |
|-----|--------|--|-----|--------|---|
| 49. | 054657 | Mr. Ghosh Pradip Kumar ACA
C/o Mr. Amiya Kr Ghosh
Deodar Place Chatterjee Garden
Garia Station Road
Kolkata - 700084 | 63. | 056022 | Mr. Neogi Sandip ACA
B - 24, Prantika P. O. Garia
Kolkata - 700084 |
| 50. | 054758 | Mr. Chakraborty Prithul ACA
Mohini Apartment Flat No 1D
1/K, Sahid H. K. Bose Sarani
Dumdum
Kolkata - 700074 | 64. | 056040 | Mr. Bandyopadhyay Bikash Kumar FCA
36, Raja Ramchand Ghat Road
P. O. Panihati
Kolkata - 700114 |
| 51. | 054768 | Mr. Jhavar Sandeep FCA
44, S.R. Das Road Flat No - 5A
Kolkata - 700026 | 65. | 056238 | Mr. Keshari Jitendra Kumar FCA
10A, Krishna Ram Bose Street
Kolkata - 700004 |
| 52. | 054805 | Mr. Mukherjee Sujyoti ACA
123A, Manoharpukur Road
Kolkata - 700026 | 66. | 056339 | Mr. Lal Anupam FCA
116, Ashutosh Mukherjee Road
Kolkata - 700025 |
| 53. | 054811 | Mr. Das Sandip ACA
18 /17B, Fern Road
Kolkata - 700019 | 67. | 056571 | Mr. Biswanath Gattani ACA
402, Bentinck Chambers
37A, Bentinck Street
4th Floor, Room No - 402
Kolkata - 700069 |
| 54. | 054818 | Mr. Nandi Abhijit ACA
42, Moiradanga Road
Kolkata - 700036 | 68. | 056595 | Mr. Basu Parag ACA
Flat - A 903 (SEBI AAVAS)
Raheja Township
Opp : Sai Baba Temple Malad (East)
Mumbai - 400097 |
| 55. | 054891 | Mr. Chatterjee Tanmay ACA
173/1Q, Picnic Garden Road
Kolkata - 700039 | 69. | 056922 | Mr. Agarwal Sanjay FCA
133, Canning Street
Suit # 15, 3rd Floor
Kolkata - 700001 |
| 56. | 055157 | Ms. Jain Dimple ACA
P - 68, C. I. T. Road
Kolkata - 700014 | 70. | 057041 | Mr. Majumdar Ashish FCA
188/61, Prince Anwar Shah Road
Kolkata - 700045 |
| 57. | 055526 | Mr. Mishra Udayendu ACA
The Orissa State Beverage Corp Ltd.
9th, Floor IDCO, Tower
Bhubaneswar - 751022 | 71. | 057060 | Mr. Juthani Rajiv R ACA
21, Kenderdine Lane 3rd Floor
Bow Bazar
Kolkata - 700012 |
| 58. | 055664 | Mr. Ghosh Sudipta FCA
77, Lenin Sarani 1st Floor
Kolkata - 700013 | 72. | 057162 | Mr. Dalmia Rakesh Rosan ACA
C/o M/s Shree Cement Limited
21, Strand Road
Kolkata - 700001 |
| 59. | 055705 | Mr. Desikan Kumar ACA
28/10/1B, Nalukashwar Bhattacharjee lane
Kolkata - 700026 | 73. | 057436 | Ms Kedia Sunila ACA
2, Rose Mary Lane
Howrah - 711101 |
| 60. | 055750 | Mr. Das Amar Jyoti FCA
Amarwati Path
Christian Basti
Guwahati - 781006 | 74. | 057542 | Mr. Sen Sanjay ACA
73, Nabob CR
Toronto ON
M8B 2Z1
ONTARIO
CANADA - 0 |
| 61. | 055816 | Mr. Sarkar Sumit ACA
6/A, S. R. Das Road
Kolkata - 700026 | 75. | 057629 | Mr. Chattopadhyay Sudip Kumar ACA
15/4, Hindustan Road
Kolkata - 700029 |
| 62. | 055862 | Mr. Marda Manoj Kumar ACA
328, Canal Street
P.O. - Sribhumi
2nd Floor
Kolkata - 700046 | | | |

76.	057755	Ms. Jain Jayshree ACA P - 68, C.I.T. Road Kolkata - 700014	90.	058481	Mr. Nayak Laxmibanta ACA AT+P.O. Biswanathpur Via Golanthara Orissa Ganjam - 761008
77.	057792	Mr. Agrawal Dinesh Kumar FCA 40, Weston Street 3rd Floor Kolkata - 700013	91.	058635	Mr. Shah Mukesh Kumar ACA 424/1, G.T. Road Pilkhana (North) Kapur Gali, 2nd Floor Howrah - 711101
78.	057873	Mr. Tiwari Rakesh Kumar ACA Flat - 1, Prince Tower 31/2, Gobindo Banerjee Lane Kolkata - 700033	92.	058664	Mr. Agarwal Shiv Nath ACA 72, Bangur Avenue Block - A Kolkata - 700055
79.	057897	Mr. Dutta Sudipta Nath ACA BE - 39, Sector 1 Salt Lake Kolkata - 700064	93.	058665	Mr. Durga Paras ACA Takar Complex 1st Floor Arunachal Pradesh Naharlagun - 791110
80.	057942	Mr. Gupta Bimal Kanta FCA 507, Sector 22B Gurgaon - 122015	94.	058688	Mr. Arora Pankaj ACA 21, Muktarlam Babu Street 3rd Floor Kolkata - 700007
81.	057951	Ms. Sengupta Debi ACA 6, Dr Satyananda Roy Road Kolkata - 700029	95.	058752	Mr. Arora Pankaj ACA P - 92, Block - B Third Floor Bangur Avenue Kolkata - 700055
82.	057969	Ms. Ray Dasgupta Dhritipriya ACA 49/90, P G M Shah Road Kolkata - 700033	96.	058862	Mr. Ray Chaudhuri Prasun ACA 4/1, Santa lal Street Kolkata - 700030
83.	058022	Mr. Agarwal Rakesh Kumar FCA Balaka Apartment FC - 1A, Narayantalla (West) Baguihati Kolkata - 700059	97.	058882	Mr. Roy Soumya ACA CL - 15, Sector - 2 Salt Lake City Kolkata - 700091
84.	058025	Mr. Sinharay Dibyendu FCA 27/21, Raja Rammohan Roy Road Kolkata - 700008	98.	059099	Mr. Mallick Rajarshi Charan FCA 6, Arunoday Nagar Link Road Cuttack - 753012
85.	058046	Mr. Agarwal Sundeep ACA Akash Ganga Apartment AC - 287 Rabindra Pally Krishnapur Kolkata - 700101	99.	059431	Mr. Khastagir Udayan 26/8, Lake East 4th Road Santoshpur Kolkata - 700075
86.	058248	Mr. Patni Sandeep Kumar FCA 39B, Kankurgachi 2nd Lane Kolkata - 700054	100.	059464	Ms. Agarwal Rashmi ACA P - 141C.I.T. Road Scheme VI M Kolkata - 700054
87.	058411	Ms. Prabhala Rashmi FCA Lords - 511 7/1, Lord Sinha Road Kolkata - 700071	101.	059484	Mr. Bhattacharya Subhayan ACA 83C/1A, Chetla Road Kolkata - 700027
88.	05845	Mr. Pattwari Sunil Kumar ACA P-97 'B' Block, Lake Town Kolkata - 700089	102.	059512	Mr. Niyogi Siddhartha ACA F2 /G6 Southend Apartments Charmwood Village Haryana Faridabad - 121009
89.	058477	Ms. Ray Nabanita ACA 164/C/28/1, Lake Gardens 1st Floor Kolkata - 700045			

103.	059598	Mr. Tulsian Bishnu Kumar ACA 2/35, Rajendra Prasad Colony Prince Anwar Shah Road Kolkata - 700033	117.	061058	Mr. Bhatthar Raja ACA C/o Sukhdeo Damodar 218, A. Jamunlal Bajaj Street 2nd Floor Kolkata - 700007
104.	059635	Mr. Bajaj Manoj ACA 418/3, G.T. Road (N) Pikkhana Howrah - 711101	118.	061109	Mr. Gupta Sumit ACA Block No - 59 Flat No - 1 Gopal Kunj Sher - E Punjab Society Andheri East Mumbai - 0
105.	059764	Mr. Roy Pradip ACA Baliti Kuri (Sett Para) Howrah - 711402	119.	061141	Mr. Gupta Rahul ACA 129/4, S.N. Roy Road New Alipore South Kolkata - 700038
106.	059781	Mr. Ghosh Kaustuv Kumar ACA 4/1, Orient Row Park Circus Kolkata - 700017	120.	061143	Ms. Kapoor Moly ACA 66, Block - B Bangur Avenue Kolkata - 700055
107.	060109	Mr. Chakraborty Suman ACA 30, Fakir Para Road Kolkata - 700034	121.	061168	Mr. Sinha Nilanjan ACA TNT India Limited 82/1, Richmond Road Bangalore - 560025
108.	060221	Mr. Bhalotia Lalit Kumar FCA 71, Canning Street 4th Floor Room No - C - 452 Kolkata - 700001	122.	061191	Mr. Saraogi Raja ACA 85, Balaram Dey Street Kolkata - 700006
109.	060381	Ms. Baid Meghna ACA P - 1/2, Sundernagar S. V. Road Malad (W) Mumbai - 400064	123.	061235	Mr. Khatua Guru Narayan ACA C/O Nityananda Khatua Apartbindha Tahasil Road Bhadrak - 756100
110.	060553	Mr. Shyam Sundar Agarwal ACA Stall No - 5, Wholesale Block Super Market Uttar Dinajpur Raniganj - 733134	124.	061237	Mr. Maheshwari Aditya Kumar ACA Vardaan Market M.G. Road Khal Para Siliguri - 734405
111.	060615	Mr. Kaushal Shekhar ACA F/F 12/2, Bidyasagar Pally Jyngra Baguihati Kolkata - 700059	125.	061330	Ms. Mehta Minaj ACA 16/3, Round Tank Lane 3rd Floor Howrah - 711101
112.	060636	Mr. Saraogi Ishwari ACA 78/1, Nimtola Ghat Street Kolkata - 700006	126.	061372	Mr. Sharma Vikash ACA Aravind Auto Agency A.T. Road Opp : Reserve Police Guwahati - 781001
113.	060712	Mr. Lohia Jitendra ACA N.S.B. Road School More Chaw Complex Raniganj - 713347	127.	061512	Ms. Deb Rina ACA 52, Dhakuria East Road Kolkata - 700078
114.	060815	Ms. Navalakha Seema ACA Flat No - 3, FE (Lotus Tower) Chitralekha Lane Usha Nagar Dispur Guwahati - 781006	128.	061546	Mr. Agrawal Sunil Kumar ACA 38, Panchanan Ghosh Lane 1st Floor Amherst Street Kolkata - 700009
115.	060831	Mr. Mohanty Debashisa ACA 622, Rasulpur Sabar Sahi Bhubaneswar - 751010	129.	061892	Mr. Jhunjhunwala Jyoti ACA 345, Netaji Subhas Road Howrah - 711101
116.	060968	Mr. Kedia Ravi ACA 725, Block - P New Alipore Kolkata - 700053	130.	061934	Mr. Shah Rakesh ACA 424/1, G.T. Road Kapur Gali Peelkhana 5th Floor Howrah - 711101

31.	061945	Mr. Sharma Hemant Kumar ACA C/O Mr. A K Sharma 141, Ramkrishnapur Lane Near Mukherjee Bagan Shibpur Howrah - 711102	143.	062763	Mr. Jain Risabh ACA 31/32, K.B. Residency 2nd Floor, 6th, Cross M.K. Rangaswami Layout Laljinagar, Lakshandra Bangalore - 560030
132.	062002	Mr. Pattanaik Durga Prasad ACA Qtr No - 662 Sector 2, Niladri Vihar Bhubaneswar - 751021	144.	062980	Mr. Agarwala Rajesh ACA 1st Floor Care Commercial Complex Near - Viswaratan Hotel / United Bank A.T. Road Guwahati - 781001
133.	062080	Mr. Chatterjee Kaushik ACA C/o Swapn Chatterjee South Desh Bandhu Para DT. Darjeeling Siliguri - 734004	145.	074479	Mr. Agarwala Nanda Kishore ACA S - 28 Civil Town Ship Rourkela - 769004
134.	062128	Mr. Agarwal Ashok ACA C/o Jain Amar Store Main Road Rourkela - 769001	146.	090952	Mr. Maheswari Sudhir FCA J.K. Paper Mills Q17B, Jayakar Pur Dist : Rayagada Rayagada - 765017
135.	062169	Ms Roy Choudhury Srabanti ACA C/o Price Water House Plot No - Y - 14, Block EP Sector V Salt Lake Electronic Complex Bidhan Nagar Kolkata - 700091	147.	093202	Mr. Parida Sanjay Kumar FCA C/o GNS & Associates P 2, 2nd Floor, Vikash Commercial Complex Pallanji, Sarojini Nagar New Delhi - 110023
136.	062180	Mr. Agarwala Aditya ACA Assistant Manager ICICI Bank Ltd Skystar Building Sevoke Road Siliguri - 734401	148.	094136	Mr. Pattanayak Rajib Lochan ACA AT/PO Sainkul Orissa Keonjhar - 758043
137.	062262	Ms Lal Chandra Devjibhai ACA E - 416 Sunder Dham Rambauy Lane Borivali (West) Mumbai - 400092	149.	094490	Mr. Saha Sanjeev ACA C - 207, Oman Topaz Sharjapur Road Bangalore - 560034
138.	062299	Mr. Jhunjhunwala Vikash ACA Aritra Apartment Block AE - 8 Rabindra Pally Kestopur Main Road Kolkata - 700059	150.	097741	Mr. Prasad Saty Narayan ACA 311/19 Prince Anwar Shah Road Kolkata - 700045
139.	062336	Mr. Pradhan Ramesh Chandra ACA 79, Bapuji Nagar Bhubaneswar - 751009	151.	098526	Mr. Gupta Ashok Kumar ACA C/o Raju Gupta Ramkrishna Bayan Siksha Sangha 2nd Floor Panitanki More Sevok Road Siliguri - 734401
140.	062544	Ms. Sirkar Mou ACA 131/B, Bow Bazar Street Kolkata - 700012	152.	100166	Mr. Banerjee Uttio ACA TG2C/9 Garden Estate Mehrauli Gurgaon Road DLF Phase - 3 Haryana Gurgaon - 122015
141.	062589	Mr. Jaiswal Sunil ACA Wipro 239, Okhla Industrial Estate Phase - III New Delhi - 110020	153.	212170	Mr. Jena Rampada ACA C/o S N Sarbajna HIG - 265 Kalinga Vihar NH5 Bhubaneswar - 751019
142.	062700	Mr. Senapati Prafulla Kumar ACA C/o Sri N.G. Nath Flat No - 101 Madhab Nilayam Apartment Lewis Road Bhubaneswar - 751014			

ASHOK HALDIA
Secretary

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Kolkata, the 4th August, 2005

11-CWR (358-368)/2005 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :

1. Shri O.P. Singh, BA,FICWA, D-305, Anand Vihar, Delhi - 110 092, (Membership No. 611) is cancelled from 22nd April, 2005 to 30th June, 2005, at his own request,
2. Shri Jeevan Chandra, MCOM,AICWA, IIA/42, Vaishali, Ghansabad - 201 010, (Membership No. 23023) is cancelled from 17th January, 2005 to 30th June, 2005, at his own request,
3. Shri Dilip A. Vasani, BCOM,AICWA, A-401, Payal, Anha Nagar, Western Express Highway, Kandivali (East), Mumbai - 400 101, (Membership No. 3540) is cancelled from 1st April, 2005 to 30th June, 2005, at his own request,
4. Shri V. Sudhakar, BCOM,AICWA, Plot 562, K.K. Nagar, Madurai - 625 020, (Membership No. 23696) is cancelled from 4th April, 2005 to 30th June, 2005, at his own request,
5. Shri Shashank Suvarnapathaki, BCOM,AICWA, 3801, Barde Lane, Navi Peth, Ahmednagar - 414 001, (Membership No. 20733) is cancelled from 5th March, 2005 to 30th June, 2005, at his own request,
6. Shri Sudip Das, BCOM(HONS),AICWA, 10G, Dover Terrace, Kolkata - 700 019, (Membership No. 23241) is cancelled from 7th April, 2005 to 30th June, 2005, at his own request,
7. Shri Korada Srinivasa Rao, BCOM,AICWA, Flat No. B-109, Vertex Pride Apartment, Jayabharathnagar, Nizampet Road, Kukatpalli, Hyderabad - 500 072, (Membership No. 21581) is cancelled from 1st March, 2005 to 30th June, 2005, at his own request,
8. Shri Malay V. Vakil, BE,LLB,AICWA, B-003, Ashray Tower, Near Amarnath Mahadev, Vejalpur, Ahmedabad - 380 051, (Membership No. 23560) is cancelled from 18th April, 2005 to 30th June, 2005, at his own request,
9. Shri Dinosh Arora, BCOM(HONS),AICWA, 13-A, Ram Nagar Extn. - 4, Near Krishna Nagar, Delhi - 110 051, (Membership No. 18910) is cancelled from 21st May, 2005 to 30th June, 2005, at his own request,
10. Shri Ullas Kumar Mellemnaguru, BCOM,ACS,FICWA, Office # 3, Vth Floor, Ashirvad Building, Ganapathy High School Road, Mangalore - 575 001, (Membership No. 12726) is cancelled from 18th April, 2005 to 30th June, 2005, at his own request, and
11. Shri P.C. Melhetra, BSC,FICWA, P-2378, Rajajipuram, Tallentora, Lucknow - 226 017, (Membership No. 4315) is cancelled from 1st April, 2005 to 30th June, 2005, at his own request.

DEBASIS BAGCHI

Secretary

16-CWR (6729-6733)/2005 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri R. Venkatasubbiah, AICWA, 403, J.P. Road, 1st Phase, Girinagar, Bangalore - 560 085, (Membership No. 1755) with effect from 19th January, 2005,
2. Shri Shaik Abdul Asce, BA,AICWA, H. No. 41-372, Kothapeta, Kurnool - 518 004, (Membership No. 9416) with effect from 24th September, 2004,
3. Shri P. Sivaprasad, BA,FICWA, 6, Panchagni Street, Sejah Enclave, Near Krishnaveni Nagar, Mogulivakkam, Chennai - 600 116, (Membership No. 5286) with effect from 14th April, 2005,
4. Shri Haradhan Khanna, BCOM,AICWA, Ex-Accountant, Durgapur Chemicals Ltd., Durgapur - 713 215, (Membership No. 12583) with effect from 18th December, 2004,
5. Shri T.R. Parthasarathi, BCOM,AICWA, Chitraprabhar I Floor, No. 1, South Canal Bank Road, Mandavelippakkam, Chennai - 600 028, (Membership No. 1164) with effect from 15th May, 2005

on account of death.

DEBASIS BAGCHI

Secretary

16-CWR (6734-6736)/2005 : In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (b) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of :

1. Shri B.S. Krishnaswamy, BSC,AICWA, 2230, IX Main, 23rd Cross, II Stage, Banashankari, Bangalore - 560 070, (Membership No. 2900) with effect from 28th June, 2005 at his own request,
2. Shri K. Ramakrishnan, FCMA,FICWA, "Thilang", 7, Pongi Madalayam St., Nanganallur, Chennai - 600 061, (Membership No. 1334) with effect from 28th June, 2005 at his own request,
3. Shri R.R. Sharma, BSC,AICWA, 1-9-6, Temple Alwal, Bolarum P.O., Secunderabad - 500 010, (Membership No. 563) with effect from 1st June, 2005 at his own request.

DEBASIS BAGCHI
Secretary

Kolkata-700016, the 16th December 2004

11-CWR (333-357)/2004 : In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to :

1. Shri Harpreet Singh, BCOM,AICWA, A-9, Mukhram Garden, Tilak Nagar, New Delhi - 110 018 (Membership No. 20386) is cancelled from 10th August, 2004 to 30th June, 2005, at his own request,
2. Shri S.N. Jeya, BCOM,AICWA, P-2, Dhakha Apts., Shanti Colony, Jeeva Ratnam Nagar, Adyar, Chennai - 600 020, (Membership No. 18614) is cancelled from 28th November, 2004 to 30th June, 2005, at his own request,
3. Shri S.K. Das, MCOM,FICWA, 9-B, Kedar Nath Das Lane, Kolkata - 700 030, (Membership No. 4378) is cancelled from 30th November, 2004 to 30th June, 2005, at his own request,
4. Shri Tapan Kumar Sarkar, BSC,BCOM,AICWA, Flat 7, 3rd Floor, Purushottam Apartments, 1/4, Dr. R.N. Tagore Road, Kolkata - 700 056, (Membership No. 13555) is cancelled from 17th May, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
5. Shri M. Devendiran, BA,AICWA, H-27, Central Avenue, Korattur, Chennai - 600 080, (Membership No. 3285) is cancelled from 21st June, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
6. Shri Krishna Kumar Dhar, MCOM,AICWA, 533-A, Netaji Colony, Baranagar, Kolkata - 700 090, (Membership No. 4789) is cancelled from 25th June, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
7. Shri Tapan Kumar Bhattacharya, BSC(HONS),AICWA, G-4, Nirala Apartment, Vidyalanka, Palpara, Chandannagar - 712 136, (Membership No. 5166) is cancelled from 30th June, 2004 to 30th June, 2005, at his own request,
8. Shri M.V. Kamath, BCOM,FICWA, A-4, Adarsh, J.B. Nagar, Andheri(E), Mumbai - 400 059, (Membership No. 1530) is cancelled from 1st April, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
9. Shri B. Narayanan, BCOM,FICWA, Block No. VI, Flat No. 6, Jyoti Co-op. Housing Society, 96, Kankulia Road, Kolkata - 700 029, (Membership No. 1406) is cancelled from 14th June, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
10. Shri M. Manoharan, BCOM,AICWA, Old No. 23/New No. 5, Second Street, Thangam Colony, Anna Nagar West, Chennai - 600 040, (Membership No. 12131) is cancelled from 10th May, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
11. Shri Niladri Dutta, BSC,AICWA, 112-A, Salimpur Road, Kolkata - 700 031, (Membership No. 7074) is cancelled from 4th May, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
12. Md. Bajlul Islam, BCOM(HONS),AICWA, 25, Gardner Lane, Ground Floor, Kolkata - 700 014, (Membership No. 19079) is cancelled from 5th April, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
13. Shri D.P. Agrawal, BCOM,ACS,AICWA, E-159, Murtipura Scheme, Jaipur - 302 013, (Membership No. 3867) is cancelled from 1st February, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
14. Shri Sanjay Kumar Jain, BCOM,LLB,AICWA, B-14, Sector 49, Noida - 201 301, (Membership No. 17400) is cancelled from 1st March, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
15. Shri L.V. Ramesh, BSC(HONS),AICWA, 6/19, Thiru Vi Ka Nagar 1st Street, College Road, Tirupur, 641 602, (Membership No. 9021) is cancelled from 1st January, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,

16. Shri Satya Sundar Mahasuar, BA,AICWA, F1/F-23, I.D. Market Complex, 1st Floor, IRC Village, Nayapalli, Bhubaneswar - 751 015, (Membership No. 22709) is cancelled from 21st January, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
17. Shri Faisal Shah, BCOM(HONS),MCOM,AICWA, C/o. Danish Battery Works, Dr. Fatehullah Road, Ranchi - 834 001, (Membership No. 23465) is cancelled from 3rd August, 2004 to 30th June, 2005, at his own request,
18. Shri P.S. Seshan, BSC,AICWA, B2/8, Vii Flats, Old No. 34, Pinjala Subramaniam St., T. Nagar, Chennai - 600 017, (Membership No. 1571) is cancelled from 16th July, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
19. Shri Atul Gupta, BCOM(HONS),AICWA, I-41, Sector 9, Noida, (Membership No. 21607) is cancelled from 21st September, 2004 to 30th June, 2005, at his own request,
20. Shri T. Thavamani, MCOM,AICWA, 19, Mayandia Pillai Street, East Sandai Pet, Madurai - 625 009, (Membership No. 22345) is cancelled from 6th October, 2004 to 30th June, 2005, at his own request,
21. Ms. Meera Kumari, MCOM,AICWA, Argora, Near Argora Mandir, Ranchi - 834 012, (Membership No. 23202) is cancelled from 2nd August, 2004 to 30th June, 2005, at her own request,
22. Shri Sujit Kumar Sinha, BSC,AICWA, 21, Scott Lane, Kolkata - 700 009, (Membership No. 16017) is cancelled from 28th October, 2004 to 30th June, 2005, at his own request,
23. Shri V.S. Visvanathan, MA,BL,FICWA, 194, Ilird Cross, Cambridge Layout, Bangalore - 560 008, (Membership No. 8586) is cancelled from 1st April, 2004 to 30th June, 2004, at his own request,
24. Shri S.K. Mishra, BSC,AICWA, G-39A, Ganga Vihar, Gokulpuri, New Delhi - 110 094, (Membership No. 21694) is cancelled from 18th October, 2004 to 30th June, 2005, at his own request, and
25. Shri R.K. Bharani, BSC(HONS),LLB,FCS,FICWA, 16, Vardan Apts., 64, IPEX, Delhi - 110 092, (Membership No. 7748) is cancelled from 30th September, 2004 to 30th June, 2005, at his own request.

(DR.) H. R. SUBRAMANYA
President

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
NEW DELHI 110058 27th OCTOBER, 2006

No. 20-15/2000-S.R.(Orissa) Whereas the Central Council of Indian Medicine has, in pursuance of Sub-Section (1) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) maintained a register as the Central Register of Indian Medicine which contains the names of persons enrolled on the State Register of Indian Medicine of Orissa and who possess any of the medical qualifications recognised under the Act.

Now, therefore, in pursuance of Sub-Section (2) of Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Registrar, Central Council of Indian Medicine, New Delhi hereby directs that the Central Register of Indian Medicine shall be published in the Gazette of India for general information.

Note:- Every care has been taken to compile the Central Register of Indian Medicine (Orissa) from 1st April 2002 to 31st May 2005 as per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, and omission/correction, if any, be reported to the Registrar, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for rectification of the same in the next publication of the Register.

P. R. SHARMA
Registrar
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

ORISSA

PART - I - AYURVED

CR. NO.	NAME & FATHER'S NAME	QUALIFICATION AWARDING BODY & YEAR OF AWARD	REGN. NO. & DATE	ADDRESS
93068	Abakash Yadav Gouranga Charan Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4911 23/09/03	A/PO, Nital, Via Aul, Distt. Kendrapara.
93069	Aditya Narayan Pradhan Bighneswar Pradhan	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4930 16/01/04	A/PO, Kakharini, Distt. Kendrapara.
93070	Adrish Brahmadaatta Jantrana Parikhsita	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2001	4646 30/05/02	Debotar Colony, R.O/ Distt. Nayagarh.
93071	Ajeaya Kumar Blind Ramdhar Blind	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5001 25/08/04	At. Salepali PO/Distt. Balangir.
93072	Ajeaya Kumar Nayak Kanduri Charan Nayak	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5003 30/08/04	Dakhinakali Road, Dhenkanal.
93073	Ajit Kumar Nayak Anand Charan Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4874 26/06/03	At. Bada Govindapur, PO Mugpal, Distt. Jeipur.
93074	Akhila Nath Parida Jayakrisna Parida	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4993 16/08/04	At. Basudevpur, PO. Khallsahi, Via Khandapara, Distt. Nayagarh.
93075	Akshaya Kumar Khilar Abhimanyu Khilar	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4949 26/03/04	A/PO. Eram, Distt. Bhadrak.
93076	Akshaya Kumar Panda Krutartha Panda	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4904 25/08/03	A/PO. Deogee, Via Bardol, Distt. Baran.
93077	Amit Dey Anil Kumar Dey	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	5076 20/05/05	At. & PO. Shyamanandipur, Distt. Balasore.
93078	Amita Kumar Mishra Akshaya Kumar Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4883 14/07/03	At. Jagannathpur, PO. Ranapur, Via Meshara, Distt. Jeipur.
93079	Amfani Prasana Roui Manguli Charan Roui	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4752 16/01/03	A/PO. Jiral Via Marthapur, Distt. Dhankani
93080	Amulya Kumar Nayak Goura Chandra Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4950 26/03/04	A/PO. Andhla, Via Bonth, Distt. Bhadrak.

93081	Ananda Kumar Meher Tikelai Meher	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4926 09/01/04	At/PO. Binka (Mahimapara), Distt. Sonepur.
93082	Anil Kumar Sahu Pramoda Chandra Sahu	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4719 06/09/02	At/Limgidibadi PO. Gerada Via Kullad, Distt. Ganjam.
93083	Anil Kumar Swin Krushna Chandra Swain	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4835 26/04/03	At. Jageswarpur, PO. Dighalo, Distt. Puri.
93084	Anita Mishra Ashok Kumar Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4878 02/07/03	48/A, Gautam Nagar, Old Town, Bhubaneswar, Distt. Khurda.
93085	Ankarabonla Lakshmi A. Bhaskar Rao	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5041 22/12/04	At. Guna Street, Gopalpur-on-sea, PO. Gopalpur, Distt. Ganjam.
93086	Annanta Narayan Panda Shyam Sundar Panda	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4938 23/02/04	At/PO. Bilalsarda, Distt. Balangir.
93087	Anupama Patra Banchhanidhi Patra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4860 19/06/03	At/PO. Balganbadia, Via Kuchel, Distt. Mayurbhanj.
93088	Apurajaita Sahu Nikunjia Kishore Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4972 03/08/04	At/PO. Nemsurpara, Distt. Angul.
93089	Archana Kumari Naresh Prasad Sinha	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4931 16/01/04	Ashirvad, Sastri Nagar, Jail Press Colony, Gaya, Bihar.
93090	Arun Kumar Mahapatra Kulamani Mahapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5048 28/01/05	Friends Club Lane, Puri.
93091	Aruna Kumar Mansingh Aparti Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4683 21/06/02	At/PO. Soran, Via Kuchul, Distt. Khurda.
93092	Arunadhati Nath Sharma Dinabandhu Nath Sharma	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4746 10/01/03	At/PO> Taradipal, Distt. Kendrapada.
93093	Arup Kumar Behera Rajendranath Behera	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4826 09/04/03	At. Benapura, PO. Rajghat, Distt. Balasore.
93094	Ashisha Biswal Kishore Chandra Biswal	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4820 02/04/03	At. Narasingaprasad, PO. Itarnati, Distt. Nayagarh.

93095	Ashok Kumar Mallick Sarmetan Mallick	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4670 11/06/02	At. Durga Prasad PO. Ramechandi Via Narangarh, Distt. Khorda.
93096	Ashok Kumar Parida Durga Shankar Parida	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4925 31/12/03	At. Mahesamunda, PO. Salikotha, Distt. Balasore.
93097	Ashok Kumar Sahoo Harihar Sahoo	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4651 31/05/02	At. Sarein PO. Naudan, Via Ghasipura, Distt. Keonjhar.
93098	Atal Lakshmi Devi Atal Mohan	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4811 28/03/03	At/PO. Kukudukhandi Small Street, Distt. Ganjam.
93099	Avenjein Mishra Gokulananda Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4737 10/01/03	At. Gopalpur, PO. Nischintakoli, Distt. Cuttack.
93100	B.K. Prasanta Kumar Giridhari Rout	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4711 28/08/02	At. Jayechandrapur, PO. Ashram Baikuda, distt. Kendrapara.
93101	Baikuntha Padhan Atokha Padhan	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4662 07/04/02	At. Kandadhuda, PO. Bialmunda, Via Gopalpur, distt. Sundargarh.
93102	Baladev Swain Sukadev Swain	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4704 28/08/02	At. Balansha, PO. Puruna Basanta, Via Nailbar, Distt. Jagatsinghpur.
93103	Bandita Biswal Gobardhan Biswal	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	5022 04/01/104	At/PO. Siela, Via Balugaon Distt. Puri.
93104	Banibandana Mohapatra Pratulla Chandra Mohapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4966 02/04/04	At/PO. Nuassan, Pipili, Distt. Puri.
93105	Banshidhar Behera Pranabendu Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4865 21/07/03	At. Baramancha, PO. Tangiri, Via Begdia, Distt. Angul.
93106	Banshidhar Naik Giridhari Naik	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4978 09/08/04	At/PO. Kandapala, Distt. Bargarh.
93107	Barun Kumar Satapathy Girija Shankar Satapathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4953 26/03/04	At/PO. Kalabadia, Via Kudiana, Distt. Mayurbhanj.
93108	Basanta Kumar Sethi Aparti Shethi	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4761 17/01/03	At/PO. Ranpur, Distt. Nayagarh.

93109	Benudhar Swain Prafulla Kumar Swain	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4876 30/06/03	At. Brundabanpur, PO. Mandar, Distt. Dhenkanal.
93110	Bhabani Sankar Mohapatra Sarat Chandra Mohapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4901 11/08/03	At. Sidhamahavir, PO. Balukhanda, Distt. Puri.
93111	Bhagaban Dhuyan Ramprasad Dhuyan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4700 28/08/02	At/PO. Chumukh, Via Pratappur, Distt. Balasore.
93112	Bhagaban Sahoo Niranjan Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4864 19/06/03	At/PO. Saria, Via. Kanpur, Distt. Cuttack.
93113	Bhagabati Prasad Padhy Raghunath Padhy	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4657 07/06/02	At/PO. Ramnaguda, Distt. Rayagada.
93114	Bhagyalaxmi Panigrahi. Sachidananda Panigrahi	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4921 01/12/03	At. Korant, PO. Randahat, Distt. Bhadrak.
93115	Bharat Krushna Khuntia Batakrishna Khuntia	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5045 28/01/05	At. Aljodhya PO. Bhaunriabad, Distt. Balasore.
93116	Bharati Meher Tankadhar Meher	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4922 15/12/03	At/PO. Belpada, Distt. Balangir.
93117	Bharatilata Jena Baldhar Jena	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4959 28/03/04	At. Berunapadi, PO. Soso, Via B.T. Pur, Distt. Keonjhar.
93118	Bhavanl Himanshu Vindhyeswar Prasad Himanshu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4974 05/08/04	Sri Ram Lane, Sidhamahavir Patna, Puri.
93119	Bhawana Nagpure Pandurang Nagpure	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4828 24/04/03	At/PO. Kharlar Road, Distt. Nuapara.
93120	Bibhudatta Mishra Gangadhar Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4738 10/01/03	At. Brajabihariapur, PO. Dhalapur, Distt. Dhenkanal.
93121	Bibhudatta Pramod Kumar Mishra Prasanna Kumar Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4742 10/01/03	At. Dalab, PO. Kulitakukura, Distt. Bargarh.
93122	Bibhuti Bhushan Jetti Arakhlita Jetti	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4844 30/04/03	At/PO. Bolagarh, Distt. Khurda.

93123	Bichitra Kumar Das Rajakishore Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4951 28/03/04	At. Niyamatpur, PO. Rajagarh, Distt. Kendrapara.
93124	Bichitra Kumar Parida Dibyasingh Parida	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4788 28/01/03	At. Benta, PO. Champagarh, Via Chandapur Distt. Nayagarh.
93125	Bidyut Pattnaik Golabhe Pattnaik	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4915 01/10/03	At. Kotavidyacharpur, PO. Banpur, Distt. Khurda.
93126	Bidyenanda Achary K. Gurulingam Achary	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5021 12/10/04	At/PO. Narayanpur, Distt. Ganjam.
93127	Bidyut Kumar Mishra Padma Charan Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4749 16/01/03	At. Mathasahi, PO. Satyabadi, Distt. Puri.
93128	Bidyotprava Baral Jameswar Baral	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4846 08/05/03	At. Alasaranga, PO. Mula Alasa, Via. Sakthigopal, Distt. Puri.
93129	Bighneswar Mishra Benamali Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4784 20/01/03	At. Melikadelpur Sasan, PO. Nayakanidhi, distt. Bhadrak.
93130	Bijay Kumar Bhol Karunakar Bhol	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4998 20/08/04	At/PO. Ballanta (Patana) Distt. Khurda.
93131	Bijaya Kumar Gupta Om Prakash Gupta	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4948 28/03/04	At. Baralapokhari, PO. Charampa, Distt. Bhadrak.
93132	Bijaya Kumar Sahoo Biswambar Sahoo	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4702 28/08/02	At. Dadhibananpur, PO. Barikul, Via Rambag, Distt. Jajpur.
93133	Bikeesh Kumar Bohora Pratulla Kumar Bohora	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4795 28/01/03	At. Kiran Villa, Near Telephone Exchange, PO. Jatani, Distt. Khurda.
93134	Binedini Patra Suresh Chandra Patra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4971 03/08/04	At/PO. Brahmaniguda, Distt. Kalahandi.
93135	Biplin Bihari Das Rama Chandra Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4773 18/01/03	Plot No. 1018, Sri Ramnagar, Unit-27, Bhubaneswar-2, Distt. Kurda.
93136	Biraja Prasad Samantaray Gunanidhi Samantaray	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4914 24/09/03	At/PO. Chandaka, Via Barang, Distt. Khurda.

93137	Bliswajit Mishra Baidyanath Mishra	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5032 07/12/04	C/o Dr. Suraj Ku. Tripathy, Gajapati Nagar, 4th Lane, Berhampur, Ganjam.
93138	Bliswajit Mohapatra Bhagaban Mohapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	5009 08/09/04	At/PO> Kandhaneyagarh, Via Chandpur, Distt. Nayagarh.
93139	Bliswaketan Panda Basanta Kumar Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	5008 08/09/04	At/PO> Ayatan, Via Rajakanika, Distt. Kendrapara.
93140	Bliswaranjan Sahoo Ranjanidhi Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4886 17/07/03	At. Purusottam Nagar, PO. Sidhamahavi, Puri.
93141	Bliswaranjan Jena Nakula Jena	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5073 11/05/05	At. Radhua, PO. Kalyanpur, Distt. Puri.
93142	Brunbdabana Meher Lokenath Meher	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4997 20/08/04	Badabazar, Sonepur.
93143	Brundaban Behera Bhikari Behera	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4822 04/04/03	At. Nagapur, PO. Lathipada, Distt. Nayagarh.
93144	Chandansu Bhusan Sutar Hrudananda Sutar	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5030 06/12/04	At. Kalikapur, PO. Rajkanika, Distt. Kendrapada.
93145	Chandrakant Rout Umakanta Rout	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4989 16/06/04	At. Narasinghpur, PO. Ramachandra Via P.S./Bart, Distt. Bhadrak.
93146	Chandran Kumar Mahalik Ghanashyam Mahalik	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4743 10/01/03	At. Baidyakateni, PO. Laulei, Via Gandla Patna, Distt. Dhenkanal.
93147	Chinmay Bohora Gedadhara Bohora	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4726 17/10/02	At/PO. Gopabandhunagar, Via Aniyas, Distt. Bhadrak.
93148	Chinmoye Mohapatra Pravat Chandra Mohapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5062 07/02/05	Utar Sahi At/PO. Nuasasan, Via Pipili, Distt. Puri.
93149	Chinmoyee Pal Basudev Pal	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4856 19/06/03	At/PO. Manatira, Via Danegadi, Distt. Jajpur.
93150	Chiranjeev Supakar Upendra Supakar	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4965 02/04/04	Supakar's Flat Budharja High School, PO. Budharaja, Via Ainthapali, Distt. Sambalpur.

93151	Chima Hirra Rout Krushna Chandra Rout	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	4943 25/03/04	Gopalpur Sea, Near Gopalpur College, A/PO, Gopalpur, Distt. Ganjam.
93152	Chitranshan Pradhan Babaji Pradhan	BAMS KSDS. Univ., Darbhanga 1995	4807 22/02/03	At. Bachhara, PO. Pattamunda, Distt. Kendrapara.
93153	Chowdhury Tirtha Prasad Baral Abhimanju Baral	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4676 19/06/02	At. Dimiri, PO. Noda, Via Kasarda, Distt. Cuttack.
93154	Darshana Patel Shantilal Patel	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4873 26/06/03	A/PO. Kharlar, Distt. Nuapada.
93155	Dbasis Mishra Dibakar Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4675 19/06/02	At. Nua Sahi Plot No. 497/2440, PO. Nayapalli, Bhubaneswar,
93156	Debabrata Khuntia Bhagirathi Khuntia	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5059 31/01/05	At. Kaniary, PO. Dhenka, Distt. Keonjhar.
93157	Debabrata Patra Nishikanta Patra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4919 30/10/03	At. Godgodia, PO. Sunhat, Distt. Balasore.
93158	Debashish Roy Chowdhury Sukhendu Kumar Raychowdhury	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4867 19/06/03	At. Kedaraswar (Biratbazar), PO. Cherbatia, Distt. Cuttack.
93159	Debasis Ghadel Krutibas Ghadel	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4881 10/07/03	At. Sankhapata, PO. Baripada, Ward No. 7, Distt. Mayurbhanj.
93160	Debasis Pattuany Suresh Chandra Pattuany	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4792 27/01/03	A/PO> Delanga, Kothabadasahi, Distt. Puri.
93161	Debasis Mohapatra Sarat Ch. Mahapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4789 24/01/03	At. Badadandasahi, PO. Bhubaneswar, Distt. Khurda.
93162	Debi Prasanna Nayak Hrudananda Nayak	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4710 29/08/02	At. Melikapur, PO. Baldiyarajpur, Distt. Jajpur.
93163	Deepak Kumar Nayak Goura Chandra Nayak	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4708 28/08/02	At. Raipur, PO. Soro, Distt. Balasore.
93164	Dilip Kumar Panda Udayanath Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4908 03/09/03	Distt. Khurda. At. Olandi, PO. Rahangagorada, Distt. Puri.

93165	Dillip Kumar Sahu Baidhar Sahu	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4870 25/07/03	At/PO. Silandi, Via Basamtia, Distt. Bhadrak
93166	Dillip Kumar Senapati Narahari Senapati	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4652 07/06/02	At. Nuarampas, PO. Badarampas Via Basamtia, Distt. Keonjhar.
93167	Dillip Kumar Swain Balakrushna Swain	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4839 28/04/03	At. Shasanga, PO. Chhenapadi, Distt. Keonjhar.
93168	Dipak Swain Bhimson Swain	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5053 28/01/05	At/PO. Naindipur, Via Garadapur, Distt. Kendrapara.
93169	Dipti Varlath M.V. Bhaskaran	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	5020 11/10/04	Shopping Market Complex, Sector-18, Beurkela, Distt. Sundargarh.
93170	Durgamadhab Parida Kashinath Parida	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5060 31/01/05	At. Bairamnagar Chakk New Colony, PO. Motiganj, Distt. Balasore.
93171	Duryodhan Behera Kelu Charan Behera	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4728 27/11/02	At. Nahala, PO. Sri Ramchandrapur, Via Sakthigopal, Distt. Puri.
93172	Ellora Sahoo Duryodhan Sahoo	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4731 26/12/02	At. Sanaora, PO. Kalapader, Distt. Puri.
93173	Gananam Digdarshi Alok Babaji Charan Mohanty	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4775 18/01/03	Plot No.347/848, A/PO. Bankual, PS. Sahidnagar, BBSR.
93174	Geetanjali Sahu Birendra Kumar Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla, Sambalpur 2002	4685 25/06/02	At/PO. Barhapatli, Via Jamala, Distt. Bargarh.
93175	Ghanashyam Radheyshyam	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4771 18/01/03	At. Niranjanpur, PO. Harirajpur, Distt. Khurda.
93176	Gobinda Chandra Pradhan Kartik Chandra Pradhan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2001	4734 10/01/03	At. Deokhand, PO. Durgadevi, Via. Mitrapur, Distt. Balasore.
93177	Gopi Ranjan Mohanta Surendra Mohanta	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4787 20/01/03	At/PO. Gadurasha, Via Laxmiposi, Distt. Mayurbhanj. Distt. Khurda.
93178	Gopinath Nayak Surendra Nath Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2001	4642 01/05/02	At. Karanja, PO. Karanja, Distt. Kendrapara.

93179	Gouri Shankar Mishra Subash Chandra Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4954 26/03/04	At. Raghunathpur, P.O. K. Kandakara, Distt. Ganjam
93180	Harapriya Dhal Jagadish Dhal	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4794 28/01/03	At. Janta, P.O. Gobindpur Distt. Kendrapara.
93181	Haraprasanna Tripathy Banabasi Tripathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4801 03/02/03	At. Bhikarpada, P.O. Sarabak. Distt. Nayagarh.
93182	Harish Chandra Giri Maheswar Giri	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4748 16/01/03	At/PO. Nuzan, Via Raniar, Distt. Mayurbhanj.
93183	Himanshu Sekhar Tripathy Mayadhar Tripathy	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4703 23/08/02	At. Reida, P.O. Mouda, Distt. Bradrak.
93184	Itishree Pradhan Narayan Pradhan	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4388 23/07/03	At. Carbodayanagar, P.O. 8, Dutt P.
93185	Itisri Bisoi Bhikari Charan Bisoi	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4723 24/09/02	At/PO. Raipuria, Via Khandapara, Distt. Nayagarh
93186	Jagannath Upadhyaya Aviram Upadhyaya	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5046 28/01/05	At. Baganarasashan P.O. Cuttack, Via M. Nagar, Distt. Bhadrak.
93187	Jajati Keshari Das Manoranjan Das	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4983 11/08/04	At/PO. Bhimpur, Via Rasalpur, Distt. Balasore.
93188	Janmejaya Dash Raja Kishore Dash	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4957 26/03/04	At. Orty, P.O. Baghuni, Via Asureswar, Distt. Cuttack.
93189	Jayadev Panda Pravakar Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4967 22/04/04	At/PO. Kantipur, Distt. Mayurbhanj.
93190	Jayanta Kumar Behera Chaturbhuja Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2000	4804 04/02/03	At. Bhurukundi, P.O. Purinda, Distt. Mayurbhanj.
93191	Jayanta Kumar Das Nityananda Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4882 10/07/03	At. Chuda, P.O. Dabardhuapatna, Via Bolgarh, Distt. Khurda.
93192	Jayaprakash Rana Biswamitra Rana	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4976 09/08/04	At. Siletpada, P.O. Atagaon, Distt. Balangir.

93193	Jayaram Mangaraj Ugrasen Mangaraj	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4994 19/08/04	At/PO. Kanker, Via Sosia, Distt. Kalahandi.
93194	Jeetendra Panda Kishor Ch. Panda	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2001	4716 02/09/02	At/PO. Medico, Main Road, Bhanjanagar, Distt. Ganjam.
93195	Jina Pattanaik Prasan Kumar Patnaik	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4916 15/10/03	At. Jagamara, PO. Khandagiri, Distt. Khurda
93196	Jirendra Kumar Bhanja Jagatbandhu Bhanja	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4772 18/01/03	At. Dekuri, PO. Barada, Via Balichandrapur, Distt. Jajpur.
93197	Jitendra Kumar Mohanty Gunanidhi Mohanty	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4861 19/06/03	At. Kulabarisana, PO. Kulasri, Distt. Cuttack
93198	Jyoti Ranjan Swain Surya Kumar Swain	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4936 21/02/04	Namdini Colony, Near Telephone Exchange, Farm Road, Cheruapara PO/Distt. Sambalpur.
93199	Jyotirmaya Saraf Surendra Ku. Saraf	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4841 30/04/03	At. Barpalipara, PO/Distt. Balangir.
93200	Jyotshmyee Rout Bishnu Charan Rout	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4690 26/06/02	At. Aloknagar, PO. Niali, Distt. Cuttack
93201	Jyotsna Mayee Maharaj Jagannath Maharaj	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4783 18/01/03	At. Gopinathpur, PO. Ghanteswar, Distt. Bhadrak
93202	Kalandi Charan Behera Krutibash Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4969 11/06/04	C/o C. M. Behera Development Officer LIC of India, Br-I Surjanagar, BBSR.
93203	Kali Prasad Panda Paramananda Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4947 26/03/04	At/PO. Limapadar, Distt. Rayagada.
93204	Kalpana Kumari Sarangi Bhagirethi Sarangi	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4663 07/06/02	At/PO. Kumbaharpada, Distt. Nayagarh.
93205	Kalpana Mohanta Kushadhar Mohanta	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4905 27/08/03	At. Bhaluka, PO. Jhumpura, Distt. Keonjhar.
93206	Kalyan Kumar Majhi Bhima Hari Majhi	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2000	4597 27/07/02	At. Badapahi, PO. Bichitrapur, Distt. Balasore.

93207	Kamalakanta Rout Kulamani Rout	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4739 10/01/03	At. Bhangamal, PO. Shankarpur, Via Govindapur, Distt. Dhenkanal.
93208	Karanbala Mohanty Pravakar Mohanty	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4859 19/06/03	At/PO. Gadapokhari, Via Baramba, Distt. Cuttack.
93209	Kashyapa Ambarisha Narayan Pradhan	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4887 23/07/03	At. Sarbodayanagar, PO & Distt. Puri.
93210	Kishore Kumar Pradhan Nabin Chandra Pradhan	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4988 18/08/04	At/PO. Mahumuhan, Via Sero, Distt. Balasore.
93211	Kishore Kumar Sahu Bharat Chandra Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4732 09/01/03	At. Gopaljee Road, PO/Distt. Balangir.
93212	Krushna Chandra Rath Laxmidhar Rath	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4806 04/02/03	At. Ochinda, PO. Machhagaon, Distt. Jagatsinghpur.
93213	Kshirod Ch. Das Nityannanda Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5058 31/01/05	At. Jadpur (Ranipatna Bank Colony) PO/Distt. Balasore.
93214	Kshirod Kumar Sahu Chaitanya Sahu	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4952 28/03/04	At. Kukuta, PO. Ballimi, Distt. Dhenkanal.
93215	Laxmikanta Chand Bharambar Chand	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4979 09/08/04	At/PO. Debarhua (Patna), Distt. Khurda.
93216	Lilima Pati Debendra Nath Pati	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4814 28/03/03	At. Balabhadrapur, PO. Mahana, Via Rameswar, Distt. Cuttack.
93217	Lipi Nayak Fakir Charan Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4644 14/05/02	At. Bhanpur, PO. Baripada-2, Distt. Mayurbhanj.
93218	Lipika Mohapatra Laxmikanta Mohapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4962 27/03/04	At/PO. Sailejharpara, Distt. Cuttack.
93219	Lita Dash Harishankar Dash	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4823 07/04/03	At. Bakulmatha Sahi, PO & Distt. Puri.
93220	Lokanath Kumbhar Radheshyam Kumbhar	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4929 12/01/04	At/PO. Hatibari, Via Tujemura, Distt. Sambalpur.

93221	Mita Rani Dal Trilochan Pradhan	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4713 29/08/02	At/PO. Itamati, Distt. Nayagarh.
93222	Madhabilata Pradhan Gokula Chandra Pradhan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4736 10/01/03	At. Godabari, PO. Brahmania, Distt. Puri.
93223	Madhumita Mallik Maguni Mallik	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5064 09/02/05	Plot No. 1398, Kapilprasad, PO. Bhubaneswar, Distt. Khurda.
93224	Madhusmita Pradhan Ananta Kishore Pradhan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4871 26/06/03	At/PO. Gopinathpur, Via Kendupatna, Distt. Cuttack.
93225	Madhusmita Rout Muralidhar Rout	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	4939 27/02/04	At. Kheras, PO/Distt. Jagatsinghpur.
93226	Mahaswata Samantaray Prafulla Kumar Samantaray	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4800 03/02/03	At. Godabhanga, PO. Kalanga, Distt. Khurda.
93227	Maitri Ranjan Mohanty Rabindranath Mohanty	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4666 07/06/02	At. Sahupada, PO. Jigaran, Distt. Kendrapara.
93228	Malaya Monanty Madhabananda Mohanty	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2001	4640 06/04/02	At. Plot No. 248, Gadagopinath Prasad, Chandinata Colony, Rasulgarh, Bhubaneswar.
93229	Mamatarani Agrawal Magantlal Agrawal	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4848 12/05/03	Jalanlane, At/PO. Khataipur, Distt. Sambalpur.
93230	Mamta Dalai Ratnakar Dalai	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4724 04/10/02	At/PO. Singla, Distt. Balasore.
93231	Mana Ranjan Kar Niranjan Kar	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4639 06/04/02	At/PO. Chauliya, Via Barpali, Distt. Boudh.
93232	Manajeet Samal Parsuram Samal	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4813 28/03/03	At. Mohanpur, PO. Barpali, Distt. Cuttack.
93233	Manas Giri Muralidhar Giri	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4815 31/03/03	At. Balligada, PO. Barpali, Distt. Kendrapara.
93234	Manas Kumar Hrudaya Ranjan Sahu Panchanan Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5002 26/08/04	At. Thakurmal, PO. Barpali, Via Gauripali, Distt. Boudh.

93235	Manas Kumar Dikshit Niranjan Dikshit	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4317 07/04/03	At. Thelagan, PO. Chitraguda, Nayalaz, Distt. Jajpur.
93236	Manas Ranjan Debata Madan Mohan Debata	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4333 25/04/03	At. Menadi, PO. Gumbada, Via Dhenkanal, Distt. Jajpur.
93237	Manasa Ranjan Sahoo Rankanidhi Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4334 31/03/04	At/PO. Furusottan, Dahanu, Sidhamohapatra, Distt. Puri.
93238	Manasi Mohanty Fakir Charan Mohanty	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4715 02/06/02	At/PO. Kalisingha, Distt. Puri.
93239	Manasi Panda Besanta Kumar Panda	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5013 27/06/04	At. Mulagan, PO. Na'anga, Via Barkpur, Distt. Bhadrak.
93240	Manatosh Patra Parameswara Patra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 1991	4377 30/06/03	At/PO. Arebada, Via Charbahal, Distt. Kalahandi.
93241	Mandakini Bihari Amarendra Bihari	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4777 18/01/03	At/PO. Indupur, Distt. Kandhamal.
93242	Mandakini Chandrakar Radheshyam Chandraakar	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4829 24/04/03	At/PO. Bhaleswar, Via Kharlar Road, Distt. Nuapada.
93243	Manju Swain Yudhisthir Swain	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4920 07/11/03	At. Kantamalia, PO. Thanual, Distt. Jajpur.
93244	Manjusri Sahoo Sridhar Chandra Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5051 28/01/05	At/PO. Ratna, Via B.T. Pur, Distt. Balasore.
93245	Manmath Kumar Behera Banamali Behera	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5037 07/12/04	At. Taladihi, PO. Kuchuri, Distt. Khurda.
93246	Manoj Das Alinta Sethy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4786 20/01/03	At. Karamala, PO. Shantidham, Via Kanas, Distt. Puri.
93247	Manoj Kumar Sahoo Paramananda Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4866 19/06/03	At. Aukhama, PO. Sarakapatana, Via Bhepur, Distt. Dhenkanal.
93248	Manoj Kumar Sahu Jogeswar Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 1996	5023 08/11/04	At. Kansaripara, PO/Distt. Balangir.

93249	Manoj Kumar Samantaray Kamadev Samantaray	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4780 18/01/03	Ballaram Nagar, Gunapur, Distt. Rayagada.
93250	Manorama Behera Narayan Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4692 03/07/02	At. Karamala, PO. Santidhan, Distt. Puri.
93251	Manoranjan Bhol Gopinath Bhol	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4958 26/03/04	At. Khulish, PO. Baharana, Distt. Puri.
93252	Manoranjan Hota Haradhan Hota	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4945 26/03/04	At. Dunguripali, PO. Remunda, Distt. Bargarh.
93253	Manoranjan Mallick Bharmarbar Mallick	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4667 10/06/02	At. Dhumatasasan, PO. Indupur, Distt. Kendrapara.
93254	Manoranjan Mohapatra Sudarsan Mohapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4684 21/06/02	At. Dhanpur, PO. Pipili, Distt. Puri.
93255	Manoranjan Nayak Kailash Chandra Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4880 10/07/03	At. Raipitamber, PO. Mangalpur, Distt. Balasore.
93256	Manoranjan Pradhan Parmananda Pradhan	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4648 30/05/02	At/PO. Khilei, Distt. Deogarh.
93257	Marshallin Biswal Nirmal Chandra Biswal	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4645 29/05/02	At. & PO. Taradipal, Via. Dandisahi, Distt. Kendrapara.
93258	Md. Sarfraz Khan Abdul Naim Khan	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	4932 19/01/04	At/PO. Kafia Bazar, PS. Lalbag, Distt. Cuttack.
93259	Milli Bisoi Karunakar Bisoi	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4818 02/04/03	At. Kulad, PO. Nalco Nagar, Distt. Angul.
93260	Minakshi Galhotra Sukhchain Kumari Galhotra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4638 06/04/02	At/PO. Balipatna, Distt. Khurda.
93261	Minati Sahu Purna Chandra Sahu	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4872 26/06/03	At/PO. Lal Bazar, Ward No. 5, Distt. Mayurbhanj.
93262	Mirabai Das Alokha Prasad	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5066 25/02/05	At. Satpaulia, PO. Hatbadra, Via Raingarapur, Distt. Mayurbhanj.

93263	Mital Madhu Smita Managebinda Sahoo	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5034 07/12/04	At/PO. Brahmabarad, Distt. Jajpur.
93264	Mitrabhanu Jena Ajit Ku. Jena	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4764 17/01/03	At/PO. Pandua, Via Sainkul, Distt. Keonjhar.
93265	Monalisa Mishra Durgamadhab Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4944 26/03/04	At. Harichandanpur Sasan, PO. Narasinghpur, Distt. Cuttack.
93266	Monalisa Mohapatra Bhaskar Mohapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4896 19/07/03	At/PO. Tipuri, Via Kanas, Distt. Puri.
93267	Mousumi Pati Kedamath Pati	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4968 22/04/04	At. Upper Tiadi Sahi, PO/Distt. Puri.
93268	Mukti Ranjan Panigrahi Pravakar Panigrahi	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4654 07/06/02	At. Tinipada, Jugal Shasan, PO. Khantapara, Distt. Balasore.
93269	Mukhanta Sahoo Indramani Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4879 10/07/03	At. Santa, PO. Gopalpur, Via Chandrabali, Distt. Bhadrak.
93270	Naidu Jaganath Nadiu Bharata	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5031 06/12/04	At. Suryanarayanpur, PO. Shabandha Via Bhattakumarda, Distt. Ganjam.
93271	Nalinikant Panigrahi Sarat Ch. panigrahi	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4729 27/11/02	At/PO. Bhusal, Via Bhuban. Distt. Dhenkanal.
93272	Namita Kar Sanjoy Kumar Kar	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4699 20/08/02	At. Baudpur, PO. Madhabnagar, Distt. Bhadrak.
93273	Nandini Behera Kumar Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4744 10/01/03	At/PO. Gadakokal, Via Brahmagiri, Distt. Puri.
93274	Narayan Chandra Mishra Kantik Chandra Mishra	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4809 28/03/03	At/PO. Bira Nilakanthanpur, Distt. Kendrapara.
93275	Narayan Padhy Harinar Padhy	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4658 07/06/02	At. Kalichhak, PO. Balimela, Distt. Malkangiri.
93276	Nidhi Chhajer Bhupendra Singh Chhajer	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4843 30/04/03	At/PO. Brajarajnagar, Distt. Jharsuguda.

93277	Nihar Ranjan Sahu Bansidhar Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2005	5072 21/04/05	At. Bainchua, Distt. Khurda
93278	Niharika Mohanty Nilamani Mohanty	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5014 27/09/04	At. Alatiri, PO. Panikoli, Via & Distt. Jajpur.
93279	Nilotpala Rout Anirudha Rout	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4677 19/06/02	At. Kalispada, PO. Rajkanika, Distt. Kendrapara.
93280	Nirakar Sethi Nrusingha Charan Sethi	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4769 18/01/03	At. Kaitha, PO. Dera, Via Rajanagar, Distt. Kendrapara.
93281	Nirupama Jena Prahelad Jena	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5035 07/12/04	At. Dihasahi, PO. Balibil, Via Bari, Distt. Jajpur.
93282	Nital Charan Satapathy Bana Bihari Satapathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4722 24/09/02	At. Radharamanpur (Gholapur) PO. Mugupal, Via Kabirpur, Distt. Jajpur.
93283	Nityananda Bhoi Yudhistir Bhoi	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4671 11/06/02	At. Mahulpali, PO. Temri, Via Palkamal, Distt. Bargarh.
93284	Nrusikesh Lenka Bhimbadhar Lenka	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4650 31/05/02	At. PO. Talasanga, Via Marsaghai, Distt. Kendrapada.
93285	Nutan Samal Samarendra Samal	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4991 16/08/04	C/o B.K. Rout N-4, F-27, IRC Village, Nayapalli, Bhubaneswar.
93286	P.M. Jonny Nityananda Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5069 21/03/05	At. PO. Sehada, Distt. Bhadrak.
93287	Padarbind Patra Ananta Charan Patra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4681 19/06/02	Plot No. 495 (1) Nua Sahi, Nayapalli, Bhubaneswar, Distt. Khurda.
93288	Padarbinda Dash Narayan Chandra Dash	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4852 29/05/03	At. PO. Sarbodayanagar, Distt. Puri.
93289	Padma Lochan Jena Gopal Jena	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5065 14/02/05	At. Mandarasahi, PO. Sukhasanda Via, Dehurda, Distt. Balasore.
93290	Padmaja Mishra Nilakanth Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	5042 23/12/04	Mishra Sahi, Markandeswar Sahi, Puri.

93291	Pandab Chandra Biswal Raghunath Biswal	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	5026 27/11/04	At. Osingl, PO. Ghodapalan, Distt. Ganjam.
93292	Pareesh Kumar Satpathy Banamali Satpathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4678 19/06/02	C/L-75, VSS Nagar, PO. Bhubaneswar-4, Vani Vihar.
93293	Parsuram Choudhuri Chungjial Choudhuri	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	5071 21/04/04	At/PO. Bara, Via Bhukta, Distt. Bargarh.
93294	Patitapaban Dash Maheswar Dash	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4727 21/10/02	At. Jebandeipur, PO. Sunakhala, Distt. Khurda.
93295	Prabesini Sahu Pitambar Sahu	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	5025 25/11/04	At/PO. Tulaspal, Via Banarpal, Distt. Abgul.
93296	Prabha Nair K. Krishnan Nair	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4917 27/10/03	At. Samanta Sali, PO. Boxbazar, Distt. Cuttack.
93297	Prabhatkar Das Brundaban Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4763 17/01/03	At/PO. Madhapur Distt. Nayagarh.
93298	Prabhat Kumar Nayak Khali Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4747 16/01/03	At/PO. Bhawanipatna, Distt. Kalahandi.
93299	Pradeep Kumar Jena Purna Chandra Jena	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4924 31/12/03	At/PO. Srikantapur, Distt. Balasore.
93300	Pradeep Kumar Pradhan Rabi Charan Pradhan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5067 01/03/05	At. Arakhapal, PO. Kumdhelgola, Via Realmal, Distt. Dargan.
93301	Pradeep Kumar Ranjit Pankaj Ranjit	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4721 07/09/02	At. Tarapi, PO. Soran, Via Kuhuri, Distt. Khurda.
93302	Pradepta Mishra Prasanna Kumar Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4698 01/08/02	At/PO. Brahmapur, Via Charbatia, Distt. Cuttack.
93303	Pradipta Kumar Pani Lokanath Pani	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4653 07/06/02	At/PO. Bishnupur, Via Nilmapara, Distt. Puri.
93304	Pratulla Chandra Mahanta Kailash Chandra Mahanta	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4754 16/01/03	At. Dianali, PO. Mushakori, Via Patna, Distt. Keonjhar.

93305	Prakash Kumar Patra Niranjan Patra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4755 16/01/03	At. Tulasichoura, PO. Baripada, Distt. Mayurbhanj.
93306	Prakash Ranjan Tripathy Laxmidhar Tripathy	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4995 19/08/04	At/PO. Baulabandha, Via Gangadharpur, Distt. Khurda.
93307	Pramod Kumar Meher Surendra Ku. Meher	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4977 09/08/04	At. Goshala, PO. Kalamati, Distt. Sambalpur.
93308	Pramoda Kumar Gauda Gandhiram Gauda	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4703 28/08/02	At. Govindapur, PO. Nettanga, Via Gobara, Distt. Ganjam.
93309	Prasad Kumar Gouda Abhiram Gouda	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4660 07/06/02	At/PO. Perupanga, Via Padmapur, Distt. Rayagada.
93310	Prasanna Kumar Prusti Prahallad Prusti	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4987 16/08/04	At/PO. Dabardhuapatna, Via Bolagarh, Distt. Khurda.
93311	Prasant Kumar Jally Sudarsan Jally	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4655 07/06/02	At/PO. Satapada, Via Brahmagiri, Distt. Furi.
93312	Prasanta Kumar Nayak Bidyadhar Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4912 23/09/03	At/PO. Panikoili, Distt. Jajpur.
93313	Prasanta Kumar Padhi Mayadhar Padhi	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2005	5043 14/01/05	At. Lunahar, PO. Khalena, Via Sainkul, Distt. Keonjhar.
93314	Prasanta Kumar Sahoo Sudarsana Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4955 26/03/04	At. Jemadeipur Patna, PO. Mandhatapur, Distt. Nayagarh.
93315	Prativa Satapathy Gangadhar Satapathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4750 16/01/03	C/o Bidyut Ku. Mishra, At. Mathasahi, PO. Satyabadi, Distt. Furi.
93316	Pravat Ranjan Mohanta Ram Chandra Mohanta	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	5070 20/04/05	At. Samkula, PO. Kendudihia, Via Barsahi, Distt. Mayurbhanj.
93317	Pritam Pritiman Nayak Golak Bihari Nayak	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4693 06/07/02	At/PO. Bandhapada, Distt. Kalahandi
93318	Priti Kumari Singh Daroga Prasad Singh	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5017 28/09/04	At. Salepali, PO & Distt. Balasore

93319	Priyadarshini Panda Narasingh Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4753 16/01/03	At/PO. Kapildevisahi, Bhubaneswar, Distt. Khurda.
93320	Priyadarsini Das Gagan Kumar Gas	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5036 07/12/04	C/o Dr. S.K. Das, At Kompally, Ram Nagar, Ist Lane Berhampur, Ganjam.
93321	Priyadarsini Sarangi Dasarathi Sarangi	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4875 26/06/03	At. Ralkhandi, PO. Cabakund, Distt. Puri.
93322	Pronab Halder Prabhas Chandra Halder	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4981 10/08/04	At. Nehrunagar, PO. Berhampur, Gosanihuagaon, Distt. Ganjam.
93323	Punam Das Pradipta Ku. Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4893 28/07/03	Plot No.285-A, Sahidnagar, Bhubaneswar.
93324	Purandar Sahu Muralidhar Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4840 29/04/03	At. Rampur, PO. Duduka, Distt. Balangir.
93325	Purna Chandra Patro Ramanath Patro	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4680 19/06/02	At/PO. Kashinagar, Distt. Gajapati.
93326	Purna Chandra Thakur Purusottam Thakur	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4850 14/05/03	At/PO. Deogaon, Via Bardol, Distt. Bargarh.
93327	Puspa Rani Chandrakar Radheshyam Chandrakar	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4827 24/04/03	At/PO. Bhaleswar, Via Kharlar Road, Distt. Nuapada.
93328	Puspanjali Pradhan Ghanashyam Pradhan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4778 18/01/03	At/PO. Borida (A), Via Kabisurya Nagar, Distt. Ganjam.
93329	Pusparani Puntia Medhusudan Puntia	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4760 17/01/03	At. Ajamampur, PO. Anandbazar, Distt. Bhadrak.
93330	Puspita Mund Padmanav Mund	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4892 25/07/03	At/PO/Distt. Malkangiri.
93331	R. Mini Kumari V. Chelleppan	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4865 19/06/03	At. Anandnagar, PO/Distt. Balangir.
93332	R. Seema Kumari V. Chelleppan	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4854 19/06/03	At. Anand Nagar, PO/Distt. Balangir.

93333	Rabinarayan Behera Gayadhar Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4790 24/01/03	At/PO. Kurunta, Via Turigaria, Distt. Balasore.
93334	Rabinarayan Khadenga Harihar Khadenga	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4799 30/01/03	Goudabad Sahi, PO/Distt. Puri.
93335	Rabindra Kumar Patra Rama Chandra Patra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4802 04/02/03	At. Badamaisadi, PO. Dalua-1, Via Ballipal, Distt. Balasore.
93336	Radhakanta Sahoo Rabindranath Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4776 18/01/03	At/PO. Padmavati, Via Bhampur, Distt. Nayagarh.
93337	Raja Santosh Kumar Mohapatra Ramachandra Mohapatra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4661 07/06/02	At. Sirlapur, PO. Satasankha, Via Patnaikia, Distt. Puri.
93338	Rajani Kanta Bagal Madhusudan Bagal	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4933 10/02/04	At. Barapada, PO/Via Pratappur, Distt. Mayurbhanj.
93339	Rajashree Ranjita Behera Jaya Chandra Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4781 18/01/03	At/PO. Badakhaladi, Distt. Mayurbhanj.
93340	Rajat Kumar Naik Pravakar Naik	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4999 20/08/04	At. Punesia, PO. Bankati, Via Bangliposi, Distt. Mayurbhanj.
93341	Rajat Kumar Sethy Ganesh Prasad Sethy	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4665 07/06/02	At/PO. Kalyanpur, Via Binjharpur, Distt. Jajpur.
93342	Rajeeb Ku. Majhi Mahendra Prasad Majhi	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4984 11/08/04	At/PO. Aruhabad, Via Gopalpur, Distt. Balasore.
93343	Rajendra Kumar Panigrahi Satrughna Panigrahi	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4717 02/09/02	At/PO. Nachhipur, Distt. Balasore.
93344	Rajesh Mantri Sushanta Kumar Mantri	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4869 19/06/03	At. Makarbagsahi, PO. Baxibazar, Distt. Cuttack.
93345	Rama Ballava Panda Krutibas Panda	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4712 29/08/02	At. Kanlida, PO. Salabhadrapentho, Via Surangi, Distt. Ganjam.
93346	Rama Mohan Sinha Hara Mohan Sinha	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4884 16/07/03	At. Baisahi, PO. Gop. Distt. Puri.

93347	Ramakanta Saint Narayan Ch. Saint	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4768 18/01/03	At/PO. Khadimahara, Distt. Bhadrak.
93348	Ramani Ranjan Patra Surendra Patra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5075 19/05/05	At/PO. Keonjharagarh, Distt. Keonjhar.
93349	Ramanuja Pattnaik Lakshminarayan Pattnaik	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5029 08/12/04	At/PO. Radhakrushna Street, Berhampur, Ganjam.
93350	Ramesh Kumar Podh Chhella Podh	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4735 10/01/03	At. Godabari, PO. Brahmania, Distt. Puri.
93351	Ranilata Panda Laxman Kumar Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4641 01/05/02	At/PO. Aparna Nagar (Kaibalya Vihar) Distt. Cuttack.
93352	Ranjan Kumar Panda Prafulla Kumar Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4643 01/05/02	At. Daruha, PO. Katisahi, Via Kamarda, Distt. Balasore.
93353	Ranjeeta Singh Deo Dinendra Pratap Singh	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4649 31/05/02	At. Clubpara, PO/Distt. Balangir.
93354	Ranjit Kumar Dass Laxmidhar Dass	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4863 19/06/03	At/PO. Fakirpur, Distt. Keonjhar.
93355	Ranjita Ekta B. Vimsen Ekta	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5050 28/01/05	Q.No.3R/3/4, Kaipana Flat, Bhubaneswar.
93356	Ras Manjari Manhira Biranchinarayan Manhira	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4672 13/06/02	At/PO. Jogisarda, Via Loisingha, Distt. Balangir.
93357	Rashmi Behera Jayaram Behera	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5005 01/09/04	At. Atamala, PO/Distt. Jagatsinghpur.
93358	Rashmi Rekha Sahoo Lambodar Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4751 16/01/03	At. Deumatota, PO/Distt. Puri.
93359	Rashmi Rekha Dash Prahalad Dash	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4902 13/08/03	At/PO. Talamul Shasan, Distt. Angul.
93360	Rashmita Mayadhar Sethy	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5004 30/08/04	At/PO. Totapada, Via Kishannagar, Distt. Cuttack.

93361	Rasmi Ranjan Mohapatra Sisir Kumar Mohapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4674 19/06/02	At. Dihasaibiri, PO. Bara Jia, Via Anakhia, Distt Jagatsinghpur
93362	Rasmi Ray Guru Debi Prasad Rayguru	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4718 02/09/02	At. Kaligali, PO. Chandini Chowk Distt. Cuttack
93363	Rayaman Kumar Mishra Rabindra K Umar Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4788 21/01/03	At/PO. Gundlichapara, Via Gadasila, Distt. Dhenkanal
93364	Ritendra Mohanty Jadunath Mohanty	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4668 10/06/02	At. Mahipal, PO. & Distt. Kendrapara
93365	Ritesh Ballar Singh Radha Mohan Ballarsingh	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4720 07/09/02	At/PO. Bhajagari, Via Tangli, Distt. Khurda
93366	Ritesh Kumar Sahoo Hrudananda Sahoo	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4664 07/06/02	At. Cement Nagar, PO. Bardol, Distt. Bargarh
93367	Rohita Kumar Behera Abhimanyu Behera	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2000	4803 04/02/03	At/PO. Hataberadi, Via. Kuchuri, Distt. Khurda
93368	Rutuparna Mohanty Nagendranath Mohanty	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4758 16/01/03	Bhaskargani, O.T. Road, Balasore
93369	Sachidananda Hansda Rameswar Hansda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4899 08/08/03	At. Kalkapur, PO. Baripada, Distt. Mayurbhanj
93370	Sagara Ranjan Srichandan Upendranath Srikchandan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4767 18/01/03	At/PO. Ora, Distt. Puri
93371	Sagarika Das Samareswar Das	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4714 02/09/02	At. Hemsurpara, PO/Distt. Angul
93372	Sagarika Mishra Harekrishna Mishra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5012 27/09/04	At/PO. Padampur, Distt. Bargarh
93373	Saigdha Panda Suresh Chandra Panda	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4824 07/04/03	At/PO. Phasi, Distt. Ganjam
93374	Sailesh Ku. Dewangan Unital Dewangan	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4986 13/08/04	At. Sirtol, PO/Distt./Nuapada

93375	Sajata Nayak Muralidhar Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4906 27/08/03	At. Baghabuda, PO. Rajkarika, Distt. Kendrapara.
93376	Saiyoti Prakash Meher Durga Prasad Meher	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4996 20/08/04	At/PO. Binka (Nuapara), Distt. Subarnapur.
93377	Sailia Mohan Mohanty Lalit Mohan Mohanty	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4973 05/08/04	Plot No.40, Tankapani Road, Rajarani Temple Hatiasuni Lane, Old Town, Bhubaneswar.
93378	Sailila Panda Duryodhan Panda	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4673 14/06/02	At. Alipur, PO. Ramchandrapur, Via Bari, Distt. Jajpur.
93379	Sambit Kumar Das Rabi Narayan Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	5049 28/01/05	Bodhi Bhavan, Chandmaripadia, PO> Sahadevkhunta, Balasore.
93380	Sanat Kumar Dash Chintamani Dash	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5061 31/01/05	At. Champagadi, PO. Ranibandh, Distt. Mayurbhanj.
93381	Sandeep Ku. Mohanty Bishnupada Mohanty	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5055 28/01/05	At. Patharpur, PO. Jaleswar, Distt. Balasore.
93382	Sandeep Kumar Samal Rama Chandra Samal	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4928 09/01/04	At/PO. Brahmapura, Via Amarada, Distt. Mayurbhanj.
93383	Sandhya Rani Badhai Gosein Badhai	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4992 16/08/04	At. Kultapara, PO. Brajaraj Nagar, Distt. Jharsuguda.
93384	Sangeeta Sahu Biswanath Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4686 25/06/02	At/PO. Pajkamal, Distt. Bargarh.
93385	Sanghamitra Dash Satyabrata Dash	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5033 07/12/04	At/PO. Brahanigan, Via Are, Distt. Jajpur.
93386	Sanjay Kumar Sahoo Gouranga Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5054 28/01/05	At. Bidharpur, PO. Abhimannpur, Via Nuapattna, Distt. Cuttack.
93387	Sanjaya Kumar Das Rabindra Nath Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4730 09/12/02	At. Odanga (Jhatia Sasan) PO. Barabati, Distt. Jajpur.
93388	Sanjaya Kumar Dubey Parasnath Dubey	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4847 08/05/03	At/PO. Shantipada, Distt. Balangir.

93389	Sanjeeb Kumar Biswal Kailash Biswal	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4838 28/04/03	At/PO, Budula, Via Agaipur, Distt. Balangir.
93390	Sanjay Kumar Das Arjun Chandra Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4898 31/07/03	At. Dhipasahi, W.No.11, PO. Baripada, Distt. Mayurbhanj.
93391	Sanjib Kumar Dash Dinabandhu Dash	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4985 11/08/04	At. Bishalipali, PO. Nalupali, Via Bardol, Distt. Bargarh.
93392	Sanjib Sahu Bishnu Charan Sahu	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4889 23/07/03	At. Umashankar Bazar, PO. Turang, Distt. Angul.
93393	Sanmaya Kumar Acharya Babaji Charan Acharya	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4868 19/06/03	At. Alishahabazar, Mangala Shahi, PO. Chandini Chowk, Cuttack.
93394	Santilata Subudhi Nilakantna Sabudhi	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5024 10/11/04	Bhagabati Health Care Ma Mangla Mandir Market Complex, Siali No. 12, Station Rd., Titilagarh, Distt. Balangir.
93395	Sarani Ranjan Samal Sankarsan Samal	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4910 23/05/03	At/PO. Palini, Distt. Kendrapara.
93396	Sarita Dash Sarojakanta Dash	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4798 30/01/03	At. Anandanagar (Kathagoda) PO/Distt. Dhenkanal.
93397	Surita Mishra Harekrishna Mishra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5011 27/09/04	At/PO. Padampur, Distt. Bargarh.
93398	Sarita Mohanta Mukunda Chandra Mohanta	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4891 24/07/03	At. Sarbodaya Nagar, Balukhanda, PO/Distt. Puri.
93399	Saritra Parida Dwijabara Parida	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4934 10/02/04	Plot No.1298/4, Sastri Nagar, Unit-IV, Bhubaneswar.
93400	Saroj Kumar Karan Suresh Chandra Karan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 1996	4694 19/07/02	At. Kusuti, PO. Madhupur, Via Kamarda, Distt. Bolasore.
93401	Saroj Kumar Sahu Laxmidhar Sahu	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4956 26/03/04	At. Kukuta, PO. Balini, Distt. Bhenkanal.
93402	Sarthak Sanket Biswal Balakrishna Biswal	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4707 28/08/02	At. Laisingi, PO. Nheiput, Via Bhanjangan, Distt. Ganjam.

93403	Saryakanta Samantaray Jaglnath Samantaray	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5018 28/09/04	At. Bailpatana, PO. Badas, Distt Puri.
93404	Sasanka Sekhar Misra Amulya Kumar Misra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4890 24/07/03	At/PO. Kabisuryanagar, Distt Ganjam.
93405	Sashwata Kumar Behera Udaya Nath Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4759 17/01/03	At. Nuahata, PO. Banarpal, Distt Angul.
93406	Sasmita Khilar Balabhadra Khilar	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4819 02/04/03	At. Dakhinbad, PO. Dhamnagar, Distt Bhadrak.
93407	Sasmita Panigrahi Upendra Ku. Panigrahi	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2000	4637 06/04/02	At/PO. Jayadurganagar, Berhampur, Distt. Ganjam.
93408	Sasmita Pattanaik Padma Charan Pattanaik	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4825 07/04/03	At. Chotaraypur, PO. Gangadharpur, Distt. Khurda.
93409	Sasmita Samantaray Bhramarbar Samantaray	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4782 18/01/03	At. Jodapadar, PO. Shantidham, Via Kanas, Distt. Puri.
93410	Sasmita Tripathy Nabin Kumar Tripathy	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4990 16/08/04	At/PO. Pratapsagarpara, Distt. Balangir.
93411	Satyajit Pradhan Manoranjan Pradhan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4909 04/09/03	At. Athara Banki, PO. Athara Banki S.E. Ry. Colony, Distt. Jaghatsinghpur.
93412	Satyanarayan Sahoo Dhananjaya Sahoo	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5028 06/12/04	Old Berhampur Street, PO. Big Bazar, Berhampur, Distt. Ganjam.
93413	Satyanarjan Panda Bidyadhar Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	5007 03/09/04	At. Bailpalsahan, PO. Bhaunriabad, Distt. Balasore.
93414	Saumya Sanintoshia Parida Brundaban Parida	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4980 10/08/04	LIG-77, Khandagiri, Dumuduma, Housing Board Colony, Distt. Khurda.
93415	Saumyakanta Panda Swapneswar Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4907 29/08/03	At/PO. Sailo Govindpur, Distt. Cuttack.
93416	Saumyanarjan Acharya Jadunath Acharya	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4960 26/03/04	Shanti Vihar, Baramunda, Plot No. 15/2495, Lane-II, H.No.22, HIG Colony, Bhubaneswar.

93417	Saurabha Nayak Chhayakanta Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4961 26/03/04	At/PO. Mohinipur Puri Sadar, Distt. Puri.
93418	Savitri Sahu Bidyadhar Sahu	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4740 10/01/03	At. Palsada, PO. Dava, Via Jharbandh, Distt. Bargarh.
93419	Shantimaya Panigrahi Brajanarayana Panigrahi	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5006 03/09/04	At/PO. Dahamunda, Distt. Balasore.
93420	Sharmistha Sarkar Rabindra Nath Sarkar	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4669 11/06/02	At. Balipatpur Colony, PO. Bhusandapur, Distt. Khurda.
93421	Shashidhar Sahu Dibakar Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4923 15/12/03	At. Ganthipali, PO. Papanga, Via Bheden, Distt. Bargarh.
93422	Shibabrata Das Bibekanda Das	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4918 30/10/03	At/PO. Sahadevkhunta, Distt. Balasore.
93423	Shukanti Sahu Jayakrushna Sahu	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4779 18/01/03	Moharana Sahi Bibekanda Marg, Bhubaneswar-2.
93424	Siba Prasad Mukunda Prasad Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4913 24/09/03	At/PO. Moradapada, Distt. Puri.
93425	Sibapriya Mallik Manomohan Mallik	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5039 13/12/04	At/PO. Gad Deulia, Distt. Mayurbhanj.
93426	Simadri Bhushan Nayak Laxmikanta Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4946 26/03/04	At/PO. Susua, Distt. Bhadrak.
93427	Sipra Pattanaik Prasant Ku. Pattanaik	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5056 28/01/05	At/PO. Khapuria, Balisahi Near OGP High School, Distt. Cuttack.
93428	Sipra Sahoo Gobinda Chandra Sahoo	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5019 01/10/04	At. Narasinghpur (Nahangapatna) PO. Nahangapatna, Via Dharmasala, Distt. Jajpur.
93429	Smita Bahinipati Prasanna Bahinipati	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4756 16/01/03	At/PO. Sidhamahavirpatna, Distt. Puri.
93430	Smita Mohanty Satya Ku. Mohanty	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5040 17/12/04	L.B./314, Badagada Brit Colony PO. Badagada, Distt. Khurda.

93431	Smita Munimayee Dash Gatikrushna Dash	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4858 19/06/03	At/PO. Khadagprasad, Distt. Dhenkanal.
93432	Sobarani Burma Rabindra Nath Narendra Singh Burma	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4849 14/05/03	At. Achyutrajpur Sasan College Road, PO. Bampur, Distt. Khurda.
93433	Sobhabati Sethy Dhaneswar Sethy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	4963 27/03/04	Plot No.810/2750, At/PO. Nayapally, Distt. Khurda.
93434	Sonalika Jena Gangedhar Jena	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5057 28/01/05	Water Works Road, Puri.
93435	Sonalin Mohapatra Sirmanchal Mohapatra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4970 03/08/04	At/PO. Godabarisha Nagar, Berhampur, Ganjam.
93436	Soubhagini Sethi Bhramarbar Sethi	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4705 28/08/02	At/PO. Eranth, Distt. Cuttack.
93437	Soumya Moharana Uday Charan Moharana	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4885 17/07/03	At/PO. Nuapada, Distt. Nuapada.
93438	Soumya Ranjan Sahoo Madan Mohan Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	5052 28/01/05	At/PO. Korua, Via Asurali, Distt. Bhadrak.
93439	Subash Chandra Nayak Dolamani Nayak	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4975 05/08/04	At. Nuapali, PO. Kansingha, Distt. Bargarh.
93440	Subasish Mohanty Ratis Chandra Mohanty	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4812 28/03/03	At. Bhoisahi, PO/Distt. Balasore.
93441	Subhransu Sekhar Dash Jagabandhu Dash	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4842 30/04/03	At/PO. Olanga, Via Randiahath, Distt. Bhadrak.
93442	Subhransu Sekhar Mishra Kalakrushna Mishra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4935 11/02/04	At/PO. Kubelega, Via Bheden Distt. Bargarh.
93443	Subodh Kumar Gouda Dayanidhi Gouda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4805 04/02/03	At. Boribandh, PO. Gururaji, Via Kulada, Distt. Ganjam.
93444	Subrat Kumar Mohakud Rameswar Mohakud	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4900 08/08/03	At/PO/PS Karanjia, W.No.9, Distt. Mayurbhanj.

93445	Subrat Kumar Tripathy Radhashyam Tripathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2005	5047 28/01/05	At/PO. Angargadia, Near Block Colony, Distt. Balasore.
93446	Subrat Swarup Panda Prasanta Ku. Panda	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4687 25/06/02	At/PO. Kodala, Distt. Ganjam.
93447	Subrata Ku. Mahapatra Sampat Ku. Mahapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4745 10/01/03	At. Padmapur, PO. Mahura, Via. Gabakunda, Distt. Puri.
93448	Subrata Patra Maninath Patra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4689 26/06/02	Q.No.A/L-111, Bhimatangi Housing Board Colony, Phase-I, Bhubaneswar, Distt. Khurda.
93449	Suchismita Satapathy Govinda Chandra Satapathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4857 19/06/03	Plot No.3312/4927, Back side of Lingaraj Market, Ganga Jamuna Road, Old Town, BBSR-2.
93450	Sudam Kumar Agrawalla Dhruva Charan Agrawalla	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4656 07/06/02	At/PO. Loisingha, Distt. Balangir.
93451	Sudhakar Khilar Dillip Ku. Khilar	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4647 30/05/02	At/PO. Saruali, Via Teikoi, Distt. Keonjhar.
93452	Sudhaldev Mohapatra Subash Chandra Mohapatra	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4816 31/03/03	At. Madhyakhandi, PO. Sribaladevjeu, Distt. Kendrapara.
93453	Sudhanshu Sekhar Pradhan Suresh Chandra Pradhan	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4766 17/01/03	At. Sinkulapat, PO. Sapolinalu, Via Bagdia, Distt. Angul.
93454	Sudhansubala Patnaik Sarat Chandra Patnaik	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4927 09/01/04	At. Nadlikhandi Sahi, PO/Distt. Phulbani.
93455	Sudhir Kumar Pani Trinath Pani	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4741 10/01/03	At. Brahmanpurunakote, PO. Paikpurunakote, Distt. Dhenkanal.
93456	Sujata Panda Prafulla Kumar Panda	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4853 11/06/03	At/PO. M. Rampur, Distt. Kalahandi.
93457	Sujata Pradhan Iswar Chandra Pradhan	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	4940 23/03/04	At/PO. Jayadurga Nagar, Berhampur Town, Distt. Ganjam.
93458	Sujata Rout Sudarsan Rout	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4808 28/03/03	At. Narangapur, PO. Keshasurapal, Distt. Keonjhar.

93459	Sujit Kumar Mohanty Sarat Chandra Mohanty	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4762 17/01/03	At. Odakhanda, PO. Banalasan, Distt. Khurda.
93460	Sukant Kumar Naik Ritu Naik	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4706 28/08/02	At. Terabati, PO. Bhimapur, Via Berbol, Distt. Puri.
93461	Sumitra Dash Pratibha Kumar Dash	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4832 25/04/03	At. Gopaljee Temple, Campus, PO/Distt. Balangir.
93462	Sumitra Mohapatra Shyam Sunder Mohanpatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4770 18/01/03	Q.No.2RA-3/4, O.U.A.T. Colony, Unit-8, BBSR.
93463	Sunil Kumar Nayak Mohan Prasad Nayak	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4845 02/04/03	At. Kusumdarha, PO. Bijedhal,, Distt. Bargarh.
93464	Sunita Kumari Goenka Prakash Goenka	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4797 29/01/03	At. PO. Beipahar, Distt. Jharsuguda.
93465	Sunita Pradhan Gaurahari Pradhan	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	4942 25/03/04	W/o Sapan Kumar Bindhani, At. Kanakpada, PO. Behubandha, Distt. Mayurbhanja.
93466	Suprava Mishra Pratibha Ku. Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4774 18/01/03	Plot No.30, Jayadurga Nagar, Jharpada, BBSR-6.
93467	Suprava Sahoo Narahari Jena	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	4941 24/03/04	At. Nuapada (Nilima Appartment), PO/PS Madhupatna, Distt. Cuttack.
93468	Surabhi Mishra Sachidananda Mishra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4830 25/04/03	At. Gandhinagarpara, PO/Distt. Balangir.
93469	Surama Mishra Sachidananda Mishra	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4831 25/04/03	At. Gandhinagarpara, PO/Distt. Balangir.
93470	Surendra Behera Bandhu Charan Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4765 17/01/03	At. Balipatana, PO. Marichpur, Via Machhagon, Distt. Jagatsinghpur.
93471	Surendra Sundaray Biswanath Sundaray	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4821 04/04/03	At. Gopinathpur, PO. Brajamohanpur, Via Narangarh, Distt. Khurda.
93472	Suresh Kumar Nayak Gangadhar Nayak	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4679 19/06/02	At. Gopa, PO/Distt. Kendrapara.

93473	Surjit Panigrahy Ramakrushna Panigrahy	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5027 06/12/04	At. Ashok Nagar, 8th Line PO. Berhampur, Distt. Ganjam.
93474	Surjit Ranjan Behera Baikunth Nath Behera	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4733 10/01/03	At/PO. Naduan, Distt. Keonjhar.
93475	Surya Narayan Tripathy Shyama Sundar Tripathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	5074 19/05/05	Rath Lane, Markandeswar Sahi, PO. Puri.
93476	Suryakanta Mugri Krupasindhu Mugri	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4836 28/04/03	At. Chantimunda, PO. Bidighat, Distt. Balangir.
93477	Suryanarayan Panigrahi Lakshminarayan Panigrahi	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4810 28/03/03	At. Ria, PO. Simulia, Distt. Balasore.
93478	Susanta Kumar Rout Dhaneswar Rout	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4894 28/07/03	At. Kantishal, PO. Karanga, Via Niali, Distt. Cuttack.
93479	Sushant Kumar Senapaty Bijaya Kumar Senapaty	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4851 28/05/03	At. Porakana, PO. Manijanga, Distt. Puri.
93480	Sushanta Kumar Giri Chakradhar Giri	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4862 19/06/03	At. Madhupura, PO. Beli, Via Singla, Distt. Balasore.
93481	Sushil Kumar Mohapatra Madhu Sudan Nayak	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4937 21/02/04	At/PO. Ramachandrapur, Distt. Jajpur.
93482	Sushmita Sethy Nrusingha Charan Sethy	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5038 13/12/04	Gopabandhu Chhak E'ard Colony At/PO. Burla, Distt. Sambalpur.
93483	Sushree Smita Tripathy Khetrabasi Tripathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4757 16/01/03	At/PO. Pattamuridai, Distt. Kendrapara.
93484	Susmita Senapati Nabin Kumar Senapati	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	5000 25/08/04	At/PO. Haladipapada, Via Basta, Distt. Balasore.
93485	Suvra Sahoo Bibhuti Bhushan Sahoo	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4903 25/03/03	At/PO. Bhakarsahi, Distt. Puri, Khurda.
93486	Swagatika Satapathy Bibekananda Satapathy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2000	4636 06/04/02	At. Natisalpada, PO/Distt. Angul.

93487	Swarna Pratap Sahu Brushaba Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4691 28/06/02	At/PO> Katapali, Via Bardol, Distt. Bargarh.
93488	Swarna Prava Behera Baikunth Nath Behera	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2004	5044 17/01/05	At/PO. Bancho, Via Fakipur, Distt. Keonjhar.
93489	Swati Dash Radhashyam Dash	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4895 29/07/03	At. Gajapatnagar/120, PO & Distt. Puri.
93490	Swapanarani Mohapatra Rahashabehari Mohapatra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4785 20/01/03	At/PO. Kendukhunta, Via Sainkul, Distt. Keonjhar.
93491	Tapan Kumar Samal Apariti Samal	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4834 25/04/03	At. Sipakuda, PO. Nuagaon, Badabhin, Via Brahmagiri,
93492	Tapaswini Sathy Sanatan Sethy	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4688 26/06/02	At/PO. Suakati, Distt. Keonjhar
93493	Tarini Prasad Mohanty Sarat Chandra Mohanty	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2004	5010 08/09/05	At. Janfa, PO. Ghesipura Distt. Keonjhar.
93494	Tribikram Meher Brajmohan Meher	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2003	4837 28/04/03	At/PO. P. Rampur, Distt. Balasgiri.
93495	Trilochan Das Jagannath Das	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2003	4725 10/10/02	At. Raisuan, PO. Naladipada, Distt. Balasore.
93496	Tumala Sarita T. Venkata Ramana	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4793 27/01/03	At. Gandhinagar, PO. Berhampur, Distt. Ganjam.
93497	Tushara Kanta Singh Bidyadhar Singh	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2002	4701 28/08/02	At. Aliasahi, PO. Anandapur, Distt. Keonjhar.
93498	Umakanta Khatai Upendra Khatai	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4695 19/07/02	At. Odakhanda, PO. Badalasan, Distt. Khurda.
93499	Umesh Chandra Sahu Nilamani Sahu	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5016 27/09/04	At/PO. Rinbachan, Via Agalpur, Distt. Balangir.
93500	Umesh Kumar Sahoo Krishna Kumar Sahoo	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2000	5063 07/02/05	At. Jamsath, PO. Paikmal, Distt. Bargarh.

93501	Upendra Ku. Gantayat Yudhistir Gantayat	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	5015 27/09/04	At/PO. Panikoli, Distt. Jajpur.
93502	Usha Rani Jatti Arakhita Jatti	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4897 30/07/03	At. Trutiapada, PO. Bolagarh, Distt. Khurda.
93503	Usharani Mishra Maheswar Mishra	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4696 23/07/02	At. Nandira Colony, Badajorada-GP, C.No.B/23, PO. South Balanda, Distt. Angul.
93504	Utkal Kumar Behera Anadi Charan Behera	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2004	4982 11/08/04	At/PO. Ambo Via Fakirpur, Distt. Keonjhar.
93505	Utkal Meher Sambaru Meher	BAMS Sambalpur Univ., Burla Sambalpur 2002	4659 07/06/02	At/PO. Ledhimang, Distt. Sundargarh.
93506	Vandana Choudhury Bhubaneswar Choudhury	BAMS Berhampur Univ., Berhampur 2005	5068 16/03/05	At. Neelakantha Nagar, MIG-18, Stage-II, PO. Berhampur, Distt. Ganjam.
93507	Viswambharan V. K. Kelukutty Vaidiar V. K.	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2002	4682 19/06/02	Vadakaipadiniliathu PO. Karumala, Kozhikode, Kerala.
93508	Vivek Ranjan Singh Kameshwar Prasad Singh	BAMS Utkal Univ., Bhubaneswar 2003	4791 25/01/03	At. Gopalmai, PO. Budharaja, Distt. Sambalpur.

Registrar
Central Council of Indian Medicine
New Delhi

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006